



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 21, 2004/आश्विन 29, 1926

No. 174]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 21, 2004/ASVINA 29, 1926

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2004

फा० सं० 10-7/2003-वीसीआई.— भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसरण में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् से भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर बनाये रखने की अपेक्षा की गई है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट होंगे जो मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता धारण करते हैं और जो उस राज्य/संघ की पशु चिकित्सा के पास तत्समय नामावलीगत है जिस पर अधिनियम का विस्तार है।

सचिव, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देते हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर 2003 का अनुपूरक साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1	ए.के. सिंह, पुत्र श्री आर.पी. सिंह	यूपीएसवीसी / 3704 / 03	हथौडा रोड, टीचर्स कॉलोनी, वजीर मंज, जिला- बुंदेलखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 82	10.9.60
2	ए.के. श्रीवास्तव, पुत्र श्री एच.के. श्रीवास्तव	यूपीएसवीसी / 3595 / 02	1559 केएचए / 161, श्रीनगर, लखनऊ	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 02	30.11.75
3	ए.के. श्रीवास्तव, पुत्र श्री कैलाश श्रीवास्तव	यूपीएसवीसी / 3571 / 02	ग्राम-कैसर, डाक- खेओडी, जिला देवरिया, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 02	30.04.76
4	ए. पनीन्द्र रेड्डी, पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण रेड्डी	एपीएसवीसी / 3890 / 02	अराकटवेमुला, राजूपलेम (एम), कुडप्पा, जिला आं.प्र.	बीसीकेबीवी / एएन जीआरएयू / 2002	10.6.78
5	ए.यू. चैतन्या, पुत्र श्री प्रसाद राव	एपीएसवीसी / 3913 / 03	द्वारा श्री जी. पट्टाभिरानी रेड्डी, देवलामिट्टा, वारिगोडा (ग्राम), टीपीगुडुर (एम), नेल्लोर जिला, आं.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू / 2002	15.8.77
6	ए. वेनुगोपाल, पुत्र श्री राजइयाह	एपीएसवीसी / 3841 / 02	म.न. 1-4-69 / 2, गली. न. 8, हबसीगुडा, हैदराबाद-7 (आं.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / एपीएयू / 1985	03.06.62
7	अब्दुल गफूर पी.ए.	केरलएसवीसी / 2698 / 02	पुथिया वीटिल हाउस, थलीकुलम डाक- थिसूर- 680569	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 02	21.5.79
8	अब्दुल माजिद, पुत्र श्री वली मौहम्मद	पीबीएसवीसी / 2418 / 03	ग्राम- बिनजोकी खुर्द, डाक हैदर नगर, थाना मालेरकोटला	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 03	17.5.76
9	अभिमन्यु कुमार, पुत्र स्व. श्री नारायण	बिहारएसवीसी / 2119 / 01	ग्राम नया सब्जपुरा, खगौल के निकट, डाक खगौल, थाना दानापुर, जिला पटना	बीवीएससीएंडएच / बिहार विवि / 60	10.9.38
10	अबिलाश पी.एस.	केरलएसवीसी / 2696 / 02	पोइकडंडान हाउस, के.के. पदम, कुट्टीचिरा डाक, चलाकुडी, थिसूर-680721	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 02	02.5.77
11	ऐडिलीन एमराल्ड पासाह, पुत्री श्री जे. एस. खोंगलाह	मेघएसवीसी / 195 / 02	मिन्थोंग, जोवाई, जयन्तिया हिल्स जिला- 793150	बीवीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू / 01	16.7.78
12	आदित्य कुमार मिश्रा, पुत्र श्री लखपत राय मिश्रा	वीसीआई / 2419 / 03	प्रोफेसर (आर्गको), पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान कॉलेज, जीबीपीयू एंडटी, पत नगर, यू. एस.नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / सीएसएकेईपीवी / 79	6.1.57
13	आफताब आदिल, पुत्र स्व. मौह. अलीहुददीन	बिहारएसवीसी / 2150 / 01	ग्राम-आधिनबाद सेमर टोली, डाक-कनके, थाना कनके, जिला - रांची	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 01	19.11.74

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
14	अगवाने सचिन भारत	महाएसवीसी / 6592	श्री दत्ता शू मार्ट, विजय चौक, अकलुज, ताल. मालशिरास, जिला सोलापुर- 413101	बीवीएससीएंडएच / एमपीकेवी / 01	30.8.78
15	अहीरे सुनील जगन्नाथ	महाएसवीसी / 6607	28ए, नवजीवन सोसायटी, एकता कॉलोनी मार्केट यार्ड, नाकाने रोड, ए/पी नाकाने, ताल./जिला धुले	बीवीएससीएंडएच / एमपीकेवी / 01	25.1.79
16	अहमद मौह. शहाजउद्दीन, पुत्र श्री शहर अली	एसएमएसवी सी / 2029 / 02	ग्राम बेहबारी, डाक- थामना, जिला- नलबारी	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 02	
17	अजय कुमार दूबे, पुत्र डॉ. के.एन. दूबे	यूपीएसवीसी / 3559 / 02	ग्राम- अर्जुनपुर, डाक- भीषमपुर, वाया सेवापुरी, वाराणसी	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 02	3.1.78
18	अजय कुमार, पुत्र श्री सोम नाथ	एचएआरएसवी सी / 1747	पंजाबी कॉलोनी, जुलाना, जींद	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 02	3.10.78
19	अजय कुमार, पुत्र श्री युगेश्वर रवि दास	बिहारएसवीसी / 2103 / 01	ग्राम- नेरुथ, थाना- सारे, जिला- नालंदा, पिन- 803107	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 00	21.8.77
20	अजय नाथ गोस्वामी	राजएसवीसी / 2904 / 03	आई.बी. कार्यालय के निकट, सरदारपुरा, बाड़मेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 03	29.4.77
21	अजय कुमार सिंह, पुत्र श्री वकील प्रसाद सिंह	एमपीएसवीसी / 2116 / 03	123-बी, राजेंद्र नगर, इंदौर- 452012	बीवीएससीएंडएच / जेएलएनकेवीवी / 00-01	5.2.74
22	अजयवीर सिंह सिरोंही, पुत्र श्री सूरजमल सिरोंही	पंजाबएसवीसी / 2394 / 02	म.न. 1912, गली न. 4, महाराज नगर, लुधियाना- 141001	बीवीएससीएंडएच / सीएसएकेईपीवी वी / 98	1.11.72
23	अजीत कुमार	पंजाबएसवीसी / 2381 / 02	एचजे-366, बी.आर.एस. नगर, लुधियाना	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 99	4.5.75
24	अजीत कुमार गुप्ता, पुत्र स्व. श्री के.पी. गुप्ता	यूपीएसवीसी / 3580 / 02	ग्राम एवं डाक- विशुनपुर, गोरखपुर	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 94	1.1.70
25	अजीत कुमार, पुत्र श्री गोबिंद प्रसाद	बिहारएसवीसी / 2100 / 01	ग्राम- चंदाशी, डाक- नूरसराय, थाना-नूरसराय, जिला- नालंदा, पिन-803113	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 00	2.10.76
26	अजीत कुमार, पुत्र श्री राम चरित्र सिंह	बिहारएसवीसी / 2179 / 01	ग्राम-कोरमा, डाक-वारसिलीगंज, थाना- वारसिलीगंज, जिला- नवादा	बीवीएससीएंडएच / डॉ.बीएसकेकेवी पी / 01	20.2.77
27	अजीत कुमार सी.बी.	केरलएसवीसी / 2574 / 02	चक्कलाक्कल हाउस, पेरीचेरी डाक, त्रिसूर- 680306	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 02	16.1.73

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
28	अकार्त अहीश अनीलपंत	महाएसवीसी / 6656	इरीगेशन कॉलोनी, गोरक्षण रोड, अकोला	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 02	22.7.77
29	अकवी सीमा, पुत्र श्री काहुतो सीमा	एनएसवीसी / 0144 / 00	द्वारा कियेशे अद्युमी आर्म्स एंड ज्युडिशियल ब्रांच, डी.सी. कार्यालय, जुनहेबोतो, नागालैंड	बीवीएससीएंडएच / डॉ.पी.डी.के.बी.पी / 00	24.12.76
30	अखिल चौधरी, पुत्र श्री वी.एस. चौधरी	हरिएसवीसी / / 1727	इंचार्ज, एचसीबीसी, अंचेरा कलां, जींद	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 97	23.6.76
31	अखिलेश पांडे, पुत्र श्री नरसिंह पांडे	बिहारएसवीसी / 2171 / 01	ग्राम-जासा, डाक-चितवीसरन, थाना नगर उटारी, जिला-गरवा	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 01	23.1.73
32	अखिलेश्वर ठाकुर, पुत्र श्री कपलु ठाकुर	बिहारएसवीसी / 2201 / 01	ग्राम-हटनी, डाक-हटनी, थाना- घोघरडीह, जिला-मधुबनी	बीवीएससीएंडएच / एमएयू / 01	6.10.72
33	अकोटकर नंद किशोर सुखदेवराव	महाएसवीसी / 6629	सहारा पोल्ट्री फार्म, अंजनगांव रोड, ए/पी पनाज, तालुक- अकोट, जिला-अकोला	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 02	28.6.79
34	अक्षप्रीत सिंह, पुत्र श्री हरनेक सिंह एवं श्रीमती सुरजीत सिंह	पंजाबएसवीसी / 2333 / 02	म.न. 2288, फेस-11, अर्बन एस्टेट, दूगरी, लुधियाना	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 02	9.10.78
35	अलेक्जेंडर जी., पुत्र श्री एम. गोविंदराज	बीसीआई / 2416 / 03	आदमबाई दक्षिण (डाक), पट्टूकोट्टई (तालुक), थंजापुर, त.ना.	बीवीएससी / टीएन बीएएसयू / 97	25.5.74
36	अल्का सिंह, पुत्री श्री द्वारिका प्रसाद	यूपीएसवीसी / 3565 / 02	पीलीभीत बाई पास रोड, पंछील कॉलोनी के सामने, बरैली, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 02	1.6.79
37	अलका, पुत्री श्री कृष्ण गोपाल	पंजाबएसवीसी / 2411 / 03	धीर स्ट्रीट, बस स्टैंड के निकट, मनसा- 151505	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 01	20.6.79
38	अल्का, पुत्री श्री एल. बी. प्रसाद	बीसीआई / 2420 / 03	एच-62, धरमपुरा, नजफगढ़, नई दिल्ली- 43	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 01	26.8.77
39	अल्लन राज कुल्लू, पुत्र श्री टी.आर. कुल्लू	उड़ीसाएसवीसी / 1908 / 03	क्वा.न. 1 बी-313, एचएएल टाउनशिप, सूनाबाद-2, जिला- कोरापुट	बीवीएससीएंडएच / ओयूएंडटी / 03	27.12.77
40	आलोक शर्मा, पुत्र श्री शिव कुमार	एचपीएसवीसी / 639 / 02	ग्राम एवं डाक- परामपुर, जिला कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / उदयविवि / 80	13.5.58
41	अलोने दीपक बापूराव	महाएसवीसी / 6572	पंचायत समिति क्वार्टर, बम्बई हाइवे न. 6, नंदूरा, तालुक- नंदूरा, जिला-बुलधाना	बीवीएससीएंडएच / पीकेबी / 81	27.8.55
42	अलोने सुभाष दादाराव	महाएसवीसी / 6665	द्वारा अलोने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गोलीबार चौक, दरवा, जिला यवतमाल	बीवीएससीएंडएच / डॉ.पी.डी.के.बी / 01	11.11.68

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
43	आल्फा राज मेकापोगु, पुत्र श्री एम. देवराजुलु	एपीएसवीसी / 3847 / 02	प्लॉट न. 135, गणेश नगर, सी. कैम्प के निकट, कुर्नूल- 518002 (आं.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू / 2002	31.5.78
44	अमल मजुमदार, पुत्र श्री जॉय कुमार मजुमदार	त्रिपुरावीसी / 138 / 02	ग्राम एवं डाक-संतीर बाजार, हॉस्पिटल रोड, जिला-त्रिपुरा दक्षिण	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 95	15.1.69
45	अमनदीप कौर मोही, पुत्री श्री हरनेक सिंह	पंजाबएसवीसी / 2361 / 02	169-ए, फोकल पॉइंट, राजपुरा- 140401	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 02	1.01.78
46	अमनदीप सिंह तूर, पुत्र श्री जोरा सिंह व श्रीमती परमजीत कौर	पंजाबएसवीसी / 2330 / 02	ग्राम एवं डाक-सोवाद्दी कलां, जिला-लुधियाना	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 01	18.10.78
47	अमनदीप सिंह, पुत्र श्री नछत्तर सिंह	पंजाबएसवीसी / 2426 / 03	गली न. 4, के.सी. रोड, बरनाला- 148101	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 03	18.9.75
48	अमर सिंह, पुत्र श्री राम स्वरूप दिवाकर	एमपीएसवीसी / 2081 / 02	ग्राम- बगिया पुर, डाक- बौनापुरा, जिला- भिंड- 477001	बीवीएससीएंडएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	25.5.77
49	अम्बाराय कामनामनी, पुत्र श्री मलकम्मा कामनामन	कर्नाएसवीसी / 3345	अरालगुंडगी डाक, जेवारगी तालुक गुलबर्गा जिला	बीवीएससीएंडएच / यूएसधरवाड / 02	01.06.78
50	अम्बिली वी.एस.	केरलएसवीसी / 2720 / 02	वलिया पराम्बिल हाउस, कल्लीपदम, कुलापुल्ली डाक, शोमुर-2, पलक्कड-679122	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 02	30.5.79
51	अम्बिली गोपीनाथ	केरलएसवीसी / 2689 / 02	अनासवाडा, प्रयार, उत्तरी प्रयार, डाक ओचीरा, अलपुजाह- 690547	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 02	28.5.77
52	अमित गाबा	राजएसवीसी / 2899 / 02	म.न. 6 / 11, आईजीएनपी कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 02	23.10.78
53	अमित कुमार	राजएसवीसी / 2875 / 03	आई आई पी कॉलोनी, मोखमपुर, देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 89	28.3.66
54	अमित कुमार गुप्ता, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता	वीसीआई / 2412 / 03	आशियाना कॉलेज रोड, रामगढ़ कैंट, जिला- हजारीबाग, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 2000	2.6.72
55	अमित कुमार मिश्र	राजएसवीसी / 2926 / 03	वार्ड न. 15, सेक्टर न. 1, म.न. 139 ए, संगार्ता, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 03	1.2.78
56	अमित कुमार पारीक	राजएसवीसी / 2950 / 03	रतनदीप बोहरा कॉलोनी, केकरी, अजमेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 03	31.5.78
57	अमित कुमार, पुत्र श्री हेम राज सिंगला	पंजाबएसवीसी / 2416 / 03	बी-IV / 367, बख्शी पंसारी गली, नाभा- 147201, पटियाला	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 01	17.8.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
58	अमित कुमार, पुत्र श्री राजिंदर शर्मा	एचपीएसवीसी / 619 / 02	ग्राम एवं डाक-भटोली, फकोरियन, थाना- देहरा, जिला- कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीके वी / 01	13.12.77
59	अमित पाल कौर, पुत्री श्री गुरचरन सिंह	पंजाबएसवीसी / 2430 / 03	म.न. 903-डी, दशमेश नगर, नया गांव, चंडीगढ़- 160001	बीवीएससीएंडएच / पीएच / 01	10.6.76
60	अमित तिवारी, पुत्र स्व. श्री एम.एस. तिवारी	यूपीएसवीसी / 3598 / 02	312, हिंद नगर, जिला- लखनऊ	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू एंडटी / 02	16.12.78
61	अमिताश शर्मा, पुत्र श्री राम भरोसे शर्मा	एमपीएसवीसी / 2100 / 02	श्री एस.वाई. औरंगाबादकर, 40-ई, राजेंदर नगर, इंदौर- 452001	बीवीएससीएंडएच / जेएलएनके वीवी / 01-02	5.1.75
62	अमिथा रीना गोम्स, पुत्र श्री फ्रांसिस गोम्स	कर्नाएसवीसी / 3400	ट्रिनिटी मेशन, आर.पी. मट्ट रोड, डाक बोलेहोन्नूर, एन.आर. पुरा, चिकमगलूर जिला 577112	बीवीएससीएंडएच / यूएस बंगलौर / 02	25.8.79
63	अमरेश नायडू, पुत्र श्री मदनगोपाल नायडू	एमपीएसवीसी / 2031 / 02	एम-119, 3-बी, साकेत नगर, भोपाल, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएलएनके वीवी / 00-01	3.7.77
64	अमरिंदरसिंह बरार, पुत्र श्री करमसिंह बरार व श्रीमती परदीप कौर	पंजाबएसवीसी / 2331 / 02	# 1064, फेस-V, एसएस नगर, मोहाली जिला, रोपड़- 160059	बीवीएससीएच / पीएच / 02	22.12.77
65	अमृता अरविंद	केरलएसवीसी / 2705 / 02	कंडाथिपराम्बिल हाउस, उदयगिरि, मलक्काना, मन्नुथी, डाक थिसूर- 680651	बीवीएससीएच / केएच / 02	21.2.79
66	आनंद कुमार, पुत्र श्री गुरो देव दास	वीसीआई / 2422 / 03	क्वा.न. जी-8 टीओसी नगर, साइट-2, सेक्टर-55, नौएडा (उ. प्र.)- 201301	बीवीएससीएच / डब्ल्यूबीयूएंड एफएस / 2000	15.8.76
67	आनंद कुमार, पुत्र श्री गुरुदेव दास	यूपीएसवीसी / 3509 / 02	क्वा.न. जी-8 आईओसी नगर, साइट-2, सेक्टर-55, नौएडा, उ. प्र.	बीवीएससीएच / डब्ल्यूबीयूएंड एफएस / 00	15.8.76
68	अनंतवर लक्ष्मण गोविंदराव	महाएसवीसी / 6616	द्वारा यादवराव तपसालकर, शिवाजी सोसायटी, उद्योग भवन, उदगीर, लाटूर-413517	बीवीएससीएच / पीकेवी / 72	06.2.84
69	अंगद, पुत्र स्व. श्री कमला उपाध्याय	यूपीएसवीसी / 3682 / 03	ग्राम एवं डाक- किनिया, जिला संतकबीर नगर	बीवीएससीएच / आगरा वि वि / 78	26.12.54
70	अनिल गुलेरिया, पुत्र श्री देशराज	एचपीएसवीसी / 629 / 02	ग्राम एवं डाक खलेत, (दौलतपुर चौक), तह. अम्बा, जिला उना, हि.प्र.	बीवीएससीएच / सीएसकेएचपीकेवी / 02	13.11.77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
71	अनिल कुमार मुर्मु, पुत्र स्व. श्री भरत च. मुर्मु	डब्ल्यूबीएसवी सी/2917	ग्राम-गया पहाड़ी, डाक- नूतनग्राम, जिला-पुरुलिया, पिन-723121	बीवीएससीएच/ डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/02	1.3.71
72	अनिल कुमार गिरि, पुत्र स्व. श्री रामावतार गिरि	एमपीएसवीसी /2104/02	यूएसए होटल पाटेरी के सामने, डाक-महादेवा, जिला- सतना, म.प्र.- 485001	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	5.8.76
73	अनिल कुमार जांगिड	गुजएसवीसी/ 2405/02	बिरला कॉलोनी, क्वा.न. एस- 22, पोरबंदर-360576	बीवीएससीएच/ जीएयू/02	13.05.80
74	अनिल कुमार के.एच., पुत्र श्री हनुमंथाप्पा के. जी.	कर्नाएसवीसी/ 3357	कानेहोराहल्ली, 583218, कुदलिगी तालुक, बेलारी जिला	बीवीएससीएच/ यूएसधारावाड़/ 02	2.2.78
75	अनिल कुमार लुगुन, पुत्र श्री आमुश लुगुन	बिहारएसवीसी /2200/01	ग्राम- खाखागढ़ा, डाक- जलडेगा, थाना- जलडेगा, जिला- सिमडेगा	बीवीएससीएच/ बीएयू/01	8.8.75
76	अनिल कुमार मेहेर, पुत्र श्री प्रेमराज मेहेर	उड़ीसाएसवीसी /1863/02	एटी- बंडुपाली, पी.एम.श्रीगिडा, वाया- बीजेपुर, जिला- बारगढ़- 768032	बीवीएससीएच/ ओयूएंडटी/01	15.6.77
77	अनिल कुमार रावत, पुत्र श्री बी.एस. रावत	यूपीएसवीसी/ 3555/02	म.न. एच-13, पुरानी हल्दी, पंतनगर	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएंडटी/ 02	8.7.79
78	अनिल कुमार श्रीवास्तव, पुत्र श्री मदन मोहन श्रीवास्तव	एमपीएसवीसी /2058/02	205/एम-1, रजत नगर, सोनगिरि, भोपाल- 462021	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 75-76	26.1.52
79	अनिल कुमार सिंह, पुत्र श्री रामपाल सिंह	यूपीएसवीसी/ 3601/02	ग्राम एवं डाक- चंदाई, जिला- हाथरस	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएंडटी/ 84	1.6.63
80	अनिल कुमार, पुत्र श्री मोती लाल प्रसाद	बिहारएसवीसी /2155/01	ग्राम- सोहाग्रा, डाक- सोहाग्रा, थाना- गुट्टनी, जिला- सीवन	बीवीएससीएच/ बीएयू/01	26.6.75
81	अंजु बाला, पुत्री श्री बेग चंद	पंजाबएसवीसी / 2324/02	म.न. 1279, हैबोवाल खुर्द, लुधियाना	बीवीएससीएच/ पीएयू/01	27.12.77
82	अंजु सिंह, पुत्री डॉ. एम.पी. सिंह	यूपीएसवीसी/ 3561/02	1/43 ए-21, लालबाग, पंतनगर	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएंडटी/ 02	2.12.79
83	अंजुम जफर, पुत्र श्री जफरुद्दीन	यूपीएसवीसी/ 3557/02	6/1121, झा कॉलोनी, पंतनगर	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएंडटी/ 02	10.1.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
84	अंकुश चौहान, पुत्र श्री गोबिंद राम	एचपीएसवीसी /628/02	ग्राम- चमरौआ, डाक- पुडाग, तह.-कोटखाई, जिला- शिमला, हि.प्र.	बीवीएससीएच/ सीएसकेएचपीकेवी /02	27.9.78
85	अंशु जैन, पुत्री श्री आनंद जैन	एमपीएसवीसी /2110/03	एस.एस. कचौरीवाले के पीछे, नया बाजार कैम्पस, ग्वालियर, म.प्र.	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	28.9.78
86	अंशुल सूद, पुत्र श्री मिलाप चंद	एचपीएसवीसी /622/02	पुत्र श्री ईआरएमसी सूद, कार्य. इंजी., बी.एच पी. प्रभाग, एसपी पीडब्ल्यूडी, बैजनाथ, कांगड़ा	बीवीएससीएच/ सीएसकेएचपीकेवी /02	25.2.77
87	अनुकूल पाठक, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद पाठक	एमपीएसवीसी /2084/02	451, कोतवाली वार्ड, मैलोनीगंज, जबलपुर- 482001	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	11.4.77
88	अनूप कोल्लानूर जे.	केरलएसवीसी /2719/02	XV-490, कोल्लानूर, कुन्नमकुल्लम, डाक- थिसूर- 680503	बीवीएससीएच/ केएयू/02	16.3.77
89	अनूप विलियम लाकरा, पुत्र स्व. श्री हेडेल वार्ड विलियम लाकरा	बिहारएसवीसी /2127/01	ग्राम-एल्बर्ट कम्पाउंड, डाक- जीपीओ (पाथल कुदुवा), थाना लोअर बाजार, जिला-रांची	बीवीएससीएच/ आरएयू/00	30.4.76
90	अपराजिता तरई, पुत्री श्री निरंजन तरई	उड़ीसाएसवीसी /1899/03	कपिलप्रसाद हाउसिंग बोर्ड, म. न.एम/143, फेस-2, भुबनेश्वर- 751002	बीवीएससीएच/ ओयूएण्डटी/03	30.4.76
91	अरबिंद कुमार, पुत्र श्री राम बाली सिंह	बिहारएसवीसी /2186/01	ग्राम- फेपुबीघा, डाक- जालपुरा, थाना- अरवाल, जिला- अरवाल	बीवीएससीएच/ एमएयू/01	28.2.77
92	अर्चना कुमारी, पुत्री श्री राम प्रकाश दास	बिहारएसवीसी /2136/01	ग्राम- दोघछिया, डाक- फतेपुर, थाना- नाथनगर, जिला- भागलपुर	बीवीएससीएच/ आरएयू/00	13.3.77
93	अर्चना सत्यम	केरलएसवीसी /2738/02	"देवी" वेल्लामनाल एच.एस. के निकट, मयानान्ड, डाक कोल्लम- 691303	बीवीएससीएच/ केएयू/02	31.5.78
94	अर्चना पी, पुत्र श्री डी. एम. प्रद्युम्न	कर्नाएसवीसी/ 3408/	न. 555, 11 ब्लॉक तीसरा मेन, राजाजीनगर, बंगलौर- 10	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएएसएण्डटी /99	03.9.74
95	अर्जुन सिंह, पुत्र स्व. श्री डोरी लाल	यूपीएसवीसी/ 3649/03	ग्राम- चुभाना खेड़ा, डाक- अकरमपुर, जिला- उन्नाव	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएएसएण्डटी/ 67	28.1.45
96	अरुम्बका सुधीर बाबू, पुत्र श्री बाबू राव	एपीएसवीसी/ 3897/02	एलआईजी-807, बीएचईएल, रामचंद्रपुरम्, हैदराबाद- 502032	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	14.9.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मदिनांक
97	अरुण देव शाय, पुत्र श्री मनीन्द्र च देव रॉय	त्रिपुरावीसी / 144 / 02	द्वारा विश्वपदा देव रॉय, मेहेर कालीबाड़ी के सामने, प्रगति रोड, अगरतला, त्रिपुरा (प.)	बीबीएससीएच / बीसीकेबीबी / 78	29.4.54
98	अरुण के.पी., पुत्र श्री परमेश्वरप्पा	कर्नाएसवीसी / 3348	न. 3201 / 3, 10 वां मेन, चौथा क्रॉस, एम.सी. कॉलोनी, 'बी' ब्लॉक, दावणगेरे	बीबीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	17.4.77
99	अरुण कुमार	राजएसवीसी / 2930 / 03	अरुण लीला, किर्यन भवन के निकट, हनुमानगढ़ शहर, राजस्थान	बीबीएससीएच / आरएयू / 03	3.3.77
100	अरुण कुमार खत्री	राजएसवीसी / 2976 / 03	हिंगलाज मंदिर के निकट, सुथर वास, सिरची, राजस्थान	बीबीएससीएच / आरएयू / 03	21.1.79
101	अरुण कुमार, पुत्र श्री गोबिंद महतो	बिहारएसवीसी / 2188 / 01	ग्राम-आलना जामटोल, डाक-रेल्फाडीह, थाना- बुंदु, जिला-रांची	बीबीएससीएच / बीएयू / 01	22.4.76
102	अरुण कुरियन	केरलएसवीसी / 2731 / 02	चैलजीकथु वीडू, मंगड डाक, कोल्सम- 691015	बीबीएससीएच / केएयू / 02	16.1.79
103	अरुण लुकोसे	केरलएसवीसी / 2745 / 02	मंगलाघेरिल हाउस, किडंगूर साउथ डाक, कोट्टायम- 686538	बीबीएससीएच / केएयू / 02	21.12.77
104	अरुणा बी.ई., पुत्र श्री ईश्वरप्पा एम.एच.	कर्नाएसवीसी / 3370	डाक बिसालारे, तालुक कन्नूर, जिला चिकमगलूर- 577116	बीबीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	22.7.80
105	अरविंद कुमार	राजएसवीसी / 2887 / 02	इंचार्ज, सरकारी पशुचिकित्सा अस्पताल, रानीवाड़ा, जालौर, राजस्थान	बीबीएससीएच / पीकेवी / 89	17.6.60
106	असामुकुल जैन, पुत्र श्री अधीरचंद्र जैन	एमपीएसवीसी / 2131 / 03	67 / 3, रक्षा विहार, ग्वालियर - 2	बीबीएससीएच / जेएलएनकेबीबी / 69	26.7.45
107	असीम कुमार पांडे, पुत्र श्री डी.एस. पांडे	यूपीएसवीसी / 3520 / 02	ग्राम कोनी, डाक- लाहासारी, जिला- मोरखपुर, उ.प्र.	बीबीएससीएच / एएनजीआरएयू / 00	19.9.75
108	आशाबारी सामाल, पुत्री श्री विचित्रानंद सामाल	उड़ीसाएसवीसी / 1862 / 02	तालु-चम्पाटीपटवा, डाक-केंडुपटना, वाया-सालीपुर, जिला- कटक	बीबीएससीएच / ओयूएंडटी / 01	10.6.78
109	आशालता गुरुगुबिल्ली, पुत्री श्री सत्यनारायण	एपीएसवीसी / 3845 / 02	म.न. 2-3-1 / 1(1)(पुराना), 2- 5- 188 / 4 (नया), इलिसीपुरम जं, वनवे ट्रैफिक रोड, श्रीकाकुलम -1 (आं.प्र.)	बीबीएससीएच / एएनजीआरएयू / 002	20.06.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
110	आशीष चंदर सूद, पुत्र श्री अविनाश चंदर सूद	पंजाबएसवीसी / 2419 / 03	बी-14 / 571, कमेटी बाजार, होशियारपुर- 146001	बीवीएससीएच / पीएयू / 01	24.7.78
111	आशीष चोपड़ा	राजएसवीसी / 2928 / 03	सी-83, इन्द्रा कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	07.11.75
112	आशीष कुमार चक्रवर्ती, पुत्र स्व. डॉ. एस.सी. चक्रवर्ती	वीसीआई / 2457 / 04	डी-28, दूसरा एम.एस.होस्टल, (सातवीं मंजिल), निजाम पैलेस 234 / 4ए जेसी बोस रोड, कोलकाता- 700020	बीवीएससीएच / बीसीकेवीवी / 76	18.7.50
113	आशीष कुमार जैन, पुत्र श्री रमेश चंद जैन	एमपीएसवीसी / 2108 / 02	खिर्क मौहल्ला, ग्यारसपुर, जिला- विदिशा- 464331	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	29.8.78
114	आशीष तिवारी, पुत्र श्री एस.एस. तिवारी	यूपीएसवीसी / 3581 / 02	ग्राम- मुरारमाउ, डाक बड़ागांव, रायबरेली, उ.प्र.	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 02	12.4.77
115	अशोक कुमा एम.आर., पुत्र श्री सी.एम. रंगास्वामी	कर्नाएसवीसी / 3341	मदाकारीपुरम (वाया), डी.एस. हल्ली, चित्रदुर्गा तालुक एवं जिला	बीवीएससीएच / यूएसधारवाड़ / 02	21.5.80
116	अशोक कुमार	राजएसवीसी / 2924 / 03	5 / 72, वेयर हाउस रोड, अनूपगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	09.8.78
117	अशोक कुमार दास, पुत्र श्री नितार्ई चंद्र दास	बिहारएसवीसी / 2152 / 01	ग्राम जामनी पहाड़पुर, डाक जामनी पहाड़पुर, थाना- गोड़डा, जिला- गोड़डा	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	23.9.75
118	अशोक कुमार ढाका	राजएसवीसी / 2960 / 03	ग्राम एवं डाक- लाडूसराय, झुंझनू, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	07.4.75
119	अशोक कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री एल.एस. श्रीवास्तव	यूपीएसवीसी / 3706 / 03	ग्राम- चंदोर्द जोड़ती, डाक- हटियागढ़, जिला- गोंडा	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 82	1.1.61
120	अशोक एस धेलीज, पुत्र श्री शिवप्पा	कर्नाएसवीसी / 3343	गुरलापुरा, गोकक तालुक, बेलगाम जिला	बीवीएससीएच / यूएसधारवाड़ / 02	22.7.79
121	अशोक सेन	राजएसवीसी / 2979 / 03	बस स्टैंड, देवली, टोंक, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	16.02.74
122	अश्विनी कुमार ताम्बी	राजएसवीसी / 2998 / 03	ग्राम एवं डाक बड़ाखेरा, थाना- केशोरायपाटन, बाधा- लाखेरी, बूंदी, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	18.6.77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
123	अश्वनी कुमार, पुत्र श्री गिरधारी लाल	पंजाबएसवीसी / 2340 / 02	बी XXI, म.न. 9018, गली न. 10, कोट मंगल सिंह, लुधियाना- 141003	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	22.7.77
124	आसिश पट्टनाइक, पुत्र श्री नबकिशोर पट्टनाइक	उड़ीसाएसवीसी / 1902 / 3	एटी: ऊचा साही, डाक- बक्सीबाजार, कटक-753001	बीवीएससीएच / ओयूएण्डटी / 03	20.6.79
125	अथर अहमद खान, पुत्र श्री निसार अहमद खान	एमपीएसवीसी / 2038 / 02	बी-23, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रेजिडेन्स हिल, बंगलो, बालाघाट	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 00-01	19.1.77
126	आत्मा सिंह संधु, पुत्र श्री मुख्तयार सिंह संधु	एमपीएसवीसी / 2056 / 02	26, पंचवटी जानकी नगर, इंदौर- 453001	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 00-01	12.10.73
127	आत्माराम सोनी, पुत्र श्री रामदीन सोनी	एमपीएसवीसी / 2067 / 02	ग्राम-मनावरा, डाक-पहाड़ा, जिला-छतरपुर, म.प्र.- 471001	एमपीएसवीसी / जेएलएनकेवीवी / 01-02	2.7.63
128	अत्तर सिंह, पुत्र श्री राम चंदर	हरिएसवीसी / 1728	हरि छाया, सुंदर नगर, हिसार	बीवीएससीएच / पीएयू / 67	18.1.44
129	औरादकर सुरेश किशनराव	महाएसवीसी / 6580	60, रामदास नगर, कारेगांव रोड, परीानी, जिला परभनी	बीवीएससीएच / एमपीकेवी / 73	09.3.49
130	औवाइस अहमद खान, पुत्र श्री अब्दुस सुकार	बिहारएसवीसी / 2182 / 01	ग्राम-नौहट्टा, डाक- नौहट्टा, थाना- नौहट्टा, जिला- सहरसा	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	11.6.75
131	अवदेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री श्याम लाल	एचपीएसवीसी / 647 / 02	ग्राम, डाक एवं थाना बंगाना, जिला- उना, हि.प्र.	बीवीएससीएच / सीएसकेएचपीकेवी / 02	14.4.79
132	अवधेश कुमार श्री वास्तव, पुत्र श्री श्याम स्वरूप श्रीवास्तव	एमपीएसवीसी / 2080 / 02	15, शर्मा गली, पुरानी बस्ती भिंड- 477001	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	22.2.77
133	अविनाश पटेल	राजएसवीसी / 2977 / 03	नेहरू कॉलोनी, वार्ड न. 26, बालोत्रा, बाड़मेर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	07.08.75
134	अवनि राठू	राजएसवीसी / 2922 / 00	पी.न. 3, हिम्मत नगर, टोंक फाटक, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	25.7.76
135	अवातडे शरण दत्तात्रेय	महाएसवीसी / 6611	ए/पी फलावनी, तालुक मालशिरास, जिला सोलापुर	बीवीएससीएच / एमपीकेवी / 01	02.6.79
136	बी.डी. मिश्रा, पुत्र श्री बी.पी. मिश्रा	यूपीएसवीसी / 3648 / 03	ग्राम- बाढ़या खुर्द, डाक- मुरामपुर, जिला- गोरखपुर	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएण्डटी / 69	1.12.47

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	सैकणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
137	बी.जी. पांडे, पुत्र श्री एम.पी. पांडे	यूपीएसवीसी / 3701/03	241, एलआईजी, गोविंदपुर, जिला- इलाहाबाद	बीवीएससीएच / आगराविधि / 68	2.11.45
138	बी. सोमा शेखर रेड्डी, पुत्र श्री मल्लिकार्जुन रेड्डी	एपीएसवीसी / 3876/02	7-263, होम्सपेट, प्रोड्डादूर, जिला कुडप्पा 516361	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	14.06.78
139	बी. युगेंद्र रेड्डी, पुत्र श्री साम्मी रेड्डी	एपीएसवीसी / 3820/03	2-4-1586, अधोका कॉलोनी, हनमकोंडा, वारंगल - 506001 आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	21.8.79
140	बाबाजान कुशहट्टी, पुत्र श्री सैयदासाब	कर्नाएसवीसी / 3308	कौजागेरी डाक, रोम तालुक, गडग जिला 582202	बीवीएससीएच / यूएसधरवाड / 01	01.6.77
141	बाबरजीत सिंह, पुत्र श्री बलदेव सिंह	पंजाबएसवीसी / 2390/02	बंगला न. 1ए, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, मोगा	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	3.5.60
142	बबीथा बी.एस.	केरलएसवीसी / 2723/02	स्यामंदाकम, टीसी 30/932, सास्थामंगलम डाक, इडप्पाझिंजी, त्रिवेंद्रम-695010	बीवीएससीएच / केएयू / 02	25.5.78
143	बबरुले उमेश रमेश	महाएसवीसी / 6646	पल्लवी विवेकानंद नगर, लोनार, जिला बुलधाना	बीवीएससीएच / एमएएफएसयू / 02	14.3.78
144	बाबू जगन्नाथम, पुत्र श्री वेंकटप्पा	एपीएसवीसी / 3874/02	नादिमपलेर(ग्राम), पेडामलेला (डाक), रोमपीचेरला (एम), चित्तूर जिला-517192, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	04.03.77
145	बच्चू सिंह, पुत्र स्व. श्री आर.एन. सिंह	यूपीएसवीसी / 3695/03	ग्राम एवं डाक- सोनबरसा, जिला- बलिया, उ.प्र.	बीवीएससीएच / आगरा विधि / 73	10.12.48
146	बादल दास, पुत्र श्री द्विजेंद्र च दास	त्रिपुरावीसी / 137/02	द्वारा आर.के. दास, 40- सीआर रोड, शिबनगर, अगरतला, त्रिपुरा (पश्चिम)	बीवीएससीएच / एएयू / 01	10.4.72
147	बदरुद्दीन, पुत्र श्री बशीरुद्दीन	कर्नाएसवीसी / 3406	मौहल्ला मोमिनपुरा, डाक गुरमीतकल, तालुक यदगीर, जिला गुलबर्गा	बीवीएससीएच / यूएसधरवाड / 02	1.06.78
148	बडे गणेश गोपीनाथ	महाएसवीसी / 6583	एटी डाक निम्बे, नंदूर, तालुक शेरगांव, जिला अहमदनगर	बीवीएससीएच / एमपीकेवी / 01	01.6.79
149	बडकास जयंत कृष्णराव	महाएसवीसी / 6599	प्लॉट न. 11, लक्ष्मी नगर, नागपुर, एलडीओवीडी, एटी डाक अडयाल, तालु. पौनी, जिला-भंडारा	बीवीएससीएच / पीकेवी / 75	11.2.51
150	बद्रीनारायण चंद, पुत्र श्री उमेश च. चंद	उड़ीसाएसवीसी / 1896/03	एटी: कोइलो, डाक-असुरेश्वर, जिला- कटक- 754209	बीवीएससीएच / ओयूएएडटी / 03	17.6.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
151	बैश्य (कु.) दीपान्तिता, पुत्री श्री देवेश्वर बैश्य	एएसएमएसवी सी/2050/02	सिक्स माइल, लेचूबगान, गणेश मंदिर पथ के निकट, गुवाहाटी- 22	बीवीएससीएच/ एएयू/02	
152	बैश्य (कु.) दीरशिखा, पुत्री श्री प्रमोद च. बैश्य	एएसएमएसवी सी/2043/02	द्वारा प्रमोद च. बैश्य, जन स्वास्थ्य अधिकारी, होंगराबारी, गुवाहाटी-6	बीवीएससीएच/ एएयू/02	
153	बाल गंगाधर राय, पुत्र श्री अरुण कुमार राय	बिहारएसवीसी /2232/02	ग्राम-तराओं, डाक- तराओं, थाना- नाशरीगंज, जिला- रोहतास	बीवीएससीएच/ डब्ल्यूबीयूएएंडएफ एस/01	1.3.77
154	बालाकृष्ण नीरजा, पुत्री श्री ओ. बालाकृष्णा	एपीएसवीसी/ 3877/02	4-316/1, बालाजी नगर कॉलोनी, ग्रीम्सपेट, चित्तूर- 517002, आं.प्र.	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	13.02.77
155	बलारी मेरी ब्लाह, पुत्री डॉ. ई. पिरबोत	मेघएसवीसी/ 196/02	लाइत्मुखरा, शिलौंग- 793003	बीवीएससीएच/ एएयू/02	9.2.78
156	बालासाहिब भांडी, पुत्र श्री येलप्पा भांडी	कर्नाएसवीसी/ 3377	डाक कनानूर, तालुक एवं जिला बीजापुर- 586119	बीवीएससीएच/ यूएस, बंगलौर/ 02	22.7.79
157	बलजीत सिंह, पुत्र श्री वसाखा सिंह	पंजाबएसवीसी /2417/03	वा.न. 2/39, दशमेश नगर, मुल्लनपुर-141101, लुधियाना	बीवीएससीएच/ पीएयू/03	17.3.76
158	बलवंत सिंह, पुत्र श्री सतपाल	पंजाबएसवीसी /2368/02	ग्राम एवं डाक चनकोया, थाना- बालाचौर, जिला- नवांशहर	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	10.6.73
159	बलविंदर सिंह गिल, पुत्र श्री अजीत सिंह गिल	पंजाबएसवीसी /2429/03	म.न. 26-डी, किचलु नगर, लुधियाना	बीवीएससीएच/ पीएयू/03	5.7.77
160	बलविंदर सिंह, पुत्र श्री समशेर सिंह	पंजाबएसवीसी /2343/02	वा.न. 1, प्रीत नगर, एन.एम. कॉलेज रोड, मनसा- 151505	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	16.6.78
161	बांधनु ओराओं, पुत्र श्री भैरव ओराओं	बिहारएसवीसी /2199/01	ग्राम- पोकटा, डाक- कुम्हारी, थाना-बसिया, जिला- गुमला	बीवीएससीएच/ बीएयू/01	4.5.75
162	बंकर राहुल मारुति	महाएसवीसी/ 6694	संकल्प बंगला, त्रिमूर्ति रोड, कुर्दु वाडी, तालु. मधा, जिला सोलारपुर	बीवीएससीएच/ एमएएफएसयू/02	12.2.80
163	बंशी धर	राजएसवीसी/ 2990/03	ग्राम एवं डाक उदावास, झुंझनू, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	05.7.76
164	बंशी लाल वर्मा	राजएसवीसी/ 2890/02	खंडा फालसा छीपावाडी, पीतल धेलोई की हवेली, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच/ उदयपुरविवि/73	20.8.44

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
165	बंसोड़ अतुल भाउराव	महाएसवीसी / 6573	संजय गांधी स्कूल, एटी-हिंमनघाट, तालुक-हिंमनघाट, जिला-वर्धा	बीवीएससीएच / पीकेवी / 87	17.5.66
166	बरखा गुप्ता	राजएसवीसी / 2982 / 03	नगीना वाले, टाउन हॉल के निकट, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	09.10.77
167	बरखा शर्मा, पुत्री श्री वी.के. शर्मा	यूपीएसवीसी / 3560 / 02	V / 1319, टीजी कॉलोनी, पंतनगर	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 02	8.8.78
168	बर्मन चम्पक, पुत्र श्री कलीन्द्र बर्मन	एसएसएमएसवी सी / 2082 / 03	द्वारा श्री कलीन्द्र बर्मन, ग्राम एवं डाक-मुगडी, जिला-नलबाड़ी, पिन-780312	बीवीएससीएच / एएयू / 03	
169	बरुआ पंकज ज्योति, पुत्र डॉ. लखी नाथ बरुआ	एसएसएमएसवी सी / 2020 / 02	त्रिबेनी पथ, द्वारका नगर, चचल पथ, खानापाड़ा, गुवाहाटी-22	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
170	बरुआ (कु.) ज्योति श्री, पुत्री श्री परेश कुमार बरुआ	एसएसएमएसवी सी / 2089 / 03	असम शफंगा हॉल के निकट, धुबरी, पिन- 783301	बीवीएससीएच / एएयू / 03	
171	बरुआ (कु.) काबोरी, पुत्री डॉ. कमलेश बरुआ	एसएसएमएसवी सी / 2055 / 02	द्वारा डॉ. डी.के. बरुआ, प्रगति पथ, डाउन अस्पताल के समीप, गुवाहाटी-6	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
172	बरुआ कृष्ण कांता, पुत्र स्व. श्री कमला कांत बरुआ	एसएसएमएसवी सी / 2054 / 02	ग्राम- खार खोवा पारा, डाक-डूमोरनोई, जिला- दारंग	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
173	बरुआ प्रद्योत प्रोतिम, पुत्र स्व. श्री प्रदीप कुमार बरुआ	एसएसएमएसवी सी / 2034 / 02	द्वारा दिलीप कुमार बरुआ (वकील), डाक-चालिहा रोड, अमोला पट्टी, सिबसागर	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
174	बासप्पा होसुर, पुत्र श्री कृष्णप्पा होसुर	कर्नाएसवीसी / 3411 /	सिदरामेश्वर कॉलोनी, मुधोल, बेलारी 587313	बीवीएससीएच / यूएसएसधारवाड़ / 02	13.11.78
175	बासवाराजू एस., पुत्र श्री सिदप्पा बी.एस.	कर्नाएसवीसी / 3356	अन्नेहाल- 577555, चित्रदुर्ग तालुक एवं जिला	बीवीएससीएच / यूएसएसधारवाड़ / 02	17.4.79
176	बसवंत कुमार, पुत्र श्री चन्नाबासप्पा आर.	कर्नाएसवीसी / 3386	डाक तावारेकेरे, तालुक चन्नागिरि, जिला दावणगेरे	बीवीएससीएच / यूएसएस, बंगलौर / 02	17.1.80
177	बासवराज, पुत्र श्री अनप्पा	कर्नाएसवीसी / 3344,	डाक लाढा, तालुक औराद, जिला बिदर 585401	बीवीएससीएच / यूएसएसधारवाड़ / 02	1.3.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
178	बासीपंगा अरुण, पुत्र श्री बिक्रम	एपीएसवीसी/ 3915/03	पेडानिमिला (ग्राम एवं डाक), नोथांकल (एम), नालगोंडा जिला-508221 आं.प्र.	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	4.2.79
179	बासुन्धे विजय किसनराव	महाएसवीसी/ 6652	रामनगर, अमरावती, जिला- अमरावती	बीवीएससीएच/ एएफएसयू/02	10.3.80
180	बट्टेपति माधवी, पुत्री श्री रामन्ना रेड्डी	एपीएसवीसी/ 3850/02	थुरमला, सइदापुरम (डाक), नेल्लोर जिला, आं.प्र.	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 02	24.05.77
181	बीना जे.एन.	केरलएसवीसी /2704/02	प्रनवम, श्रीपुरम लेन, पुंकुन्म डाक, थिसूर- 680002	बीवीएससीएच/ केएयू/02	09.11.78
182	बहल चित्तरंजन रमेशकुमार	महाएसवीसी/ 6661	प्लॉट न. 7, वृंदावन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, बिल्डि.न. डी.एस.न. 52, म.न.27/1, 28ए एवं बी - 29,31, कोठरुद, पुणे	बीवीएससीएच/ पीकेवी/81	29.9.58
183	बिर्जॉय जॉन	केरलएसवीसी /2725/02	वझायिल विला, चुंगथारा डाक मल्लापुरम- 679334	बीवीएससीएच/ केएयू/02	06.8.77
184	बेनी प्रसाद गोरे, पुत्र श्री गोवर्धन लाल गोरे	एमपीएसवीसी / 2070/02	ग्राम कोटारा, डाक- कोलुखेडी, थाना- बेर्सिया, जिला- भोपाल, म.प्र.	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	8.8.76
185	बंजामिन मैथ्यू	केरलएसवीसी /2765/02	इबेनेजर, थीपानी, तिरुवल्ला, पथानमथिट्टा- 689101	बीवीएससीएच/ केएयू/02	27.10.77
186	भदाने रेहुलकुमार भालचंद्र	महाएसवीसी/ 6608	योगेश निवास, 37 समता नगर, साकरी, तालुक साकरी, जिला- धुले- 424304	बीवीएससीएच/ एमपीकेवी/01	7.7.78
187	भादजा जयंतिलाल रामजी	गुजएसवीसी/ 2406/02	एटी एवं डाक नेशघा (खानपर), टंकारा, राजकोट- 363641	बीवीएससीएच/ जीएयू/02	6.2.78
188	भगत ज्योत्सना सुदाम	महाएसवीसी/ 6637	विठल विश्व कॉम्प्लेक्स, प्लॉट न. 256, नंदनवन कॉलोनी, औरंगाबाद	बीवीएससीएच/ एमएफएसयू/02	29.11.77
189	भगत पीताम्बर भास्कर	महाएसवीसी/ 6675	13, दीनानाथ वाडी, रिंग रोड, जलगांव, संगम हाउ.सो. के निकट, जिला- जलगांव	बीवीएससीएच/ केकेवी/82	02.4.55
190	भगत सिंह सैनी	राजएसवीसी/ 2903/03	ग्राम आदर्श नगर, डाक बगार, झुंझनू, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	15.7.78
191	भगवती नीलोत्पाल, पुत्र श्री सी. भगवती	एसएसएमएसवी सी/2071/02	द्वारा डॉ. सी. भगवती विश्वनाथ चरियाली, ग्राम- दागांव, पिन- 784176	बीवीएससीएच/ एएयू/02	

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
192	भगवान दास मुकाटी, पुत्र श्री गोविंद प्रसाद मुकाटी	एमपीएसवीसी /2071/03	टैगोर हॉल पशु चिकित्सा कॉलेज कैम्पस, मऊ- 453446	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	13.8.76
193	भगवान सहाय जेटव	राजएसवीसी/ 2983/03	ग्राम-चोरोटिएस्ट मुरार, डाक खुंटेटा कला, थाना- रामगढ़, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	8.1.75
194	भजंत्री शंकरप्पा, पुत्र श्री बालप्पा भजंत्री	कर्नाएसवीसी/ 3337	डाक सेंगल, तालुक रामदुर्ग, जिला बेलगाम	बीवीएससीएच/ यूएसधारवाड़/ 02	5.5.77
195	भक्त चरन दलाई, पुत्र श्री बैशनब चरन दलाई	उड़ीसाएसवीसी /1923/30	एटी/डाक-रहानिया, थाना- भंडारी पोखारी, जिला- भद्रक	बीवीएससीएच/ ओयूएंडटी/03	21.6.77
196	भालेराव मधुमंजरी पुरुषोत्तम (श्रीमती)	महाएसवीसी/ 6615	पारिजात, ए-73, कृष्णचंद्र मार्ग, रिक्लमेशन, बांद्रा (प.), मुम्बई- 400050	बीवीएससीएच/ केकेवी/84	28.01.64
197	भंवर लाल	राजएसवीसी/ 2956/03	ग्राम/डाक-देईखेरा, वाया- लाखेरी बूंदी, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	05.10.75
198	भारत भूषण सुनजा, पुत्र श्री मदन लाल	हरिएसवीसी/ 1736	.113, गली न.2, ग्रेवाल कॉलोनी, सिरसा	बीवीएससीएच/ सीसीएसएचएयू/ 02	19.1.78
199	भरत जोशी	राजएसवीसी/ 2905/03	सरकारी फ़्लूट फार्म, पुलिस लाइन के निकट, अबोहर रोड, श्रीगंगानगर, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	25.12.77
200	भरत महतो, पुत्र श्री हरे कृष्ण महतो	बिहारएसवीसी /2159/01	ग्राम-लोवाहाट्ट, डाक- लोवाहाट्ट, थाना-सोनाहाट्ट, जिला- रांची	बीवीएससीएच/ बीएयू/01	21.12.74
201	भरतलाल पटेल, पुत्र श्री रघोराम पटेल	एमपीएसवीसी /2078/02	ग्राम-नीलकंठ, डाक- मुलगांव, थाना बदवाह, जिला-खारगोन - 451113	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	18.3.76
202	भाटिया हरेश कुमार ठाकरशी	गुजएसवीसी/ 2409/02	एटी एवं डाक जिकियाली, मोरबी, राजकोट- 363641	बीवीएससीएच/ जीएयू/02	8.6.78
203	भट्टाचारजी (कु.) कांता,पुत्री श्री दिलीप कुमार भट्टाचारजी	एसएमएसवी सी/2019/02	कन्नाचल, सिल्पुखुरी, गुवाहाटी - 781003	बीवीएससीएच/ एएयू/02	
204	भीमशंकर एस. बिरादर, पुत्र श्री सिदप्पा डी. बिरादर	कर्नाएसवीसी/ 3360	देवर, डाक नीमबारंगी, तालुक इंडल, जिला बीजापुर	बीवीएससीएच/ यूएसधारवाड़/ 02	18.2.79
205	भिसे गोपाल राज:राम	महाएसवीसी/ 6630	तासगांव रोड विटा, खानापुर, सांगली- 415311	बीवीएससीएच/ एमएफएसयू/02	6.4.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
206	भोकरे साइनाथ मानिकराव	महाएसवीसी / 6632	ए/पी मोलेगांव, तालुक- उमरी, जिला- नांदेड- 431807	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	5.5.79
207	भोकरे सुवर्णा अरुण	महाएसवीसी / 6676	डॉ. डिगलो का निवास, साहु कॉलोनी, देगलूर रोड, उदमीर, जिला-लातूर 413517	बीवीएससीएच / एमएयू / 01	31.8.79
208	भोंगले सागर गनपत	महाएसवीसी / 6603	ए/पी खुटे, तालुक फाल्टन, जिला-सतारा- 4115523	बीवीएससीएच / एमएयू / 01	19.4.79
209	भोरानिया विजय कुमार प्रेमजीभाई	गुजएसवीसी / 2421 / 02	एटी एवं डाक जूनादेवलिया हलबड, सुरेंद्रनगर- 363330	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	31.12.79
210	भूपेंद्र कुमार, पुत्र श्री आई.बी. पाठक	यूपीएसवीसी / 3684 / 03	ग्राम ऊधोपुर पाली, ज्ञानपुर जिला-संत रविदास नगर	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 93	15.8.67
211	भुपेंद्र सिंह, पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह	पंजाबएसवीसी / 2341 / 02	ग्राम रसूलपुर खुर्द, डाक- कोट खेहरा, वाया तारसिका, जिला- अमृतसर	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	15.7.77
212	भूषन कुमार चरपे, पुत्र श्री एम.एम. चरपे	एमपीएसवीसी / 2092 / 02	श्रम साफल्य कुटीर, बादबान, छिंदवाड़ा- 480001	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 02	11.9.77
213	भूटिया जेरुइयाह, पुत्री श्री सी.एस. भूटिया	सिक्किमएसवी सी / 79 / 02	हेफजिबाह हाउस, पुसने प्राइमरी के नीचे, नामची दक्षिणी सिक्किम	बीवीएससीएच / एमएयू / 00	2.12.77
214	भूयन (कु.) जिपोती, पुत्री श्री माधब च. भूयन	एसएसएमएसवी सी / 2074 / 03	द्वारा श्री माधब च. भूयन, महेंद्रलाल बरुआ पथ, सिलपुखरी, गुवाहाटी-3	बीवीएससीएच / एएयू / 03	
215	बिभु रंजन दास, पुत्र श्री बलराम दास	उड़ीसाएसवीसी / 1897 / 03	द्वारा नबकिशोरदास(अधिकारी) एटी:बाम्फी साही, डाक-तलत गेलेंगा बाजार, जिला कटक	बीवीएससीएच / ओयूएंडटी / 03	4.4.79
216	बिधान च. दास, पुत्र श्री जादू गोपाल दास	त्रिपुरावीसी / 146 / 02	द्वारा जादू गोपाल दास, धालेश्वर रोड-1, अमरतला, त्रिपुरा (पश्चिम)	बीवीएससीएच / एनजीआरएयू / 02	2.11.75
217	बिज्ञान मोहन पोथल, पुत्र श्री उदयनाथ पोथल	उड़ीसाएसवीसी / 1905 / 03	एटी / डाक-गौदागन, वाया- कापतीपदा, जिला- मयूरभंज	बीवीएससीएच / ओयूएंडटी / 03	26.1.79
218	बिजेंद्र रुहिल, पुत्र श्री हरि सिंह	हरिएसवीसी / 1735	533 / 34, जनता कॉलोनी, रोहतक	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 02	21.10.76
219	बीजू वी.	केरलएसवीसी / 2756 / 02	ठेक्कडुकाटु वीडु, आदीनाडु उत्तर डाक, करुगापल्ली, कोल्लम- 690542	बीवीएससीएच / केएयू / 02	19.5.75

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
220	बिजवाल. दिलीपराव लक्ष्मणराव	महाएसवीसी / 6596	प्लॉट न. 37, हरीश कॉलोनी डाकघर, गांधीनगर, गोरक्षण रोड, अकोला-444001	बीवीएससीएच / पीकेवी / 73	17.11.51
221	बिकास च. देबनाथ, पुत्र श्री सुनील च. देबनाथ	त्रिपुराकीसी / 142 / 02	डाक एवं ग्राम- खायेरपुर, जिला- त्रिपुरा (पश्चिम)	बीवीएससीएच / केकेवीपी / 97	8.1.74
222	बिकाश चंद्र नाग, पुत्र श्री दयाबंधु नाग	उड़ीसाएसवीसी / 1906 / 03	एटी / डाक- दीनागर, वाया- बेगुनिया, जिला-खुर्दा- 752062	बीवीएससीएच / ओयूएण्डटी / 03	18.5.77
223	बिक्रम केशरी दास, पुत्र स्व. श्री निराकार प्रसाद दास	उड़ीसाएसवीसी / 1873 / 03	बी / 03, कृष्णा गार्डन कॉम्प्लेक्स, बड़ाबारी, जगभारा, भुवनेश्वर- 751030	बीवीएससीएच / ओयूएण्डटी / 79	4.1.56
224	बिक्रम सिंह सोही, पुत्र श्री करम सिंह सोही	पंजाबएसवीसी / 2375 / 02	43, गुरु अमरदास नगर, बाई पास, जालंधर शहर	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	10.9.78
225	बिनारी प्रसाद, पुत्र श्री यदुनंदन प्रसाद	बिहारएसवीसी / 2147 / 01	ग्राम-निवाकुंदराही, डाक अर्धुआ, थाना काशमा रफीगंज, जिला औरंगाबाद	बीवीएससीएच / आरएयू / 00	20.1.70
226	बिंदु मैथ्यू	केरलएसवीसी / 2701 / 02	म.न. 18 / 278, अनुग्रह, सिविल स्टेशन के निकट, पलक्कड- 678001	बीवीएससीएच / केएयू / 02	24.4.78
227	बिनोज सी. नायर	केरलएसवीसी / 2708 / 02	चंगथेक्केथिल इलांगमंगलम, डाक इनाथु, पथानमथिट्टा, पिन- 691526	बीवीएससीएच / केएयू / 02	19.11.77
228	बिपिन कुमार, पुत्र श्री बिंदा प्रसाद	बिहारएसवीसी / 2224 / 02	ग्राम-उटार्थु, डाक- उटार्थु, थाना- बिंद, जिला- नालंदा	बीवीएससीएच / आरएयू / 02	10.3.76
229	बीरेंद्र प्रसाद यादव, पुत्र श्री साधु सरन यादव	बिहारएसवीसी / 2132 / 01	ग्राम भुल्लो, डाक सबलबीघा, थाना-शिकन्दरा, जिला जमुई	बीवीएससीएच / आरएयू / 00	23.2.76
230	बिस्वजीत बेहेरा, पुत्र श्री ब्रह्मानंद बेहेरा	उड़ीसाएसवीसी / 1910 / 03	एटी: न्यू कॉलोनी, भादूतीबंध, डाक-भांजापुर, बड़ीपदा- 757002	बीवीएससीएच / ओयूएण्डटी / 03	6.7.77
231	बिस्वनाथ पुस्ती, पुत्र श्री लक्ष्मीकांता पुस्ती	उड़ीसाएसवीसी / 1884 / 03	एटी: नया बाजार, डाक जालेश्वर, जिला-बालासौर- 7160323	बीवीएससीएच / ओयूएण्डटी / 03	12.6.79
232	बोडाबे मनीश देओराओजी	महाएसवीसी / 6593	शोभा ए/पी लोनी (टकाली), तालुक नंदगांव (ख.), जिला कृषि विज्ञान केंद्र घाटखेड, जिला अमरावती- 444724	बीवीएससीएच / पीकेवी / 93	16.9.70

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
233	बोड़वार गंगाधर ढोंढीबा	महाएसवीसी / 6634	एटी-डाक मोघाली, तालुक करंजा, जिला नांडेड- 431801	बीवीएससीएच / एमएफएसयू/02	7.5.76
234	बोंडा सत्यनारायण, पुत्र श्री वेंकटरामना	एपीएसवीसी / 3883/02	चिन्तदा (डाक), जामी (एम), विजियानगरम जिला- 535250, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	26.01.78
235	बोंगार्डे शेखर रघुनाथ	महाएसवीसी / 6609	ए/पी बानागे, तालुक कगल, जिला कोल्हापुर	बीवीएससीएच / एमपीकेवी /01	12.12.76
236	बोप्पुरी श्रीनिवासुलु, पुत्र श्री बी. पुलइयाह	एपीएसवीसी / 3861/02	28-1011, साई बाबा नगर, नूनेपल्ली, नंदयाल, कुर्नूल जिला 518503 (आं.प्र.)	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	30.03.78
237	बोरा बिनोद कुमार दत्ता, पुत्र श्री नबीन दत्ता बोरा	एएसएमएसवी सी /2023/02	द्वारा नबीन दत्ता बोरा, ग्राम एवं डाक गोबिंदपुर, धकुआखाना, लखीमपुर	बीवीएससीएच / एएयू /02	
238	बोरा देवाजीत, पुत्र श्री कमल बोरा	एएसएमएसवी सी /2090/03	द्वारा श्री कमल बोरा, डाक एवं ग्राम-काकी न. 1, जिला- नागांव, पिन- 782446	बीवीएससीएच / एएयू /03	
239	बोरा दुर्लव प्रसाद, पुत्र श्री परम प्रसाद बोरा	एएसएमएसवी सी /2072/03	द्वारा श्री परमप्रसाद बोरा, ग्राम डाक लाहालियाल (बिहपुरिया), जिला- लखीमपुर- 784161	बीवीएससीएच / एएयू /03	
240	बोरा हिमांशु कौशिक, पुत्र श्री रामानी कांता बोरा	एएसएमएसवी सी /2080/03	द्वारा श्री रामानी कांता बोरा, ग्राम सिंगिया मजगांव, डाक सिंगिया, जिला- नागांव	बीवीएससीएच / एएयू /03	
241	बोरा काव्या ज्योति, पुत्र स्व. श्री जोगेश्वर बोरा	एएसएमएसवी सी /2067/02	सोंदुरी अली पथ, जू रोड, गुवाहाटी- 781024	बीवीएससीएच / एएयू /99	
242	बोरा कल्लूल, पुत्र श्री कलीराम बोरा	एएसएमएसवी सी /2030/02	ग्राम चकारी गांव, डाक दिमोरुगुरी, जिला- नागांव, पिन- 782002	बीवीएससीएच / एएयू /02	
243	बोरा मनजीत, पुत्र स्व. श्री मोही चंद बोरा	एएसएमएसवी सी /2066/02	द्वारा स्व. मोही च बोरा, ग्राम मधुपुर, डाक छोटा हैबर, जिला-नागांव- 782002	बीवीएससीएच / एएयू /02	
244	बोरा (कु.) सरबनी, पुत्री डॉ. मुकुल च बोरा	एएसएमएसवी सी /2083/03	अनानोआ नगर, सिक्समाइल, खानापाड़ा, गुवाहाटी- 22	बीवीएससीएच / एएयू /03	
245	बोराह जिम्मी, पुत्र श्री एम.एन. बोराह	एएसएमएसवी सी /2013/03	द्वारा:एम.एन.बोराह, नेताबाड़ी, गेटतिनियली, डाक जोरहाट एयर फील्ड,जोरहाट 785005	बीवीएससीएच / एएयू /01	
246	बोराह संजीब, पुत्र श्री चंद्र कांता बोराह	एएसएमएसवी सी /2079/03	द्वारा श्री चंद्रकांता बोराह, ग्राम/डाक माजुली बोनगांव, थाना बोनगांव,जिला जोरहाट	बीवीएससीएच / एएयू /03	

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
247	बोराह (कु.) मीनाश्री, पुत्री श्री खागोन च बोराह	एएसएमएसवी सी/2084/03	बारिका चुबरी ज्योति नगर, पिन- 782446	बीवीएससीएएच/ एएयू/03	
248	बोरकार सोनाली दीपक	महाएसवीसी/ 6648	85, विद्यांग नगर, ध्यानेश्वर मंदिर के निकट, भंडारा	बीवीएससीएएच/ एमएफएएसयू/02	6.12.79
249	ब्रह्म भट्ट परीक्षित कुमार हीरालाल	गुजएसवीसी/ 2395/03	18, जयवीर नगर सोसायटी, बस स्टैंड के निकट, पाटन	बीवीएससीएएच/ जीएयू/02	26.11.78
250	ब्रज भूषण बच्चू, पुत्र श्री गुनसागर प्रसाद यादव	बिहारएसवीसी /2165/01	ग्राम-हरपुर, डाक-हरपुर, थाना- हरपुर, जिला-मुंगेर	बीवीएससीएएच/ बीएयू/01	2.11.79
251	ब्रजेश कुमार, पुत्र श्री सूर्य कुमार यादव	बिहारएसवीसी /2166/01	ग्राम-इंग्लिश, डाक-फारका, थाना-साबौर, जिला- भागलपुर	बीवीएससीएएच/ बीएयू/01	26.12.74
252	ब्रम्म कुमार पांडे	राजएसवीसी/ 2895/02	ग्राम एवं डाक- भदरिया विद्याधर नगर, जैसलमेर राजस्थान	बीवीएससीएएच/ सीएसएकेईपीवीवी /98	24.7.72
253	ब्रिजेश सिंह, पुत्र श्री एम.पी. सिंह	यूपीएसवीसी/ 3590/02	ग्राम कुलावापुर, डाक उदिहीन बुजुर्ज, जिला-कौशम्बी, उ.प्र.	बीवीएससीएएच/ जीबीपीयूएण्डटी/ 02	8.2.76
254	बुलबुल कमल हशन, पुत्र श्री अली अजगर	एएसएमएसवी सी/2062/02	ग्राम ढाकलिया पारा, डाक जाशीहाट पारा, वाया: हाउली, जिला बारपेटा, पिन 781316	बीवीएससीएएच/ एएयू/02	
255	सी.बी. विनीथा	केरलएसवीसी / 2715/02	चांगरथ हाउस, थिरुवजियोड, जिला मंगलमकुन्नु, डाक पलक्कड	बीवीएससीएएच/ केएयू/02	26.7.78
256	सी. विवेकानंद रेड्डी, पुत्र श्री गोविंदा रेड्डी	एपीएसवीसी/ 3887/02	111 -239-ए6, राजाजी स्ट्रीट, गोल्लापल्ली कॉलोनी, मदन पल्ली, चित्तूर जिला, आं.प्र.	बीवीएससीएएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	13.08.79
257	कलकत्ता रंगनाथन श्रीधर, पुत्र श्री एस. रंगनाथन	कर्नाएसवीसी/ 3306	पी-20, सेक्टर-13, एलआईसी कॉलोनी, जे.बी. नगर, बैंगलोर- 75	बीवीएससी/ मद्रासविवि/66	29.11.43
258	च. बी. विजया दुर्गा, पुत्री श्री मल्लिकार्जुन राव	एपीएसवीसी/ 3900/02	मम एलिमेंटरी स्कूल, रंगना पलेम, चिकालुरीपेट, गुंटूर जिला- 522616 आं.प्र.	बीवीएससीएएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	15.7.79
259	चंद्रप्रकाश मल्हानी, पुत्र श्री कीमत मल्हानी	एमपीएसवीसी /2049/02	269/2-सी सेक्टर, साकेत नगर, भोपाल	बीवीएससीएएच/ जेएलएनकेवीवी/ 00-01	14.8.76
260	चमुआह जयंता कुमार, पुत्र श्री प्रफुल्ल चमुआह	एएसएमएसवी सी/2022/02	ग्राम-बूमा अहोम, डाक जूगीसती, धकुआखना, लखीमपुर, पिन- 787055	बीवीएससीएएच/ एएयू/02	

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
261	चनम शशिकांत सिंह, पुत्र श्री च. कुंज किशोर सिंह	मणिएसवीसी / 378 / 02	खोंगमान मंगजिल्ला, इम्फाल	बीवीएससीएच / बीएयू / 00	1.2.69
262	चंचल चौहान, पुत्री श्री ताराचंद चौहान	एमपीएसवीसी / 127 / 03	दाहाते मेडिकल स्टोर, ग्राम एवं डाक काटोरी, तह. खैरलांजी (वारासिओनी), जिला बालाघाट, म.प्र.	बीवीएससीएच / आईजीकेवीवी / 01 -02	7.7.78
263	चांदेवर श्रीरंग पाखडुजी	महाएसवीसी / 6570	नेताजी वार्ड, पोनी, तालुक पौनी, जिला- भंडारा	बीवीएससीएच / पीकेवी / 72	28.8.44
264	चंद्रशेखर पांडा, पुत्र श्री भाबाग्रही पांडा	उड़ीसाएसवीसी / 1878 / 03	एटी / डाक-बैजामुंडा, जिला- सम्बलपुर, वाया- सीमाल- 768101	बीवीएससीएच / ओयूएण्डटी / 03	24.1.77
265	चंद्र शेखर रेड्डी एम, पुत्र श्री एम. नरसिम्हा रेड्डी	एपीएसवीसी / 3835 / 02	म.न. 8-247 / 1, अलेरु, नालगोंडा जिला, 508101 (आ. प्र.)	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2001	7.9.76
266	चंद्र शेखर	राजएसवीसी / 2909 / 03	क्वार्टर न. 252, जनरल हॉस्पिटल कैम्पस, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	8.7.77
267	चंद्रभान सिंह, पुत्र श्री बहादुर सिंह	एमपीएसवीसी / 2032 / 02	श्री आर.एस. पटेल, सुल्तानपुर, रायसेन- 464986	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 00-01	1.2.74
268	चंद्रहास, पुत्र श्री सुधेश्वर प्रजापति	पंजाबएसवीसी / 2393 / 02	42, नया राजगुरु नगर, लुधियाना- 141004	बीवीएससीएच / बिरसाकृवि वि / 99	18.12.72
269	चंद्रमतिण प्रसाद सिंह, पुत्र श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी / 2227 / 02	ग्राम छोटी आर्ट, डाक बड़ी आर्ट, थाना- नालंदा, जिला- नालंदा	बीवीएससीएच / एमपीकेवी /	1.12.74
270	चैनेय प्रशांत पुरुषोत्तम	महाएसवीसी / 6671	घाटरोड, गांधी चौक, तुमसर, जिला- भंडारा	बीवीएससीएच / एमएएफएसयू / 02	26.9.77
271	चंगन अर्फिला लोवांग, पुत्र श्री पनवंग लोवांग	वीसीआई / 2411 / 03	द्वारा जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, पापुन पोरे, जिला युपिया, अरुणाचल प्रदेश	बीवीएससीएच / एएयू / 97	4.10.69
272	चौधरी चंद्र कांत फुल्जीभाई	गुजएसवीसी / 2438 / 02	एटी एवं डाक-खंडोसन, डेयरी के निकट, विस्नगरार, मेहसाना- 384310	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	18.09.78
273	चौधरी मनेश मोरख	महाएसवीसी / 6605	ए / पी वाका, ताल.नजर, जिला सूरत (गुजरात) 394370 ए / पी वदफाली, ताल नवापुर, जिला नंदुरबार	बीवीएससीएच / एमपीकेवी / 01	1.6.78

क्र.सं.	नाम	संजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
274	चौधरी यशपाल सिंह उमाजी	गुजएसवीसी / 2442 / 02	28, सनराइज पार्क, दीसा, बनासकंठा- 385535	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	11.6.80
275	चौधरी ईश्वरजी देवाजी	गुजएसवीसी / 2431 / 02	एटी: शेरपुरा, डाक कन्सारी, दीसा, बनासकंठा- 385535	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	31.08.79
276	चौधरी उदय कुमार भगवानभाई	राजएसवीसी / 2872 / 02	एटी / पी-गोंग रानीवाड़ा, जालौर, राजस्थान	बीवीएससीएच / जीएयू / 94	20.9.70
277	चेन्नाकेशव रेड्डी टी. सी., पुत्र श्री टी.सी. चिकन्ना रेड्डी	कर्नाएसवीसी / 3329	धमन्नाहल्ली चिककबनवारा डाक उत्तरी बंगलौर, बंगलौर- 90	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 01	5.7.78
278	चेतिया सुलव, पुत्र श्री जीब कांता चेतिया	एसएमएसवी सी / 2014 / 02	द्वारा श्री जे.के. चेतिया, एयरफोर्स स्टेशन, मोहनबारी, डाक मोहनबारी, डिब्रूगढ़	बीवीएससीएच / एएयू / 01	
279	छबील कुमार माझी, पुत्र श्री साकरी माझी	उड़ीसाएसवीसी / 1882 / 03	एटी-काडेल, डाक-तुरची, वाया- एम.रामपुर, जिला- कालाहांडी- 766102	बीवीएससीएच / ओयूएण्डटी / 03	18.3.78
280	चिगुरुपति श्रवन कुमार, पुत्र श्री सुब्बा राव	एपीएसवीसी / 3884 / 02	डीआर.न.10-15-44 डी / 3, साथिंग(निकट जयउषा स्कूल), रामामूर्थिपेट, जिला नेल्लोर, आ.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	15.8.78
281	चिन्मय कुमार दास, पुत्र श्री रघुनाथ दास	उड़ीसाएसवीसी / 1865 / 02	द्वारा रघुनाथ दास, एटी- चौलिया साही, डाक- मोतीगन, जिला- बालासौर	बीवीएससीएच / ओयूएण्डटी / 01	30.8.77
282	चित्रा सी.एस.	केरलएसवीसी / 2700 / 02	चेम्बिल हाउस, कर्नाटदुकारा डाक, थिसूर-680011	बीवीएससीएच / केएयू / 02	15.7.77
283	चिट्टिथोट्टिड अनिल कुमार, पुत्र श्री सुभारत्नम	एपीएसवीसी / 3973 / 02	न.पी / 13, डाक तार कालोनी, प्रगति भवन, द.बाईपास रोड, ओंगोल प्रकासम जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	2.8.77
284	चोपडे प्रशान कुमार तेजराव	महाएसवीसी / 6654	ए / पी देओरी, तालुक अकोट, जिला- अकोला	बीवीएससीएच / एमएएफएसयू / 02	28.6.79
285	क्रिश्चियाना स्वरूपा रानी, पुत्र श्री पी. देवदानम	एपीएसवीसी / 3903 / 02	13 / 682, रामचंद्र नगर, अर्नतपुर- 515001, आ.प्र.	बीवीएससीएच / एपीएयू / 85	09.12.61
286	सिजो के. जोसेफ	केरलएसवीसी / 2753 / 02	सी 30 / 1225, कोट्टापुरम हाउस, सफदर हाशमी लेन, डाक वायटिला, कोची 682019	बीवीएससीएच / केएयू / 02	05.6.78
287	कर्नल वीरेश कुमार	मणिएसवीसी / 383 / 02	डॉंग यूनिट, लाइमाखोंग	बीवीएससीएच / यूपीएयू / 67	27.9.44

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
288	कॉन्सटैंडिंग थोंगनी, पुत्र श्री पी. तुसनिया	मेघएसवीसी / 193 / 02	उम्सनिंग रिभोई, जिला- 793105	बीवीएससीएच / एएयू / 89	4.6.69
289	डी. पद्मजा, पुत्र श्री पार्था सारथी	एपीएसवीसी / 3923 / 03	7-1-302 / 45 / 3, बी.के.गुडा, एस.आर. नगर, हैदराबाद, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	17.6.77
290	डी.के. गौतम, पुत्र श्री मुनीश लाल	यूपीएसवीसी / 3578 / 02	ग्राम बाघुर, डाक- भैंसोल, जिला- औरैया	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 02	15.2.72
291	दाभी दिनेश कुमार मफतलाल	गुजएसवीसी / 2430 / 02	सिलेक्शन टेलर्स, श्रीराम शॉपिंग सेंटर, स्टेशन रोड, धानेरा, बनासकंठा 385310	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	31.10.79
292	दधानिया परेश कुमार किशोरभाई, पुत्र श्री के.एन. दधानिया	वीसीआई / 2453 / 04	704, रॉयल निर्माण श्यामल चार रास्ता, 100 फुट रोड, सैटेलाइट, अहमदाबाद	बीवीएससीएच / जीएयू / 94	14.9.69
293	दलाल सुनीता कुमारी	राजएसवीसी / 2893 / 02	विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 94	6.7.70
294	दलीप कुमार पंडिता, पुत्र श्री माखन लाल पंडिता	पंजाबएसवीसी / 2339 / 02	#1602(पहलीमंजिल), से.22-बी, चंडीगढ़, न्यू इंडिया इश्योरेंस कं. लि., एससीओ 36-37 / 17 ए चंडीगढ़	बीवीएससीएच / आरएयू / 82	19.10.60
295	दलविंदर सिंह, पुत्र श्री बलबीर सिंह	पंजाबएसवीसी / 2386 / 02	ग्राम चहल खुर्द, डाक- कामम, थाना एवं जिला नवाशहर	बीवीएससीएच / पीएयू / 01	7.7.72
296	दास चंद्रलेखा, पुत्र श्री अनिल च. दास	एएसएमएसवी सी / 2037 / 02	द्वारा श्री ए.सी. दास, गणेशगुरी नर्सरी, लक्ष्मीनगर, गुवाहाटी-6	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
297	दास चित्रलेखा, पुत्री श्री अनिल च दास	एएसएमएसवी सी / 2039 / 02	द्वारा श्री ए.सी. दास, गणेशगुरी नर्सरी, लक्ष्मीनगर, गुवाहाटी-6	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
298	दास देबजानी, पुत्री श्री उमेश्वर दास	एएसएमएसवी सी / 2064 / 02	मिलानुर, वार्ड न. 3, डाक- डेरगांव, जिला- गोलाघाट, असम	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
299	दास हेमेन, पुत्र श्री कुमुद दास	एएसएमएसवी सी / 2069 / 03	ग्राम हल्हीनापुर, डाक- बोंगाईगांव, जिला-बारपेटा, पिन- 781375	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
300	दास जीतू मोनी, पुत्र श्री राजेन च दास	एएसएमएसवी सी / 2057 / 02	ग्राम एवं डाक- सुआलकुची (उ.पारा), जिला कामरूप	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
301	दास जॉय प्रकाश, पुत्र श्री कृष्णा दास	एएसएमएसवी सी / 2047 / 02	ग्राम बाचागांव, डाक पानीगांव, जिला-लखीमपुर	बीवीएससीएच / एएयू / 02	

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
302	दास राजीव कुमार, पुत्र श्री मामत च दास	एएसएमएसवी सी/2076/03	ग्राम बालासिद्धि, डाक एवं थाना चिगांव, जिला-कामरूप	बीवीएससीएच/ एएयू/03	
303	दास (कु.) हीरामोनी, पुत्री श्री अहीन्द्र नाथ दास	एएसएमएसवी सी/2045/02	द्वारा श्री ए.एन. दास, प्रगति पथ, डाक एवं जिला बोंगोईगांव	बीवीएससीएच/ एएयू/02	
304	दासप्पा एम., पुत्र श्री मुरुगप्पा	कर्नाएसवीसी/ 3409	सुभाष नगर, अज्जमपुर, चिकमगलूर जिला	बीवीएससी/यूए स, बंगलौर/80	5.7.47
305	दशरथ बी. मदाभवी, पुत्र श्री बासप्पा एस. मदाभवी	कर्नाएसवीसी/ 3355	डाक इंदलगांव, तालुक अथानी, जिला बेलगालुम 591220	बीवीएससीएच/ यूएसएसधारवाड़/ 02	1.12.76
306	देबाशीष बिस्वाल, पुत्र श्री अमूल्य कुमार बिस्वाल	उड़ीसाएसवीसी /1887/03	एटी/डाक- जानीकुआडा, वाया बलियापाल, जिला बालासौर	बीवीएससीएच/ ओयूएएंडटी/03	13.5.78
307	दीपक कुमार प्रसाद, पुत्र श्री कपिल देव प्रसाद	बिहारएसवीसी /2223/02	ग्राम-लोधीपुर, डाक-नालंदा, थाना-नालंदा, जिला-नालंदा	बीवीएससीएच/ आरएयू/01	20.11.75
308	दीपक कुमार सेनापति, पुत्र श्री पूर्ण चंद्र सेनापति	उड़ीसाएसवीसी /1900/03	एटी: सिल्पी कुम्भार, डाक- बक्सबाजार, कटक-753001	बीवीएससीएच/ ओयूएएंडटी/03	1.7.79
309	दीपक मिन्हास, पुत्र श्री शक्ति सिंह मिन्हास	पंजाबएसवीसी /2377/02	ग्राम सदूलपुर, थाना-हारसा कलोटा, मुकेरियान, जिला- होशियारपुर	बीवीएससीएच/ पीएयू/01	20.2.75
310	दीपक सुबर्न, पुत्र श्री बीरेंद्र कुमार चड्ढा	बिहारएसवीसी /2187/01	ग्राम-वार्ड न. 2, डाक-भभुआ, थाना-भभुआ, जिला-कैमूर	बीवीएससीएच/ बीएयू/01	31.12.76
311	दीपाली चड्ढा, पुत्री श्री कराति चड्ढा	एचपीएसवीसी /621/02	द्वारा मनीष कपूर, मादीरोमा, 40- इंड.एरिया, शमशी, कुल्लू, हि.प्र.	बीवीएससीएच/ एचपीकेबीवी/99	15.10.76
312	देइवानाई एम, पुत्र श्री दिरावियम डी	कर्नाएसवीसी/ 3418	135,साई नीलया, पूर्ण प्रगति रोड, हावानूर एक्स., नागसांद्रा डाक, त.दसारहल्ली, बंगलौर-73	बीवीएससी/टीएन वीएसबूनिच/96	25.3.73
313	डेका (कु.) करही, पुत्री श्री जॉय च डेका	एएसएमएसवी सी/2035/02	द्वारा श्री जॉय च डेका, महारानी पथ, आखिरी गेट, दिसपुर	बीवीएससीएच/ एएयू/02	
314	देकाटे अविनाश हेराम्ब	महाएसवीसी/ 6566	एटी-डाक कुरखेड़ा, जिला- गडचिरोली	बीवीएससीएच/ पीकेवी/79	7.8.52
315	डेकू अनिमेष, पुत्र स्व. श्री धुरानी घर डेका	एएसएमएसवी सी/2051/02	ग्राम एवं डाक-जगारा, थाना बेलसोर, जिला-नलबारी, पिन- 781310	बीवीएससीएच/ एएयू/02	

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	सैद्धान्तिक अर्हताएं	जन्मतिथि
316	देसाई राजेन्द्रकुमार सोमाभाई	गुजएसवीसी / 2425 / 02	एटी / डाक अमोध, सबरीवास, उंझा, मेहसाना- 384170	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	1.1.80
317	देशाट्टिकवार जगन्नाथ जनार्दन	महाएसवीसी / 6644	एटी-मराठवाकडी, डाक- ढोकी, ताल, पंढारकवाडा, जिला- यवतमाल 445305	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	16.1.80
318	देशपांडे गिरीश कालीदास	महाएसवीसी / 6696	योगानंद निवास, वृंदावन कॉलोनी, कारेगांव रोड, परभनी, जिला- परभनी	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	24.9.79
319	डेजी रानी, पुत्र श्री जोगिन्दर पाल	एचपीएसवीसी / 651 / 02	एचआईजी-71, एच.बी. कॉलोनी, होल्ता, पालमपुर जिला कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएच / पीएयू / 90	24.3.64
320	देव संकर, पुत्र श्री साधन रंजन देव	एसएमएसवी सी / 2012 / 02	द्वारा श्री साधनरंजनदेव, उदयन पथ, रुक्मिणीगांव, गुवाहाटी- 22	बीवीएससीएच / एएयू / 01	
321	देवेन्द्र पंवार	राजएसवीसी / 2949 / 03	सदर बाजार, देगाना (जेएनसी), राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	8.7.76
322	देवेन्द्र कुमार गुप्ता, पुत्र श्री मोहरियल गुप्ता	एमपीएसवीसी / 2076 / 02	न्यू कॉलोनी, जीसीएम कॉन्वेंट रोड, नौगांव, जिला छत्तरपुर- 471201	बीवीएससीएच / जेएलएनकेबीवी / 01-02	7.6.78
323	देवेन्द्र कुमार गौतम, पुत्र श्री मुंशीलाल गौतम	एमपीएसवीसी / 2126 / 03	ई-6, इंद्रमानिन नगर, मेला ग्राउंड के पीछे, ग्वालियर, म.प्र. - 474005	बीवीएससीएच / जेएलएनकेबीवी / 01-02	15.2.72
324	धनलक्ष्मी एस, पुत्र स्व. श्री शरणप्पा बी.	कर्नाएसवीसी / 3310	श्रुति नीलया, मेन म्युनिसिपल कॉलोनी, केलागोट, चित्रदुर्ग 577501	बीवीएससीएच / यूएसधारावाड / 01	13.3.79
325	धान्या मेनन	केरलएसवीसी / 2690 / 02	आनंद भवनम्, कडावथ रोड, उत्तरी परावूर, अर्नाकुलम- 683513	बीवीएससीएच / केएयू / 02	2.2.70
326	धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता	राजएसवीसी / 2936 / 03	द्वारका प्रसाद प्रकाश चंद, नई मंडी, टोडा भीम, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	15.1.76
327	धर्मेन्द्र कुमार वर्मा, पुत्र श्री हरिहर महतो	बिहारएसवीसी / 2143 / 01	ग्राम-दारुडीह, डाक- लासलीगंज, जिला-पलामू	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	9.1.75
328	धर्मेन्द्र सूर्यवंशी, पुत्र श्री बाजीलाल सूर्यवंशी	एमपीएसवीसी / 2128 / 03	गंजबाजार, अब्दुल समद मार्ग, खंडवा जिला, खंडवा, म.प्र.- 450001	बीवीएससीएच / जेएलएनकेबीवी / 00-01	10.3.74
329	धुम्मन सिंह	राजएसवीसी / 2885 / 02	विजय नगर कॉलोनी, बरसी, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / जीबीपीकेईपीवी / 76	1.1.54

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
330	दिजेश उन्नीकृष्णन	केरलएसवीसी /2750/02	1/3845, दिव्यश्री बिलाठीकुलम, वेस्ट हिल, डाक कोजीकोड- 672005	बीवीएससीएच/केएयू/02	8.6.78
331	दिलीप कुमार दास, पुत्र श्री दामोदर दास	उड़ीसाएसवीसी /1872/02	ग्राम बासुदेवपुर, डाक गोबरा, जिला गजम-761124	बीवीएससीएच/यूएसधारवाड/00	22.9.77
332	दिलीप रेडडी गुंदूर, पुत्र श्री वेकटचलम रेडडी	एपीएसवीसी/3 891/02	जे-3 लक्ष्मी दुर्गा अपार्टमेंट, जयप्रकाश नगर, तेनाल्ली, गुंदूर जिला, आंध्र.	बीवीएससीएच/एएनजीआरएयू/2002	26.8.79
333	दिलीप कुमार सेथी, पुत्र श्री गोबिंद सेथी	उड़ीसाएसवीसी /1913/03	एटी-जयाबदा, डाक एवं जिला जगतसिंगपुर	बीवीएससीएच/ओयूएंडटी/03	15.7.77
334	डिम्पल गोयल, पुत्र श्री अशोक कुमार गोयल	पंजाबएसवीसी /2423/03	गोयल डायग्नोस्टिक लैब., धुरीगेट, संगरूर	बीवीएससीएच/पीएयू/02	2.10.78
335	दिनेश चंद्र बंमनिया	राजएसवीसी /2894/02	द्वारा रूपलाल बंसनिया (अध्यक्ष), गवर्नर्स स्कूल, देल वाडा, घटोल, बांसवाडा, राज.	बीवीएससीएच/टीएनवीएसयू/02	10.1.78
336	दिनेश दादरवाल, पुत्र श्री क.आर. दादरवाल	पंजाबएसवीसी /2384/00	मं.न. 32, सतगुरु नगर, लुधियाना	बीवीएससीएच/एचएयू/99	17.9.75
337	दिनेश कुमार बिरमा	राजएसवीसी /2962/03	ग्राम नारखेरा, डाक खन्नवाल, दोसा, राजस्थान	डॉ पीडीकेवी/आरएयू/03	1.7.77
338	दिनेश कुमार द्विवेदी, पुत्र श्री अम्बिका प्रसाद द्विवेदी	बिहारएसवीसी /2140/01	ग्राम बर्का दकैच, डाक बर्का दकैच, थाना-कृष्ण ब्रह्म, जिला-बक्सर	बीवीएससीएच/आरएयू/01	25.10.76
339	दिनेश कुमार, पुत्र श्री रामकृष्ण दोहरे	एमपीएसवीसी /2129/03	पसैया सामेरा, डाक नयासमद, तुह- बेरिया, जिला- भोपाल	बीवीएससीएच/जेएलएनकेवीवी/98-99	4.11.72
340	दिनेश महतो, पुत्र श्री देवलाल महतो	बिहारएसवीसी /2176/01	ग्राम गोरा, डाक-गोंडक, थाना-सामगढ़, जिला- हजारीबाग	बीवीएससीएच/बीएयू/01	25.8.75
341	दिनेश नागर, पुत्र स्व. श्री बी.एल. नागर	एमपीएसवीसी /2107/02	ई-4/391, अरेरा कॉलोनी, भोपाल- 462016	बीवीएससीएच/जेएलएनकेवीवी/01-02	7.7.77
342	दिनेश कुमार, पुत्र श्री राजपाल सिंह	एमपीएसवीसी /18713/03	ग्राम कमलासंगर, कलेक्टर राज, जिला- फतेहपुर	बीवीएससीएच/डीपीपीएच/60	8.11.60
343	दिनेश कुमार एच, पुत्र श्री शांतप्पा	कर्नाएसवीसी /3395	हिरनल्लूर, कडूर जिला, विक्रमगलूर जिला	बीवीएससीएच/यूएस, बगलौर/02	16.3.80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
344	दीपल कांति साहा, पुत्र हरि चरन साहा	त्रिपुरावीसी/ 148/03	सुभाष रोड, डाक- आर.के.पुर, दक्षिणी त्रिपुरा	बीबीएससीएच/ कलकत्ताविधि/73	20.1.49
345	दीपन किसान, पुत्र श्री कृष्णा किसान	उड़ीसाएसवीसी /1916/03	एटी-मंत्रीमुंडा, डाक-टी.टी.मल, वाया-कुचिंडा, जिला- सम्बलपुर- 768222	बीबीएससीएच/ ओयूएंडटी/03	1.7.79
346	दीपु एम.टी.	केरलएसवीसी /2734/02	मुक्कम मोदू, डाक कलावूर, अलपुजाह- 688522	बीबीएससीएच/ केयू/02	27.5.79
347	दिसाले किरन सदाशिव	महाएसवीसी/ 8620	एटी पराटवाडी, डाक रेलियाडी, तालुक कोरेगांव, जिला सतारा- 415011	बीबीएससीएच/ एमएफएसयू/02	19.3.80
348	दिवेंदु नंदी, पुत्र श्री जे.एन. नंदी	एमपीएसवीसी /2124/03	1463, बंगाली कॉलोनी, रांझी, जबलपुर- 482005	बीबीएससीएच/ डब्ल्यूबीयूएंड एफएसयू/02	24.6.79
349	दिवाकर बाबूराव सिरोदे, पुत्र श्री सरोदे बाबूराव	वीसीआई/ 2446/04	185, फ्रेंड्स कॉलोनी, कटोल रोड, नागपुर- 440013 (महा.)	बीबीएससीएच/ पीआरकेवीपी/73	2.10.52
350	दोडप्पा हूगर, पुत्र श्री हनुमंतराया हूगर	कर्नाएसवीसी/ 3307	डाक थलावर, बी.बागेवाडी, तालुक बीजापुर जिला- 586201	बीबीएससीएच/ यूएसधारवाड/ 01	20.7.78
351	डोले घन कांता, पुत्र श्री लाये प्रह्लाद डोले	एसएमएसवी सी/2053/02	पातिरी ग्राम एवं डाक- कुलांजन, जिला-धोमाजी, पिन- 786110	बीबीएससीएच/ एयू/02	
352	दुष्यंत प्रीत, पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा	पंजाबएसवीसी /2365/02	आदर्श नगर, नई बस्ती, मनसा- 151505	बीबीएससीएच/ पीयू/02	14.10.78
353	दत्ता (कु.) लक्ष्य ज्योति, पुत्री सार्जे कांता नाथ दत्ता	एसएमएसवी सी/2085/03	द्वारा कांता नाथ दत्ता, मिटोंग, नकालानी, ग्राम एवं डाक- गौरीसागर, जिला सिबसागर	बीबीएससीएच/ एयू/03	
354	दत्ता डॉ. गीतार्थ, पुत्र श्री अनिल दत्ता	एसएमएसवी सी/2087/03	ट्रेनिंग सेंटर, सिक्स माइल कैम्पस, गुवाहाटी-22	बीबीएससीएच/ एयू/03	
355	दत्ता काबेरी, पुत्री श्री पी.के. दत्ता	एसएमएसवी सी/2026/02	बिष्णु नगर के निकट, एल.पी. स्कूल, डाक एवं जिला डिब्रूगढ़, पिन- 786001	बीबीएससीएच/ एयू/02	
356	दत्ता पंकज, पुत्र सार्जे धरमेश्वर दत्ता	एसएमएसवी सी/2065/02	झाजी बोरा गांव, जोरहाट	बीबीएससीएच/ एयू/02	
357	दत्ता (कु.) अजता, पुत्री डॉ. यू.सी. दत्ता	एसएमएसवी सी/2038/02	द्वारा डॉ. यू.सी. दत्ता, कुमारपाड़ा, भारालुमुख, गुवाहाटी-9	बीबीएससीएच/ एयू/02	

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
358	फैयाज अहमद पुत्र श्री भौसे मौहम्मद एम. मुल्ला	कर्नाएसवीसी/ 3350	रेलवे स्टेशन के निकट, हनुमान मंदिर के पीछे, बगलकोट- 587101	बीवीएससीएच/ यूएएसधारकाड/ 02	5.4.77
359	फेबी थॉमस	केरलएसवीसी /2759/02	थिरुमंगलाथु वीदू, डाक चन्नापेटा, कोल्लम- 691311	बीवीएससीएच/ एमएफएसयू/02	9.3.80
360	फिस्के अमोल विश्वेश्वर	महाएसवीसी/ 6655	ए/पी हाटला, तालुक कटोल, जिला-नागपुर	बीवीएससीएच/ एमएफएसयू/02	11.1.79
361	जी. रामाकिशोर, पुत्र श्री जी.वी. श्रीनिवास मूर्ति	एपीएसवीसी/ 3856/02	म.न.16-3-882, दूसरी गली, हरनाधपुरम, नेल्लोर- 524003 (ऑ.प्र.)	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	14.7.77
362	गभाने गिरीश काशीनाथ	महाएसवीसी/ 6565	6-ए. फॉरेस्ट कॉलोनी, एम.एल. ए. होस्टल के निकट, सिविल लाइन्स, नागपुर	बीवीएससीएच/ डॉ.पी.डी.के.वी./01	15.6.79
363	गडवी सुखदेवसिंह पद्मन	गुजएसवीसी/ 2441/02	द्वारा सी.जी. गडवी, सुखबाग रोड, अर्बुदनगर, धुंदियावाडी, पालनपुर, बनासकंठा	बीवीएससीएच/ जीएयू/02	16.6.76
364	गगन गौडी, पुत्र श्री सुरेश चंदर	हरिएसवीसी/ 1731	558/4, जवाहर नगर, हिसार	बीवीएससीएच/ सीसीएसएचएयू/ 02	6.7.78
365	गगन सिंह दिल्ली, श्री मनोहर सिंह	पंजाबएसवीसी /2415/03	107, प्रेम नगर, बटाला रोड, अमृतसर	बीवीएससीएच/ जीएयू/02	5.8.74
366	गजेंद्र राजपुरोहित	राजएसवीसी/ 2948/03	गंगा गौशला के निकट, होखा, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	20.7.78
367	गणेश चंद्र मोहंती, पुत्र श्री मोहंती मोहंती	उड़ीसाएसवीसी /1868/02	एटी: कांडीसाही, डाक- बनियापल, वाया: अरेई, जिला- जाजपुर 755027	बीवीएससीएच/ ओयूएंडटी/01	10.6.77
368	गणेश जी. कुष्ण कुमार, पुत्र श्री मोहन प्रसाद वर्मा	बिहारएसवीसी /2096/01	ग्राम-लक्ष्मणपुर, कोइरी टोला, डाक-गुलजारबाग, थाना आलम गंज, जिला-पटना, पिन 800007	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 00	1.1.76
369	गणेश कुमार गार्ग	राजएसवीसी/ 2929/03	24-बैंक कॉलोनी, महेश नगर एक्स. 8, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	28.12.75
370	गणेश सुन शर्मा, पुत्र श्री शर्मा शर्मा	बिहारएसवीसी /2177/01	ग्राम-चांची, डाक-गमहारिया, थाना-घागरा, जिला- गुमला	बीवीएससीएच/ बीएयू/01	10.7.75
371	गंगाधर बी.एस., पुत्र स्व. श्री सिदइयाह	कर्नाएसवीसी/ 3417	न.2 क्लास क्वार्टर्स, बंगलौर डेयरी कॉलोनी, डी.आर. कॉलेज पोस्ट, बंगलौर-29	बीवीएससी/यूए स.बंगलौर/72	23.6.47

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
372	गट्टी योगिश, पुत्र श्री गट्टी सदाशिव	कर्नाएसवीसी / 3368	सरकारी अस्पताल के पीछे, कोरटागरे, तुमकुर जिला- 572129	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	20.4.79
373	गावित दिनेश कुमार सत्तेसिंह	महाएसवीसी / 6610	इडिया सिक्योरिटी प्रैस, स्टाफ क्वान. डी-27, नासिक रोड, नासिक- 4222101	बीवीएससीएच / एमपीकेवी / 01	27.4.77
374	गया प्रसाद जाटव, पुत्र श्री रामदाश जाटव	एमपीएसवीसी / 2073 / 02	कमरा न. 4, टैगोर हॉल, वेटरिनरी कॉलेज, म्हऊ- 453446	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	19.11.76
375	गीता रानी जेना, पुत्र श्री नारायण चंद्र जेना	उडीसाएसवीसी / 1871 / 02	एटी / डाक- असुराली, जिला भदरक	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	8.2.77
376	जॉर्ज (कु.) शिर्नॉय, पुत्री श्री जॉर्ज मल्हई	एसएमएसवीसी / 2028 / 02	ग्राम एवं डाक- चबुआ (बोगडुगी), जिला डिब्रुगढ़	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
377	जॉर्ज शेरिन के.	केरलएसवीसी / 2687 / 02	कुट्टीकट्टू हाउस, रार बोर्ड, डाक कोट्टायम, पिन 686009	बीवीएससीएच / केएयू / 02	22.11.77
378	घनबहादुर विद्याधर समाधान	महाएसवीसी / 6628	एटी डाक-कावसा, तालुक अकोला, जिला-अकोला, पिन- 444101	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	1.10.78
379	घनवत धनंजय विठलराव	महाएसवीसी / 6670	एटी वाडजल, डाक-निम्बोरे, तालुक फाल्टन, जिला-सतारा	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	22.2.80
380	ज्ञान सिंह, पुत्र श्री भोपाल सिंह	हरिएसवीसी / 1739	ग्राम तेजपुर, डाक-मंडी, नारनौल	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 02	25.8.75
381	गिरीश कुमार गोयल	राजएसवीसी / 2941 / 03	राधे श्याम राम अवतार, नई मंडी, हिन्डौन शहर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	10.1.77
382	गिरिराज एन, पुत्र श्री होन्नाना गोडवार एन.	कर्नाएसवीसी / 3369	श्रीशिला नीलया, डाक वोहांगीदुर्गा, तालुक हरपनाहल्ली, दावणगेरे 58325	बीवीएससीएच / यूएसधरवाड / 02	13.3.80
383	गिरीश कांत वर्मा	राजएसवीसी / 2964 / 03	गुजलि मायो, लिंक रोड, पुरान सरस्वती नगर, अजमेर राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	18.7.74
384	गिरीश एल, पुत्र श्री एस. लक्ष्मन्ना गोडा	कर्नाएसवीसी / 3374	अललुकुप्पे, डाक चक्रभावी, ताल. मगडी, ग्रामीण बंगलौर 562120	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	20.7.78
385	गोगोई चंदन, पुत्र श्री एम.एन. गोगोई	एसएमएसवीसी / 2015 / 02	द्वारा श्री एम.एन. गोगोई, वार्डन. 3, पीजी होस्टल, सीवीएससी, एएयू, डाक जोरहाट लखीमपुर	बीवीएससीएच / एएयू / 01	

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
386	गोगोई दिगोनोतो, पुत्र श्री एन.के. गौगोई	एसएसएसवी सी/2061/02	बसिस्ट बोरपाथर, डाक बेसटोला, गुवाहाटी-2	बीवीएससीएच/ एएयू/02	
387	गोहिल प्रद्युम्नसिंह वरसिंहभाई	गुजएसवीसी/ 2417/02	टीओ कोडीनार विजय सेल्स एजेसी, माधव कॉम्प्लेक्स जूनागढ़- 362720	बीवीएससीएच/ जीएयू/02	20.9.79
388	गोपाल राज बंसल, पुत्र श्री यू.आर. बंसल	एमपीएसवीसी /2054/02	नेहरु बाजार, विजयपुर, जिला शिओपुर- 476332	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 00-01	25.6.73
389	गोरिया हरशद वाघाजी	गुजएसवीसी/ 2404/02	गोर-खिजाडिया, डाक शारदा नगर, मोरबी, राजकोट 363636	बीवीएससीएच/ जीएयू/02	7.12.78
390	गोस्वामी अनजान, पुत्र श्री सरत च गोस्वामी	एसएसएमएसवी सी/2046/02	ग्राम भोटाई गांव, डाक उरीगांव, जिला नागाव	बीवीएससीएच/ एएयू/02	
391	गौर रितेश बजरंगसिंह	महाएसवीसी/ 6643	दुर्गा भवन बी-152, शोभा नगर, तालुक एवं जिला- नाडोड	बीवीएससीएच/ एमएफएसयू/02	30.6.79
392	गोविंद कुमार बंसल, पुत्र श्री आर.पी. बंसल	एमपीएसवीसी /2113/03	36, नीमानगर, केशरबाग रोड, इंदौर- 452012	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	7.10.78
393	गौडा सुधीर निंगे, पुत्र श्री एस. लिंगेगौडा	कर्नाएसवीसी/ 3328	जी.बी. अनिल, विद्यानगर, कनारा बैंक के निकट, शिमोगा	बीवीएससीएच/ एमएयू/98	27.3.76
394	गुलशन कुमार, पुत्र श्री रमेश चंद	हरिएएसवीसी/ 1737	ग्राम एवं डाक सीवन कैथल	बीवीएससीएच/ सीसीएसएचएयू/ 02	19.2.80
395	गुंजन गाखर, पुत्र श्री अनिल कुमार	पंजाबएसवीसी /387/02	2336/बी, जोहीनगर, हैबोवाल, लुधियाना	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	23.12.79
396	गुरबिंदर सिंह, पुत्र श्री दर्शन सिंह	पंजाबएसवीसी /2412/03	ग्राम एवं डाक भल्लइयाना, जिला मुक्तसर- 152101	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	24.4.80
397	गुरविंदर पाल सिंह, पुत्र श्री संगत सिंह	पंजाबएसवीसी /2373/02	ग्राम पजढेरा राया, डाक मसूर, थाना मुकरियन, जिला होशियारपुर	बीवीएससीएच/ पीएयू/01	30.11.76
398	ज्ञानु लक्ष्मण दीपके	राजएसवीसी/ 2888/02	इंचार्ज, सरकारी पशु चिकित्सा अस्पताल, बबारा, पाली मारवाड़, राजस्थान	बीवीएससीएच/ एमएयू/94	17.6.60
399	एच.सी.लाल, पुत्र स्व. श्री एस.पी. श्रीवास्तव	यूपीएसवीसी/ 3637/02	स्वामी विवेकानंद नगर, देओकाली, फेजाबाद	बीवीएससीएच/ आगराविधि/75	15.8.50

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
400	एच.पी. द्विवेदी, पुत्र श्री एम.एल. द्विवेदी	यूपीएसवीसी / 3615 / 02	शुक्लाना मौहल्ला, महोबा, उ.प्र.	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 02	10.7.78
401	एच. सोमनाथ, पुत्र मुनप्पा	एपीएसवीसी / 3838 / 02	ब्राह्मन स्ट्रीट, चिलामटूर, अमंतपुर, जिला- 515341 (आं.प्र.)	बीवीएससीएच / एपीएयू / 1996	5.4.72
402	हफीज अब्दुल, पुत्र अब्दुल हलीम	एएसएमएसवीसी / 2077 / 03	हॉस शमोजुद्दीन अहमद, डाक सोनकुची, उत्तरी बारपेटा शहर, खोंगरकुची, बारपेटा	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
403	हक्के प्रकाश पंडारी, पुत्र श्री हक्के पंडारी	एपीएसवीसी / 3843 / 02	म.न. 5-96, देगांव डाक, भइसा (एम), आदिलाबाद जिला, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एमएयू / 2001	4.2.78
404	हलोई बिचित्रा, पुत्र श्री धर्मेश्वर होलोई	एएसएमएसवीसी / 2056 / 02	ग्राम कठालमूरा, डाक जलखनन, जिला-नलबारी	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
405	हंदराम मीना	राजएसवीसी / 2953 / 03	ग्राम एवं डाक तोरीखोहारा टोडाभीम, करौली, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	20.7.77
406	हंगे कौस्तुभ दिलीप	महाएसवीसी / 6647	हंगे चौडा, म.न. 730, शुक्लेश्वर रोड, राहुरी तालुक, राहुरी जिला, अहमदनगर	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	17.2.80
407	हन्नुरकर प्रात्रा भरमु	महाएसवीसी / 6702	ए/पी किनी, तालुक-चांदगढ़, जिला-कोल्हापुर	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	28.5.79
408	हरे लाल महतो, पुत्र श्री दुर्लभ महतो	बिहारएसवीसी / 2160 / 01	ग्राम-पेडाइडीह, डाक-मानुसपीरी, थाना-तमार, जिला-रांची	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	7.1.74
409	हरि राम सोनी	राजएसवीसी / 2968 / 03	एमपीओ- अर्जुन सार, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	3.9.75
410	हरीश कुमार शर्मा, पुत्र श्री चरनजीत लाल शर्मा	पंजाबएसवीसी / 2371 / 02	225 / 11, शंकर नगर, टिबरी रोड, गुरदासपुर	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	28.10.78
411	हरीश कुमार, पुत्र श्री विद्या प्रसाद राय	बिहारएसवीसी / 2102 / 01	ग्राम अंदरकिल्ला, वार्ड न. 7, डाक हाजीपुर, थाना हाजीपुर, जिला वैशाली, पिन-844101	बीवीएससीएच / आरएयू / 00	1.12.68
412	हरमनप्रीत सिंह धारीवाल	राजएसवीसी / 2923 / 00	ए.एस.धालीवाल, इंद्रा कॉलोनी, यूटीआई क्वार्टर्स के सामने, एफसीआई रोड, बीकानेर राज.	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	27.7.75
413	हरप्रीत सिंह	राजएसवीसी / 2954 / 03	माली न-7-8, सुंदरी नगरी, अन्धार, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 01	15.10.74

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
414	हर्षा के.एस. पुत्र श्री मल्लिकार्जुन	कर्नाएसवीसी / 3389	द्वारा के.एस. सदाशिवनेरलिंगे, डाक जवगल होबली, अरासीकेरे तालुक, हसन जिला	बी.बी.एस.सी.एच. / यू.एस. बंगलौर / 02	16.12.78
415	हरविंदर सिंह, पुत्र श्री भुपिन्दर सिंह एवं श्रीमती तेज कौर	पंजाबएसवीसी / 27335 / 02	म.न. 821, मोह-सैदान नकोदर, जालंधर	बी.बी.एस.सी.एच. / पी.एयू. / 02	16.7.78
416	हसीना के.एच.	केरलएसवीसी / 2736 / 02	कल्लीकुन्नेल हाउस, डाक एडवेट्टी, थोडुपुज्जाह, इडुक्की-685588	बी.बी.एस.सी.एच. / के.एयू. / 02	16.3.78
417	हाशमी सैयद जुल्फिकार अली	महाएसवीसी / 6660	ब्लू स्टार अपार्टमेंट, प्लॉट न. 7, जुबिली पार्क, भडकर गेट, औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद	बी.बी.एस.सी.एच. / बम्बई विवि / 68	5.5.46
418	हजारिका प्रशांत कुमार, पुत्र श्री चंद्र कांत हजारिका	एस.एस.एम.एस.वी.सी. / 2025 / 02	डाक धालपुर, ग्राम धालपुर, लखीमपुर, पिन- 7841365	बी.बी.एस.सी.एच. / ए.एयू. / 02	
419	हजारिका रूपम चंद्रा, पुत्र श्री फाटिक च. हजारिका	एस.एस.एम.एस.वी.सी. / 2059 / 02	द्वारा फाटिक च. हजारिका, बककालीघाट, कार्बी, अंगलॉंग, बालिजान, असम	बी.बी.एस.सी.एच. / ए.एयू. / 02	
420	हिरम्बा प्रसाद सतपथी, पुत्र श्री कम्बुपानी सतपथी	उड़ीसाएसवीसी / 1914 / 03	एटी / डाक बिजय लक्ष्मी, सारनपुर, जिला गंजम- 761119	बी.बी.एस.सी.एच. / ओ.यू.ए.एंड.टी. / 03	7.5.77
421	हिमांशु कुमार, पुत्र श्री सतवन सिंह	बिहारएसवीसी / 2158 / 01	ग्राम करमा, डाक करमा, थाना कारोकोट, जिला रोहतास	बी.बी.एस.सी.एच. / बी.एयू. / 01	5.7.75
422	हीरालाल एस. जानगी, पुत्र श्री शिवप्पा एस. जानगी	कर्नाएसवीसी / 3391	लिंगाढल डाक, गडग तालुक एवं जिला	बी.बी.एस.सी.एच. / यू.एस.धारवाड / 02	10.7.75
423	हिरोन एम. हरशम	केरलएसवीसी / 2692 / 02	संजीशनी, अयाथिल, इलावुम थिट्टा डाक, पथानथिट्टा, पिन- 689625	बी.बी.एस.सी.एच. / के.एयू. / 02	10.8.79
424	होकातो के. येपथो, पुत्र श्री खेशितो येपथो	एन.एस.वी.सी. / 180 / 03	न्यू मिनिस्टर्स हिल, कोहिमा, नागालैंड	बी.बी.एस.सी.एच. / ए.एयू. / 03	25.9.78
425	होके अर्जुन सूर्यकांतराव	महाएसवीसी / 6672	जेंडा चौक, पाटिल गली, माजलगांव, जिला बीड	बी.बी.एस.सी.एच. / एम.ए.एफ.एस.यू. / 02	9.5.80
426	हौसेकर शिवाजी हरीश चंद्रा	राजएसवीसी / 2871 / 02	एटी / डाक बाम्बोरी, चित्तौड़गढ़, राजस्थान	बी.बी.एस.सी.एच. / एम.एयू. / 94	21.7.71
427	हुशानगाबडे प्रवीण साहेबराव	महाएसवीसी / 692	रेनुका निवास, बिरला रोड, तापड़िया नगर, जिला-अकोला	बी.बी.एस.सी.एच. / एम.ए.एफ.एस.यू. / 02	15.5.77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	
428	हुसैन मौ. लियाकोत, पुत्र श्री अब्दुल हुसैन सरकार	एएसएमएसवी सी/2086/03	द्वारा अब्दुल हुसैन सरकार, ग्राम पोचरकंडी, डाक फोका मरी, जिला धुबरी, पिन-783135	बीवीएससीएच/ एएयू/03	
429	आई.डी. भारती, पुत्र श्री एस.वाई भारती	यूपीएसवीसी/ 3709/03	द्वारा शिव रतन भारती वकील, कलेक्टर कोर्ट, गोरखपुर	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएंडटी/ 84	5.5.62
430	इंदेरा कुछावा	राजएसवीसी/ 2880/02	मथूसर कुएं के निकट, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएयू/01	24.1.69
431	इंद्र प्रकाश वगोरिया	राजएसवीसी/ 2912/03	42-बी, राजकीय आवास हाउस, एलआईसी बिल्डिंग के सामने, पाली, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	28.7.73
432	इंद्रदेल प्रदाद, पुत्र श्री महाबीर यादव	बिहारएसवीसी /2203/02	ग्राम माधपुर, डाक कारभेघ, थाना-सौखा, जिला मधुबनी	बीवीएससीएच/ आरएयू/00	1.6.73
433	इंदु एम. नम्बूदरी	केरलएसवीसी /2714/02	मदसेरी वियूर, डाक थिसूर- 680010	बीवीएससीएच/ केएयू/02	19.12.77
434	इस्लाम मौह. मोबीनूर, पुत्र मौह. नसीरुद्दीन	एएसएमएसवी सी/2078/03	ग्राम बोपारीपारम, डाक काकरीपारा, जिला धुबरी, पिन- 783135	बीवीएससीएच/ एएयू/03	
435	जे.के. सक्सेना, पुत्र श्री एस.बी. सक्सेना	यूपीएसवीसी/ 3680/03	264, डिफेंस एस्टेट, फेस-2, बुंदू कटरा, जिला- आगरा	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 78	9.7.55
436	जे.पी. अग्रवाल, पुत्र श्री आर. के. अग्रवाल	यूपीएसवीसी/ 3710/03	सिरा, इलाहाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएंडटी/ 71	15.7.50
437	जे.पी. श्रीवास्तव, पुत्र श्री एस.आर. श्रीवास्तव	यूपीएसवीसी/ 3665/03	सी-1-39, इंद्रा नगर, कानपुर	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएंडटी/ 78	3.11.54
438	जे. सम्बाशिव राव, पुत्र श्री बंगारु	एपीएसवीसी/3 892/02	वेंकटपुरम, अदकं (एम), प्रकासम जिला- 523201, आं.प्र.	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	7.6.76
439	जाधव पदमा दशरथ	महाएसवीसी/ 6617	डी-51, म.न. 496, एम.आई.जी. कोलोनी, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई	बीवीएससीएच/ केकेवी/87	3.3.65
440	जाधव रूपाली नामदेव	महाएसवीसी/ 6612	228-बी, चिमन गांव, तालुक कोरेगांव, जिला- सोलापुर	बीवीएससीएच/ एमपीकेवी/01	23.4.78
441	जगदीप सिंह, पुत्र श्री सुखमिंदर सिंह	पंजाबएसवीसी /2383/02	ग्राम एवं डाक नाथु वलजाडीड, थाना एवं जिला मोगा	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	11.9.73

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
442	जगदीश चंद्र महानंद, पुत्र श्री अंतराम महानंद	उड़ीसाएसवीसी /1922/03	एटी/डाक कैनटारा, वाया: बालीशकर, जिला- सुंदरगढ़- 770015	बीवीएससीएच/ ओयूएण्डटी/03	27.3.79
443	जगपाल सिंह	राजएसवीसी/ 2961/03	ग्राम फतेहसारा बाकरा, झुंझनू, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	1.7.76
444	जगसीर सिंह गिल, पुत्र श्री जोगिंदर सिंह गिल	पंजाबएसवीसी /2352/02	ग्राम नूरपुर, हाचिमन, डाक धरमकोट- 142042, मोगा	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	30.8.79
445	जय नारायण, पुत्र श्री धरम सिंह	हरिएसवीसी/ 1764	न्यू इंडिया पब्लिक स्कूल, एस. के. स्कूल के निकट, भिवानी रोड, जींद	बीवीएससीएच/ एमएएफएसयू/02	30.10.77
446	जैनेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुत्र श्री जवाहरलाल सूर्यवंशी	एमपीएसवीसी /2105	सुभाष होस्टल, पशु चिकित्सा कॉलेज, जबलपुर	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	1.1.76
447	जयपाल धइया	राजएसवीसी/ 2881/02	इंचार्ज, सरकारी पशुचिकित्सा अस्पताल, उत्तरादबास, हनुमानगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएच/ सीसीएसएचएयू/ 98	10.8.74
448	जयप्रकाश, पुत्र श्री आनंदी प्रकाश	बिहारएसवीसी /2099/01	ग्राम राना बीघा, डाक राना बीघा, थाना दीपनगर, जिला नालंदा	बीवीएससीएच/ आरएयू/00	11.4.75
449	जमील अहमद खान मकबूल अहमद खान	महाएसवीसी/6 579	खान बिल्डिंग, 1-8-871, विसाव नगर, नांडेड, जिला नांडेड	बीवीएससीएच/ एमएयू/00	25.1.76
450	जनपाटला नटराज कुमार, पुत्र श्री राजाराम	एपीएसवीसी/ 3914/03	म.न. 3/79, मादीकोंडा, वारंगल जिला- 506142, आं.प्र.	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	22.8.78
451	जनार्दन ए.एम., पुत्र श्री मुनिनारायणप्पा एम.	कर्नाएसवीसी/ 3381	न. 1300/2, कॉलेज रोड, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, हसन- 573201	बीवीएससीएच/ यूएस, बंगलौर/ 02	4.8.79
452	जंगशेर अली खान	राजएसवीसी/ 2967/03	मेदा मिल के निकट (राजरतन पैलेस), भगवानपुरा बस्ती, इंड. एरिया, रानीबाजा, बीकानेर, राज.	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	18.4.74
453	जरनैल सिंह, पुत्र श्री जोगिंदर सिंह	पंजाबएसवीसी /2342/02	म.न. 2833, चोपड़ा कॉलोनी, रोपड़ रोड, मच्छीवाड़ा- 141115, लुधियाना	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	13.10.75
454	जैस्मिन कौर, पुत्री श्री कुलदीप सिंह	पंजाबएसवीसी /2401/03	53, न्यू तेज नगर, गली न. 2, सुल्तानविंद रोड, अमृतसर	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	16.12.79
455	जसपिंदर पाल कौर, पुत्र श्री शमशेर सिंह ढाड़ा	पंजाबएसवीसी /2379/02	म.न. 851/सेक्टर-11, पंचकुला	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	7.2.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
456	जसप्रीत सिंह, पुत्र श्री अमरजीत सिंह	पंजाबएसवीसी /2405/03	म.न. 864/10, मास्टर कॉलोनी, बठवाला रोड, गुरदासपुर	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	14.3.79
457	जसप्रीत सिंह, पुत्र श्री बलबीर सिंह	पंजाबएसवीसी /2358/02	# कोठी 225, फेस-2, मोहाली	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	7.11.78
458	जसप्रीत सिंह, पुत्र श्री चंदर मोहन सिंह	पंजाबएसवीसी /2376/02	10-1, सरभा नगर, लकमे के सामने, लालून, लुधियाना-141001	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	11.3.79
459	जसविंदर सिंह, पुत्र श्री गुरनाम सिंह	पंजाबएसवीसी /2363/02	मलौत रोड, राजपाल थिएटर के निकट, गली न. 3, मुक्तसर	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	9.11.77
460	जतिन्दर ज्योति, पुत्र श्री लेख राज	पंजाबएसवीसी / 2380/02	104, शंकर नगर, गुरदासपुर-143521	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	13.12.79
461	जतिन्दर मोहन पांडा, पुत्र श्री जुधिष्टर पांडा	उड़ीसाएसवीसी /1861/02	ए/पी चकरकीड, वाया एवं जिला बारगढ़- 768028	बीवीएससीएच/ ओयूएण्डटी/01	18.3.77
462	जावेरी फ़्रेया फ़िरोज़	गुजएसवीसी/ 2444/03	ए हैबिटैट, डी-12, श्री कृष्णा कॉम्प्लेक्स, मीठाखली के निकट, सिक्स रोड्स, अहमदाबाद-380009	बीवीएससीएच/ जीएयू/02	1.5.75
463	जया के. विजयन	केरलएसवीसी /2707/02	XXI/142, सांति हॉस्पिटल (आर), वेस्ट नादा, कोडुंगलूर, पिन- 680664	बीवीएससीएच/ केएयू/02	5.7.77
464	जयमाला जे., पुत्र श्री जयरामप्पा एन.	कर्नाएसवीसी/ 3332	नादिपिनायकन्ना हल्ली, नागभंगला डाक, सिदलाधत्ता तालुक, कोलार जिला	बीवीएससीएच/ यूएसधरवाड/02	18.7.79
465	जयशंकर के.सी., पुत्र श्री डी. चंद्रन्ना	कर्नाएसवीसी/ 3359	द्वारा एन.गुरुमूर्थी, न. 969, राघवेंद्र नीलया, दूसरामेन, एमसी लेआउट, विजयनगर, बंगलौर	बीवीएससीएच/ यूएस, बंगलौर/02	9.5.77
466	जयश्री के.वी.	केरलएसवीसी /2747/02	पिनाकट्टू हाउस, डाक कोडेनचेरी, कोजीकोड- 673580	बीवीएससीएच/ केएयू/02	8.2.77
467	जयेश कुमार लक्ष्मणभाई	गुजएसवीसी/ 2393/02	ब्लॉक न. एफ-18/2, गौस्क नगर, दातीवाड़ा, धानेराई, बनासकंठा- 385506	बीवीएससीएच/ जीएयू/02	15.1.78
468	जयराम सीपना, पुत्र श्री वेंकन्ना	एपीएसवीसी/ 3875/02	डी.न.38-22-55, कलिंगनागल, इंडस्ट्रियल एस्टेट, माधवधारा, विशाखापटणम् 530007, आं.प्र.	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/2002	23.8.79
469	जीबनजीत मिश्रा, पुत्र श्री दामोदर मिश्रा	उड़ीसाएसवीसी /1903/03	एटी: गौतम नगर, डाक एवं जिला- कोरापुट- 754020	बीवीएससीएच/ ओयूएण्डटी/03	4.7.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
470	जेरालाद महेश कुमार, पुत्र श्री मरिया सवारीमुथु	वीसीआई/ 2441/04	तकनीकी अधिकारी, लघु पशु सुविधा, नेशनल इंस्टी. ऑफ इम्युनोलॉजी, नई दिल्ली-67	बीवीएससी/टीएन वीएसयू/98	16.7.73
471	जेरिन टी. जॉर्ज	केरलएसवीसी / 2751/02	थुंडुविला वीडु, डाक माइलम, कालयापुरम (वाया), कोट्टारा कारा, कोल्लम 691560	बीवीएससीएच/ केएसयू/02	31.5.76
472	जेया भारत शानमुगम	महाएसवीसी/ 6586	अभिनंदन रेजिडेंसी, बी-14, जगताप नगर, वानावाडी, जिला-पुणे	बीवीएससी/टीएन वीएसयू/96	26.11.70
473	जेया भारत एस., पुत्र श्री शानमुगम जेया	वीसीआई/243 1/03	अभिनंदन रेजिडेंसी, बी-14, जगताप नगर, वानावाडी, पुणे - 411010	बीवीएससी/टीएन वीएसयू/94	26.11.70
474	जिनि आनंद	केरलएसवीसी / 2741/02	पुलारी कारीकुजी, मायानंद, डाक कोल्लम- 691303	बीवीएससीएच/ केएसयू/02	23.5.78
475	जीतेंद्र कुमार चौहान, पुत्र स्व. श्री वी.एन. चौहान	यूपीएसवीसी/ 3593/02	ग्राम बकुलाहा, डाक पदरौना, जिला- कुशीनगर	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएंडटी/ 02	31.10.74
476	जीतेंद्र कुमार गर्ग	राजएसवीसी/ 2911/03	सरकारी अस्पताल के पीछे, खेरली, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएसयू/03	8.2.75
477	जीतेंद्र प्रसाद सिंह, पुत्र श्री भुबनेश्वर सिंह	बिहारएसवीसी /2124/01	ग्राम बरोहिया, डाक- बुधचाक, थाना- काहलगांव, जिला- भागलपुर	बीवीएससीएच/ आरएसयू/00	11.10.74
478	जीतेंद्र शर्मा, पुत्र श्री ओ.पी. शर्मा	एमपीएसवीसी /2077/02	ग्राम एवं डाक- बीरखेडी, थाना- गोहाद, जिला- भिंड, म.प्र.	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	18.9.73
479	जीतेंद्र तिवारी, पुत्र श्री रामेश्वर दयाल तिवारी	एमपीएसवीसी /2079/02	17/136, माधोपुरा, मोरेना- 476001	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	19.12.78
480	जॉनसन पी.एम.	केरलएसवीसी /2742/02	पोथाइपरम्बिल हाउस, मुट्टिल, मनडाड डाक, कोल्लम- 673122	बीवीएससीएच/ केएसयू/02	2.1.76
481	जॉनसन भेंगराम, पुत्र स्व. श्री कुमार भेंगरा	बिहारएसवीसी /2209/02	ग्राम चुरगी मनहाट्ट, अम्बाटोली, डाक तोरपा, थाना तोरपा, जिला-रांची	बीवीएससीएच/ आरएसयू/01	5.1.76
482	जोस मैथ्यू अनचेरिल	केरलएसवीसी /2737/02	अनचेरिल हाउस, किजाथडियूर डाक पलाई, कोट्टायम- 686575	बीवीएससीएच/ केएसयू/02	28.4.78
483	जोसेमी मैथ्यू	केरलएसवीसी /2691/02	वीट्टियंकल हाउस, डाक कांजर, इडुक्की- 685592	बीवीएससीएच/ केएसयू/02	3.2.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
484	जोशी मनीश चंद्र दिनेश चंद्र	गुजएसवीसी / 2424 / 02	एटी: घघरेत, डाक कुवासाना, विसानगर, मेहसाना- 384315	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	1.6.79
485	जोशी रोहितकुमार छोटालाल	गुजएसवीसी / 2449 / 03	एटी वरधारा, डाक- वीरपुर खेडा	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	21.6.79
486	जोशी संजय रामचंद्र	महाएसवीसी / 6569	एलडीओ, वेट. डिस्पेंसरी, घोटी, तालुक- कुरखेड, जिला- गढचिरोली	बीवीएससीएच / पीकेवी / 77	30.6.52
487	जरिस्टिन डेविस	केरलएसवीसी / 2746 / 02	टीसी 16 / 564, कुन्नापुजा हाउस, पडिनजरेथला लेन, पारवाथरी, थिसूर- 680005	बीवीएससीएच / केएयू / 02	6.9.76
488	ज्योति वी. देव	केरलएसवीसी / 2711 / 02	पुथुवेली पुथेन वीडू, डाक मन्थुका, पथानमथिट्टा- 689519	बीवीएससीएच / केएयू / 02	30.5.78
489	ज्योति गुप्ता	राजएसवीसी / 2921 / 03	पी.न. 59, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	9.7.78
490	ज्योति मरकन, पुत्री श्री शीश पाल मरकन	पंजाबएसवीसी / 2414 / 03	417-डी, बीआरएस नगर, लुधियाना	बीवीएससीएच / पीएयू / 01	21.9.77
491	ज्योतिदीप्ता मोहंती, पुत्र श्री उमा चंद्र मोहंती	उड़ीसाएसवीसी / 1892 / 03	एटी: कंडालपुर, डाक एवं थाना काकतपुर, जिला-पुरी	बीवीएससीएच / ओयूएण्डटी / 03	18.6.80
492	के. विजय कुमार रेड्डी, पुत्र श्री नारायण रेड्डी	एपीएसवीसी / 3888 / 02	7-1-307 / 44 / 54 / ए, बी.के. गुडा, संजीवा रेड्डी नगर, हैदराबाद, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	1.6.79
493	के.के. मिश्रा, पुत्र स्व. श्री एस.पी. मिश्रा	यूपीएसवीसी / 3656 / 03	ग्राम एवं डाक- मछलीगांव, जिला- गोरखपुर	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएण्डटी / 76	1.10.54
494	के. किरन, पुत्र श्री गेहर	एपीएसवीसी / 3917 / 03	प्लॉट न. 133, सेक्टर -5, एम. वी.पी. कॉलोनी, विशाखापटणम् - 530017, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	21.8.78
495	के. मल्लिकार्जुना राव, पुत्र श्री वेंकटेश्वरलु	एपीएसवीसी / 3 837 / 02	द्वारा बी. विजया रेड्डी, म.न. 8-4-390 / ए / 8, प्रेम नगर, एरागड्डा, हैदराबाद-18, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	4.6.74
496	के.एस. यादव, पुत्र श्री डी.एस. यादव	यूपीएसवीसी / 3645 / 03	45, पंचौटी कॉलोनी, मवाना, मेरठ, उ.प्र.	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएण्डटी / 95	6.6.71
497	के. स्वैम्बिल, पुत्र स्व. श्री ई. लालू	मेघएसवीसी / 194 / 02	उम्सनिंग, रिभोई, जिला- 793105	बीवीएससी / यूए एस, बंगलौर / 81	1.7.56

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
498	के. विजय कुमार, पुत्र श्री जगदीश कुमार	एपीएसवीसी / 3848 / 02	प्लॉट न. 1-136, वासुदेव रेड्डी नगर, अट्टापुर, हैदराबाद-64, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एनजीआरएयू / 2002	5.9.76
499	काचा हरेश कुमार लक्ष्मीदास	गुजएसवीसी / 2410 / 02	एटी एवं डाक- धानफूलिया, वाया: शापुर (जोरठ), जूनागढ़-362205	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	18.7.79
500	कदिवर रियाज़ अहमद फतेमौहम्मद भाई	गुजएसवीसी / 2415 / 02	तालुक. सिंघावदार, वांकानेर, राजकोट- 363621	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	8.7.80
501	कैलाश बाबू, पुत्र श्री सुददू	यूपीएसवीसी / 3562 / 02	ग्राम एवं डाक- दपासौरा, जिला- फतेहपुर	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 02	1.7.74
502	कैलाश परिहार	राजएसवीसी / 2975 / 03	म.न. 4-डी-16, प्रताप नगर, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	25.6.75
503	कैलाश, पुत्र श्री सी. एल. चौहान	एमपीएसवीसी / 2099 / 02	ग्राम लिंडजेरा, डाक- चिल्लौद, थाना- वरसिओनी, जिला- बालाघाट, म.प्र.	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	25.7.74
504	कजली सरकार (कु.), पुत्री श्री राज कुमार सरकार	त्रिपुरावीसी / 136 / 02	द्वारा आशुतोष सरकार, ग्राम एवं डाक- बिलठाई, धरमनगर, त्रिपुरा(उ.)	बीवीएससी / यूए स, बंगलौर / 98	18.11.73
505	काकाति भूपेन, पुत्र श्री सरत काकाति	एसएसएमएसवी सी / 2041 / 02	ग्राम उत्तर जाजोरी, डाक बोरमोनीपुर, जिला- मोरीगांव	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
506	कलारिया वसंत कुमार मोहन भाई	गुजएसवीसी / 2443 / 03	द्वारा बहुचर एग्री सेंटर, टोला चाकमपुर, मोरबी, राजकोट-363630	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	3.1.80
507	कलिता (कु.) कृष्णा, पुत्री सार्जे. थानेश्वर कलिता	एसएसएमएसवी सी / 2044 / 02	ग्राम एवं डाक- हजारी का पारा, जिला-दारंग, पिन-784145	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
508	कलिता (कु.) मानशी, पुत्री श्री सरत कलिता	एसएसएमएसवी सी / 2070 / 01	द्वारा श्री सरत कलिता, पोलो फील्ड, तेजपुर, सोनितपुर	बीवीएससीएच / एएयू / 01	
509	कल्याण सुंदर दास, पुत्र श्री पुलिन बिहार दास	पंजाबएसवीसी / 2392 / 02	द्वारा श्री किरपाल सिंह पलाहा, म.न. 1820 / 6, महाराज नगर, लुधियाना- 141001	बीवीएससीएच / बीसीकेवीवी / 02	27.7.72
510	कमल चंद मीना	राजएसवीसी / 2874 / 02	ग्राम-जुगनाथपुरा, तह.- तुलसा बारां, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 01	3.8.70
511	कमलापत पतेरिया, पुत्र स्व. श्री गणेश प्रसाद पतेरिया	एमपीएसवीसी / 2065 / 02	रुसिया मार्ग, ताल-दरवाजा, टीकमगढ़, म.प्र.	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	2.3.68

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
512	कमलजीत सिंह, पुत्र श्री चरनजीत सिंह	पंजाबएसवीसी /2346/02	द्वारा श्री हरबंस सिंह, 276 हाउसिंग बोर्ड, संगरूर	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	15.5.77
513	कमल कांत शर्मा, पुत्र श्री कृष्ण कांत शर्मा	एमपीएसवीसी /2050/01	145, रेडियो कॉलोनी, इंदौर- 452001	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 00-01	8.10.74
514	कमलप्रीत कौर, पुत्री श्री भाग सिंह	पंजाबएसवीसी /2410/03	म.न. 643, गली न. 6, गुरबक्श कॉलोनी, पटियाला- 147001	बीवीएससीएच/ पीएयू/01	12.1.79
515	कमलेश चड्ढा, पुत्र श्री मनोहर लाल	एचपीएसवीसी /620/02	वार्ड न. 4, 202/8, तारुवाला रोड, दुर्गा कॉलोनी, बद्रीपुर, पौंटा साहिब, नाहन, हि.प्र.	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 80	30.5.55
516	कंदारे बालाजी माधव राव	महाएसवीसी/ 6578	एटी-कलहाली, डाक रुई, तालुक-कंधार, जिला नांडेड- 431714	बीवीएससीएच/ एमएयू/01	12.7.77
517	कंजरिया परवीन कुमार त्रिकमभाई	गुजएसवीसी/ 2422/02	पानी की टंकी के निकट, तालुक वसाना, धनदूका, अहमदाबाद- 382460	बीवीएससीएच/ जीएयू/02	15.11.79
518	कांतेटी जयश्री, पुत्री श्री रवीन्द्र	एपीएसवीसी/ 3867/02	द्वारा वाई. सीतारमम्मा, येरागुंटला, सिरवेल (एम), कुर्नूल जिला, आं.प्र.	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	16.6.80
519	कंवल दीप, पुत्र श्री भीम सेन एवं श्रीमती चांद शर्मा	पंजाबएसवीसी /2326/02	गली न. 1, गीता कॉलोनी, जगरांव, जिला- लुधियाना	बीवीएससीएच/ पीएयू/01	18.2.78
520	कंवलजीत सिंह, पुत्र श्री गुरमीत सिंह	पंजाबएसवीसी /2351/02	म.न. 30/4, बहरामपुर रोड, गुरदासपुर- 143521	बीवीएससीएच/ पीएयू/01	31.8.78
521	कंवर जीत सिंह, पुत्र श्री दर्विंदर सिंह एवं श्रीमती राजिन्दर कौर	पंजाबएसवीसी /2327/02	म.न.110/ए, गली न. 2, दीप नगर, सेओना रोड, पटियाला	बीवीएससीएच/ पीएयू/01	29.7.76
522	कपिल लाम्बा, पुत्र श्री जसबीर सिंह	हरिएसवीसी/ 1732	41/10, श्याम नगर, मिल रोड, हिसार	बीवीएससीएच/ सीसीएसएचएयू/ 02	15.3.79
523	कारगिलवर शीतल विनायक	महाएसवीसी/ 6684	श्रुतु अपार्टमेंट, प्लॉट न. 4, वर्धा रोड, पुराना स्नेह नगर, नागपुर	बीवीएससीएच/ एमएएफएसयू/02	20.5.79
524	करनैल सिंह थांडी, पुत्र श्री अजायब सिंह थांडी	एमपीएसवीसी /2043/02	89, विद्या नगर, इंदौर- 453001	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 00-01	20.5.73
525	कार्तिक चंद्र साहू, पुत्र श्री गोकुल चंद्र साहू	उड़ीसाएसवीसी /1893/03	एटी-सी-26, बिदानासी हाई स्कूल के सामने, डाक- बिदानासी, कटक- 753011	बीवीएससीएच/ ओयूएएंडटी/03	10.7.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
526	करुणा शुक्ला, पुत्री स्व. श्री ओम प्रकाश शुक्ला	एमपीएसवीसी /2114/03	ब्लॉक न. 7, जानकी कॉम्प्लेक्स, प्रियदर्शिनी परिसर, उखारी रोड, बलदेव बाग, जबलपुर-482002	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	31.8.78
527	काशी विश्व नाथ आर. पुत्र श्री हेगडे के. आर.	कर्नाएसवीसी/ 3321	न. 35, पांचवा क्रॉस, दूसरा मेन रोड, आश्रम कॉलोनी, संजय नगर बी 94	बीवीएससीएच/ यूएस, बंगलौर/ 01	17.9.76
528	काशीवर दिलीप कुमार केवल राम	महाएसवीसी/ 6657	एटी-मुरेर, डाक- कासम टोंडी, तालुक अर्जुनी सड़क, जिला- गोंडिया	बीवीएससीएच/ एमएफएसयू/02	25.11.77
529	काता वेंकटेश्वरलु, पुत्र श्री कौंडइयाह	एपीएसवीसी/ 3925/03	पोन्नातूर (पी. एवं एम.), प्रकासम जिला 523109, आ.प्र.	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	1.7.76
530	काटीपोगु विजया, पुत्री श्री पिचइयाह	एपीएसवीसी/ 3911/03	म.न. 10-4-107/1, मामिला गुडेम, खम्मम-507001, आं.प्र.	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	5.2.78
531	कटपाटल भास्कर गोपाल	महाएसवीसी/ 6659	क्वा.न. 3, विश्वेश्वरइया रीजनल कॉलेज ऑफ इंजी., वीआरसीई, नागपुर	बीवीएससी/ सागरविवि/55	4.10.34
532	काटरे त्रिभुवन लेखेश्वर	महाएसवीसी/ 6653	ए/पी जमकाहरी, तालुक आमगांव, जिला- गोंडिया	बीवीएससीएच/ एमएफएसयू/02	5.7.79
533	कौशलेंद्र कुमार, पुत्र श्री सत्येंद्र कुमार	बिहारएसवीसी /2210/02	ग्राम सेबी सेवती, डाक- इविकल, थाना- मखदूमपुर, जिला- जहानाबाद	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएंडटी/ 01	10.2.76
534	काओठेकर सुनील बाजीराव	महाएसवीसी/ 6619	पांजरी रोड, शाहु नगर, बीड- 431122	बीवीएससीएच/ एमएफएसयू/02	23.2.80
535	केशव सिंह सागर, पुत्र श्री भोगी राम सागर	एमपीएसवीसी /2057/02	ग्राम- सराय का पुरा, डाक नई गढी, जिला भिंड- 477556	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 00-01	27.6.78
536	केविसे खाटे, पुत्र श्री वेसेवा खाटे	एनएसवीसी/ 0161/01	द्वारा एम. खाटे, हाफ नागराजन, दीमापुर	बीवीएससीएच/ डॉ. पीडीकेवीपी /00	16.2.76
537	केविन पीटर डि'मेलो	गोआएसवीसी/ 124/02	द्वारा एल्मिरो गोम्स, वैडी सिकलिम, बारडेज़, गोआ- 403507	बीवीएससीएच/ केकेवीपी/97	
538	खांडागेल दीपक महादेव	महाएसवीसी/6 668	माली गली, एटी डाक तालुक पटोडा, जिला बीड	बीवीएससीएच/ एमएयू/01	24.5.77
539	खरदे शम्भू देव दादा राव	महाएसवीसी/ 6631	अनिता, थिखिल रोड, भगवान बाबा नगर, देउलगांव राजा, बुलदाना- 443204	बीवीएससीएच/ एमएफएसयू/02	5.12.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	
540	खायेन महतो, पुत्र श्री राम चंद्र महतो	एमपीएसवीसी / 2118 / 03	11, सरस्वती नगर, आर.के. पुरी, थाटीपुर, ग्वालियर- 474011	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीपी / 00-01	17.02.78
541	खेम चंद गर्ग	राजएसवीसी / 2927 / 03	मेडिकल स्टोर, शरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	11.2.77
542	खेसर संदीप दौलत राव	महाएसवीसी / 6640	श्री सदन, शिवाजी नगर, स्वीटी थिएटर के पीछे, सिलोड तालुक सिलोड, औरंगाबाद 431112	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	13.4.79
543	खिज़ार अहमद खान	महाएसवीसी / 6682	जामामस्जिद के निकट, मेनरोड, एटी / डाक बारशी टाकली, ता. बारशी टाकली, जिला अकोला	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	30.12.77
544	खोबरगड़े शैलजा भानुदास	महाएसवीसी / 6600	प्रबुद्ध नगर, मसाला रोड, डॉ. हिरवार के निकट, तालुक + जिला वर्धा, 442001	बीवीएससीएच / डॉ. पीडीकेवी पी / 01	10.12.78
545	खोराजिया असलम भाई इस्माइल भाई	गुजएसवीसी / 2429 / 02	एटी / डाक बदरगढ़, पालमपुर, बनासकंठा- 385410	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	2.6.80
546	खौबुरोम लाओकोह, पुत्र श्री ईवेल खोंगस्टिया	मेघएसवीसी / 200 / 03	पिनुरसला, पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय- 793110	बीवीएससीएच / एएयू / 03	2.10.78
547	खुशींद आलम, पुत्र डॉ. सादिक अली	यूपीएसवीसी / 3677 / 03	सादिक मार्केट, कुंवर रोड, जिला- सुल्तानपुर	बीवीएससीएच / आगराविधि / 71	20.6.49
548	किरन कुमारी, पुत्री श्री नरेंद्र नाथ मिश्रा	बिहारएसवीसी / 2122 / 01	ग्राम- गंधबार, डाक- गंधबार, वाया- पंडौल, थाना- साकरी, जिला- मधुबनी	बीवीएससीएच / आरएयू / 00	2.1.75
549	किरनजीत सिंह, पुत्र श्री बलदेव सिंह, एवं श्रीमती हरमेश कौर	पंजाबएसवीसी / 2336 / 02	द्वारा सूबेदार मुख्तियार सिंह, ग्राम एवं डाक उप्पली, संगरूर के निकट, जिला एवं थाना संगरूर- 148001	बीवीएससीएच / पीएयू / 01	12.11.78
550	किशोर हंसडाक, पुत्र श्री लाल हंसडाक	बिहारएसवीसी / 2205 / 02	ग्राम बोकराबंध, डाक- डमरु हाट, थाना- सुंदर पहाड़ी, जिला- गोड्डा	बीवीएससीएच / आरएयू / 01	12.1.73
551	कोचेवाड संजीव कुमार अंगद राव	महाएसवीसी / 6633	118 / 3, उमर्गा (मन्ना), उदगीर, जिला- लाटूर- 413517	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	20.7.80
552	कोकने राजू रामा	महाएसवीसी / 6700	282 / 5, जवाहर नगर, रोड नं. 3, गोरेगांव (पश्चिम), मुम्बई	बीवीएससीएच / केकेवी / 99	4.3.71
553	कोलेकर बाबासो सुभाष	महाएसवीसी / 6663	एटी एवं डाक नंदनी, तालुक शिरोल, जिला कोल्हापुर	बीवीएससीएच / केकेवी / 02	2.6.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. स.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
554	कोल्हे अजय केशव राव	महाएसवीसी / 6567	एटी एवं डाक मोवाड़, तालुक नरखेड़, जिला- नागपुर	बीवीएससीएच / डॉ.पीडीकेवी / 01	14.7.78
555	कोल्हे राहुल प्रकाश	महाएसवीसी / 6645	एटी मंगूल, डाक रानी अमरावती, तालुक बबूलगांव, जिला- यवतमाल- 445101	बीवीएससीएच / एमएएफएसयू / 02	3.4.79
556	कोंच चम्बल, पुत्र श्री भद्रेश्वर कोंच	एसएमएसवीसी / 2073 / 03	ग्राम-रंगाचिला, डाक- मचखोवा, जिला-धोमाजी, पिन-787058	बीवीएससीएच / एएयू / 03	
557	कोंच हिमाद्री, पुत्र श्री जोगेन कोंच	एसएमएसवीसी / 2081 / 03	द्वारा स्व. जोगेन कोंच, ग्राम मजगांव, डाक-मचखोवा, जिला धोमाजी, पिन-787058	बीवीएससीएच / एएयू / 03	
558	कोंवर (कु.) पहाड़ी, पुत्री श्री भाबू कोंवर	एसएमएसवीसी / 2060 / 02	पुलिस थाने के निकट, डाक- टोंगाखल, जिला- डिब्रूगढ़	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
559	कोसारली, पुत्र ले. एल. अंगमी	एनएसवीसी / 0174 / 02	नेशनल स्कूल, मिशन रोड, कोहिमा, नागालैंड	बीवीएससी / टीएन एयू / 78	1.3.50
560	कृष्ण चंद्र झा, पुत्र रज. श्री चंद्र सोखर झा	बिहारएसवीसी / 2131 / 01	ग्राम चाणक्य पुरी, गागजाला, डाक सहरसा, थाना एवं जिला सहरसा	बीवीएससीएच / डब्ल्यूबीयूएंडएफ एस / 01	4.1.76
561	कृष्ण कुमार राजू के. आर., पुत्र श्री के.पी. राम चंद्र	कर्नाएसवीसी / 3410 /	गुरुकृपा, रायसिंह लेआउट, होसाकोट, ग्रामीण बंगलौर	बीवीएससी / यूएस स. बंगलौर / 74	21.7.48
562	कृष्ण मोहन कुमार, पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार सिन्हा	बिहारएसवीसी / 2207 / 02	ग्राम कबीर चाक, डाक कबीर चाक, थाना सदर, जिला दरभंगा	बीवीएससीएच / केकेवी / 01	1.3.77
563	कृष्णा सकानाडागी, पुत्र श्री लक्ष्मण सकानाडागी	कर्नाएसवीसी / 3334	सिदरभेश्वर कॉलोनी, जीआई बीसी कॉलोनी के निकट, जामखंडी, बगलकोट जिला	बीवीएससीएच / यूएसधरवाड़ / 02	14.7.78
564	कृष्णा एम., पुत्र श्री मरियाप्पा एम.	कर्नाएसवीसी / 3312	मेटिकुर्के डाक, हिरियूर तालुक, चित्रदुर्गा 572144	बीवीएससीएच / यूएस. बंगलौर / 01	20.6.77
565	कृष्ण कुमार गुप्ता, पुत्र श्री महेश चंद्र गुप्ता	एमपीएसवीसी / 2091 / 02	कमरा न. 15, टैगोर हॉल, वेटरिनरी, कॉलेज, म्हऊ - 453446	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	3.11.73
566	कृष्णावेनी लेक्काला, पुत्री श्री नायडु एल. जी.	एपीएसवीसी / 3866 / 02	एमआईजी- 134, अलकनंदा कॉलोनी, विजियानगरम, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	5.5.78
567	कृपावथी रोपल्ला, पुत्री श्री आर. सन्यासी	एपीएसवीसी / 3858 / 02	एससी कॉलोनी, देवरापल्ली, विशाखापटणम् जिला- 531030 (आ.प्र.)	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	25.7.76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
568	कृष्णा चंद्र मलिक, पुत्र दैत्रेयी मलिक	उड़ीसाएसवीसी /1918/03	एटी एवं डाक- तेनतेई, वाया अनंतपुर, जिला-बालासौर - 756046	बीवीएससीएच/ ओयूएण्डटी/03	23.2.77
569	क्षेत्र पाल सिंह, पुत्र नंद लाल वर्मा	यूपीएसवीसी/ 3556/02	ग्राम जारेला, डाक घतरी, जिला- फिरोजाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएण्डटी/ 02	1.6.77
570	कु. ज्योति जैन, पुत्री श्री एस.के. जैन	एमपीएसवीसी /2086/02	अनुश्री अपाटमट, फ्लैट न. 5, प्रथम मंजिल, गोल बाजार, जबलपुर- 482002	बांवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	30.6.76
571	कु. स्वाति जैन, पुत्री श्री राजकुमार जैन	एमपीएसवीसी /2085/02	क्वा.न. जी- 7, पुरानी बारगी हिल्स कॉलोनी, जबलपुर- 482025	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	8.8.76
572	कु. उमा कुमरे, पुत्री श्री जागोराम कुमरे	एमपीएसवीसी /2062/02	महाराना प्रताप वार्ड, सेओनी जिला, सेओनी, म.प्र.	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	12.9.80
573	कुकडे रमेश चंद्र जय रामजी	महाएसवीसी/ 6614	57, मॉडर्न सोसायटी, प्रताप नगर, नागपुर- 440022	बीवीएससीएच/ पीकेवी/72	13.1.47
574	कुलभूषण नागल, पुत्र श्री कृष्ण कुमार	एचपीएसवीसी /638/02	म.न. 160/10, रमणीक होटल के निकट, धालपुर, जिला कुल्लू, हि.प्र.	बीवीएससीएच/ सीएसएकेईपीवी/ 80	20.6.57
575	कुलदीप कुमार राठौड़, पुत्र श्री आर.पी. राठौड़	यूपीएसवीसी/ 3592/02	पीली कोठी के निकट, न्यू यादव कॉलोनी, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएण्डटी/ 02	8.7.77
576	कुलदीप भित्तल, पुत्र श्री सतपाल भित्तल	हरिएसवीसी/ 1750	आर-34, मॉडल टाउन, नरवाना	बीवीएससीएच/ सीसीएसएचएयू/ 02	3.4.79
577	कुलदीप सिंह, पुत्र श्री गुरशरन सिंह	पंजाबएसवीसी /2391/02	बी-1286, न्यू प्रताप नगर, गुरलाल बाजार, गली न. 4, जी.टी.रोड, अमृतसर	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	10.11.79
578	कुलजीत सिंह, पुत्र श्री बचिन्द्र सिंह एवं श्रीमती प्रकाश कौर	पंजाबएसवीसी /2334/02	मोह सिंह पुरा, ग्राम एवं डाक उमरार (टांडा), जिला- होशियारपुर- 144204	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	23.10.79
579	कुलकर्णी दत्तात्रेय अशोकराव	महाएसवीसी/ 6695	द्वारा श्री चिंतामणि महाराज आश्रम, बासमत रोड, परभनी जिला	बीवीएससीएच/ एमएएफएसयू/02	25.2.80
580	कुलकर्णी महेश बलवंत राव	महाएसवीसी/ 6658	मल्लिकार्जुन चौक, शिरूर, अनंतपाल, तालुक-शिरूर अनंतपाल, जिला- लादूर	बीवीएससीएच/ एमएएफएसयू/02	22.10.79
581	कुमार शम्भू शरणम, पुत्र श्री चेतन मोची	एमपीएसवीसी /2088/02	श्री सुनील सिंह ठाकुर, प्रबंधक, नर्मदा क्लब, जबलपुर, म.प्र.	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	1.3.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
582	कुमार शम्भू शरणम, पुत्र श्री चेतन मोची	वीसीआई/ 2413/03	द्वारा श्री एस.एस. ठाकुर, एटी- नरबूदा क्लब कैंट, जिला जबलपुर (म.प्र.)	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	1.3.78
583	कुमार विकास	राजएसवीसी/ 2889/02	ग्राम एवं डाक- मंदारी पशु चिकित्सा अस्पताल, तह.- खत्री पाली, झुंझनू राजस्थान	बीवीएससीएच/ सीसीएसएचएयू/ 02	29.6.78
584	कुमार विकास, पुत्र श्री प्रकाश	वीसीआई/ 2407/03	म.न. 281, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नारनौल- 123001, मोहिंदर गढ़, हरियाणा	बीवीएससीएच/ सीसीएसएचएयू/ 2000	29.6.78
585	कुमारी प्रमिला सिन्हा, पुत्र श्री अरुण कुमार सिन्हा	बिहारएसवीसी /2169/01	क्वा.न. बी-18, सेक्टर-1, डाक- धुर्बा, थाना जगन्नाथपुर, जिला- रांची	बीवीएससीएच/ बीएयू/01	15.12.72
586	कुमार उमेश बालाकृष्ण	महाएसवीसी/ 6688	शिवतेज निवास, बी-220, बापूजी सालुंके नगर, विटका पुडी रोड, तासगांव, जिला- सांगली	बीवीएससीएच/ एमएएफएसयू/02	11.5.80
587	कुंटे आनंद राधाकृष्ण	महाएसवीसी/ 6687	गोदावरी मेडिकल, साइखेडा, तालुक निफद, जिला-नासिक	बीवीएससीएच/ एमएएफएसयू/02	1.11.77
588	एल.पी. सिंह, पुत्र स्व. श्री रनजय सिंह	यूपीएसवीसी/ 3707/03	ग्राम एवं डाक-जलालपुर, माफिकतुमर, जिला मिर्जापुर	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएंडटी/ 70	23.3.68
589	एल.आर. सिंह, पुत्र श्री डी.पी. सिंह	यूपीएसवीसी/ 3705/03	द्वारा डी.पी. सिंह, वकील, कलेक्टर कोर्ट, जिला- सुल्तानपुर	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएंडटी/ 91	23.3.68
590	लगमन्ना एस. सलागरे, पुत्र श्री शिवप्पा	कर्नाएसवीसी/ 3315	डिग्गेनादी, रायबाग तालुक, बेलगाम जिला	बीवीएससीएच/ यूएसएसधारवाड/ 01	10.7.78
591	लैशराम बबीता देवी	मणिएसवीसी/ 375/02	पिशुमथोंग, निन्गोम, लेइरेक, इम्फाल	बीवीएससीएच/ केएयू/02	28.2.79
592	लक्ष्मन्ना राव नक्का, पुत्र श्री अप्पा राव	एपीएसवीसी/ 3881/02	अल्लदापेटा, अल्लदा (डाक), वाया: उरलाम, श्रीकाकुलम जिला-532425, आं.प्र.	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	25.11.76
593	लक्ष्मी श्री के.टी., पुत्र श्री थिमइयाह	कर्नाएसवीसी/ 3396	तालुक कार्यालय के सामने, टी. बी. रोड, कडूर, चिकमगलूर जिला- 577548	बीवीएससीएच/ यूएसएस, बंगलौर/ 02	21.5.79
594	लाल्हरुइयापुई, पुत्री श्री रोफिरा	मिजएसवीसी/ 137/02	चल्ललांग, आइजॉल, मिजोरम	बीवीएससीएच/ एएयू/02	7.9.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
595	लालउमजुआली रावते, पुत्री श्री आर.सी. थुआमा	मिजएसवीसी/ 138/02	रिपब्लिक वेंघलुन, आइजॉल, मिजोरम	बीवीएससीएच/ एएयू/02	14.3.79
596	लालियान्छुंगा, पुत्र श्री वेंगकामा	मिजएसवीसी/ 140/03	द्वारा एम.सी. लालरिनथंगा, खाटला 'एस' आइजॉल, मिजोरम	बीवीएससीएच/ आरएयू/02	12.1.75
597	लालमिन्थांग डाउंगेल, पुत्र श्री एस. डोंगेल	एनएसवीसी/ 184/03	एस.एम.-हाई स्कूल, दीमापुर, नागालैंड-797112	बीवीएससीएच/ एएयू/00	16.8.72
598	लालू के.	केरलएसवीसी /2693/02	के.वी.मंदिरम, इडामोन-34, इडामोन डाक, पुनालूर, कोल्लन - 691307	बीवीएससीएच/ केएयू/02	27.5.78
599	लामा बिनय, पुत्र स्व. श्री जी. लामा	एसएमएसवी सी/2017/02	ग्राम-तिलोई नगर, डाक ख्बोवांग, जिला-डिब्रूगढ़, पिन- 785675	बीवीएससीएच/ एएयू/01	
600	लथा एम., पुत्री श्री रमेश पी.सी.	कर्नाएसवीसी/ 3415	मनीवेंकटप्पा, लक्कूर, मल्लूर तालुक, कोलार जिला, 563130	बीवीएससीएच/ यूएस, बंगलौर/ 02	20.7.78
601	लावन्या तोरलापति, पुत्री श्री सत्यनारायण राजू	एपीएसवीसी/ 3894/02	थमाराकोल्लु (डाक), काइकालूर (एम), कृष्णा जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	10.5.76
602	लवकुश नाग, पुत्र श्री रामराज नाग	यूपीएसवीसी/ 3552/02	359/33/12, कटरा खुदयार खान, सहादत गंज, लखनऊ	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएंडटी/ 02	28.2.76
603	लक्ष्मना बी. जम्बागी, पुत्र श्री बालप्पा जम्बागी	कर्नाएसवीसी/ 3325	हारुगेरे, रायबाग तालुक, बेलगाम जिला	बीवीएससीएच/ यूएसधारवाड़/ 01	20.9.77
604	लीना रॉस टिरकी (कु.) , पुत्री श्री पीटर टिरकी	एमपीएसवीसी /2030/02	प्रगतिशील कॉलोनी, जबलपुर, नबंदा रोड	बीवीएससीएच/ जएलएनकैवीवी/ 00-01	18.2.78
605	लक्ष्मी एम.ए.	केरलएसवीसी /2760/02	वैसाख वेनकोडे डाक, वट्टापारा, त्रिवेंद्रम- 695028	बीवीएससी/टीएन वीएसयू/02	6.5.78
606	लेसली लिओ प्रिंस एल, पुत्र श्री पी. लॉरेंस	वीसीआई/ 2404/03	9/258, वेल्ला कोविल रोड, मुथुर, कंगयान (टी.के.) इरोडे (जिला), त.ना.	बीवीएससी/टीएन वीएसयू/97	22.6.74
607	लिंगराज महंता, पुत्र श्री मनोरंजन महंता	उड़ीसाएसवीसी /1888/03	एटी: पुरानापानी, डाक- नाबेरी, जला- मयूरभंज- 757030	बीवीएससीएच/ ओयूएंडटी/03	15.3.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
608	लॉफ्टी टिंगकन, पुत्र श्री के. सिनाह	मेघएसवीसी / 201 / 03	नाँगकिनरीह, जयन्तिया हिल्स- 793150	बीवीएससीएच / एएयू / 03	17.4.78
609	लोह दालसंगभान वाल्जीभाई	गुजएसवीसी / 2427 / 02	एटी रामपुरा, डाक धोता, वडगम, बनासकंठा- 385421	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	25.4.80
610	लोकेश अग्रवाल	राजएसवीसी / 2966 / 03	210, महावीर नगर-2, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	15.1.73
611	लोकेश छीपा	राजएसवीसी / 2907 / 03	ए-328, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	22.12.77
612	लोखंडे प्रमोद हरीशचंद्र	महाएसवीसी / 6590	हरीश चंद्र अपार्टमेंट्स, नागोवाडी, तालुक खानापुर, जिला-सांगली	बीवीएससीएच / एमपीकेबी / 01	9.10.77
613	एम.ए. सलीम, पुत्र मौह. सिददीक	एपीएसवीसी / 3827 / 02	11-5-162 / 13, दूसरी मंजिल, लाल पहाड़ियां, हैदराबाद (आं. प्र.)	बीवीएससी / एपीए यू / 1982	5.6.40
614	एम.के. गुप्ता, पुत्र श्री एम.पी. गुप्ता	यूपीएसवीसी / 3545 / 02	ग्राम- मोकापुर, डाक- जयसिंगपुर, जिला- सुल्तानपुर	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएण्डटी / 84	14.12.62
615	एम.पी. सिंह गौर, पुत्र श्री जमुना सिंह	यूपीएसवीसी / 3698 / 03	ग्राम एवं डाक- नूरपुर, जिला- हरदोई	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएण्डटी / 91	15.8.69
616	एम. राज किशोर रेड्डी, पुत्र श्री नारायणन रेड्डी	एपीएसवीसी / 3929 / 03	द्वारा एन.पी. ईश्वर रेड्डी, न. सी 44-8 या 11-44-7, एस.वी. नगर, तिरुपति, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2000	2.7.75
617	एम. सत्य प्रकाशम, पुत्र श्री संकर नारायण	एपीएसवीसी / 3828 / 02	एमआईजी, 105, एपीएचबी, अलकनंदा कॉलानी, विजियानगरम (आं.प्र.)	बीवीएससी / एपीए यू / 1978	1.7.40
618	एम.वी. सुब्बारायडू, पुत्र श्री वेंकटइयाह	एपीएसवीसी / 3 833 / 02	वेट.असि.सर्जन, वेट. डिस्पेंसरी, सोमनडेपल्ली, अनंतपुर, जिला आं.प्र.	बीवीएससीएच / एपीएयू / 1992	1.7.67
619	एम. विजय कुमार, पुत्र श्री राधाकृष्णा मूर्ति	एपीएसवीसी / 3918 / 03	32-2-10-बी, अनुहया, मधु चोक, मोगलरापुरम, विजयवाड़ा- 520010, आं.प्र.	बीवीएससी / मद्रास विवि / 66	31.7.42
620	मदन लाल, पुत्र श्री शिव लाल	हरिएसवीसी / 1 756	न्यू शारदा पब्लिक स्कूल के निकट, भुना, जिला फतेहाबाद	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 02	15.11.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
621	मदन लाल मीना	राजएसवीसी / 2892 / 02	ग्राम एवं डाक- डुब्बी राजगढ़, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 02	6.7.70
622	मधु सहरन, पुत्री श्री ओम प्रकाश	हरिएसवीसी / 1 766	1570, अर्बन एस्टेट-2, हिसार	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 93	8.8.70
623	मधु शैली, पुत्री श्री बसंत राय	पंजाबएसवीसी / 2420 / 03	एचआईजी-1395, मॉडल टाउन, भठिंडा- 151001	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	17.11.79
624	मधु तिवारी, पुत्री श्री बी.मोहन कुमार	यूपीएसवीसी / 3551 / 02	6 / 1911, न्यू कॉलोनी, पंतनगर	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 02	11.9.78
625	मधुचंद्र गौडा एम.आर. पुत्र श्री रामइयाह टी.	कर्नाएसवीसी / 3361	माविनाकट्टी, कोप्पालू, देवलपुरा, होबली नागमंगला तालुक, मांड्या जिला	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	1.7.79
626	मधु लाल वी.	केरलएसवीसी / 2767 / 02	वेलियट्टे हाउस, डाक अक्कोड, वजाकाडु (वाया), मलप्पुरम- 673640	बीवीएससीएच / एनजीआरएयू / 02	9.11.77
627	माधुरी जी.	केरलएसवीसी / 2749 / 02	सांति नीलायम, प्रयार नॉर्थ, डाक प्रयार, ओचीरा, अलपुजाह- 690547	बीवीएससीएच / केएयू / 02	25.5.77
628	माधुरी श्री हिमा टी., पुत्री श्री सेष साई	एपीएसवीसी / 3826 / 02	पत्नी श्री जी. श्रीकांत, विसवा शनी थिएटर, आर.आर पेट, इलुरु, प.गोदावरी जिला, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एनजीआरएयू / 2000	26.7.76
629	मधुसूदन जी.पी., पुत्र श्री पुट्टास्वामी जी.डी.	कर्नाएसवीसी / 3319	गोरावनाहल्ली, मददूर तालुक, मांड्या जिला	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 00	19.6.78
630	मधुसूदन रेड्डी, पुत्र श्री वेकटरामा रेड्डी	कर्नाएसवीसी / 3327	मसानापल्ली पलयाकरे डाक, बागपल्ली तालुक, कोलार जिला- 583125	बीवीएससी / यूएस स, बंगलौर / 82	5.9.59
631	मगती वी.एस. रमेश कुमार, पुत्र श्री लक्ष्मइयाह	एपीएसवीसी / 3905 / 02	सी / 3, एन.एस.वी. वायरा खम्मम जिला-507165, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एनजीआरएयू / 2002	2.6.79
632	मैग्नस पॉल	केरलएसवीसी / 2686 / 02	काकासेरी हाउस, मक्काट्टुकारा, नेट्टीसेरी डाक, थ्रिसूर- 6800657	बीवीएससीएच / केएयू / 02	2.10.77
633	महफूज अली	राजएसवीसी / 2988 / 03	8-बी-19, विज्ञान नगर, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	11.12.76

क्र.सं.	नाम	पंजी. /सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
634	माहले शिवेंद्र देवीदास	महाएसवीसी / 6 667	एटी डाक कोटेगांव, तालुक अंजनगांव, जिला अमरावती	बीवीएससीएच / डॉ. पी.डी.के.वी / 99	14.3.72
635	महावीर सिंह, पुत्र श्री ए. सिंह	यूपीएसवीसी / 3666 / 03	3-एच-23, नेहरु नगर, गाजियाबाद	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएण्डटी / 70	4.7.46
636	महेंद्र कुमार शर्मा	राजएसवीसी / 2991 / 03	ग्राम एवं डाक-पडरू, बाड़मेर, राजस्थान	बीवीएससीएच / एचएयू / 91	4.4.66
637	महेंद्र कुमार, पुत्र श्री सुभाष चंदर	हरिएसवीसी / 1757	6, अशोक नगर, आजाद नगर, हिसार	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएचएयू / 02	19.5.78
638	महेंद्र पासवान, पुत्र श्री राम बिलाश पासवान	बिहारएसवीसी / 2118 / 01	ग्राम हेरालपट्टी, डाक आनंदपुर, थाना-रामेश्वर नगर, जिला- दरभंगा, पिन-847101	बीवीएससीएच / आरएयू / 00	1.12.77
639	महेंद्र सिंह धारवे, पुत्र श्री आर.एस. धारवे	एमपीएसवीसी / 2089 / 02	एचआईजी-14, पाचपेड़ी, जबलपुर	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	10.12.78
640	महेंद्र नाथ, पुत्र श्री लल्लन प्रसाद	एमपीएसवीसी / 2044 / 02	11, सरस्वती नगर, थाटीपुर, यूनि. रोड, ग्वालियर, म.प्र.	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 00-01	15.7.77
641	महेश असती, पुत्र श्री दीनदयाल असती	एमपीएसवीसी / 2096 / 02	थाना एवं डाक बडा मल्हारा, जिला- छतरपुर-471311	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	30.6.77
642	महेश लाल जाटव, पुत्र श्री अर्जुन लाल जाटव	एमपीएसवीसी / 2075 / 02	नया पेट्रोल पम्प, एम.एस. रोड, सबलपुर, जिला मोरेना-476229	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	15.7.76
643	महेश्वर सिंह, पुत्र श्री हरजीत सिंह	पंजाबएसवीसी / 2345 / 02	टी 4 / 5, शाहपुर खंडी, टी / एस, थाना पठानकोट, गुरदासपुर	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	13.3.80
644	महारुख मुस्तफा बंदे	केरलएसवीसी / 2744 / 02	कॉटेज आर्टम्पोरियम, अशोका बीच रिसॉर्ट, कोवालम बीच रोड, डाक त्रिवेंद्रम-695527	बीवीएससीएच / केएयू / 02	22.12.77
645	मैत्री शर्मा, पुत्र श्री गणेश दत्त	हरिएसवीसी / 1761	521 / 11, आदर्श नगर, कैथल	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएचएयू / 02	20.2.80
646	माजी (कु.) समता, पुत्री श्री समर कुमार माली	एएसएमएसवी सी / 2021 / 02	बंकरा, इंदिरापल्ली, डाक-बंकरा, हावड़ा, प. बंगाल	बीवीएससीएच / एएयू / 02	

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हता	
647	मलप्पा एस. राजू तन्वर, पुत्र श्री शिवराहुतप्पा	कर्नाएसवीसी/ 3313	डाक- इंचल, तालुक- सवादती, जिला- बेलगाम	बीवीएससीएएच/ यूएसधारवाड/ आगरा वि वि/01	22.7.78
648	मलप्पा सज्जन, पुत्र श्री बासप्पा सज्जन	कर्नाएसवीसी/ 3338	डाक- यरानल, तालुक- बासवानाबागेवाडी, जिला- बीजापुर	बीवीएससीएएच, यूएसधारवाड/ 02	22.7.79
649	मल्लिकार्जुन कट्टेनवार, पुत्र श्री पुंडालीक	कर्नाएसवीसी/ 3323	शंकराहट्टी, अथनाई तालुक, बेलगाम जिला	बीवीएससीएएच/ यूएसधारवाड/ 01	20.7.77
650	मालरेड्डी प्रदीप रेड्डी, पुत्र श्री शंकर रेड्डी	एपीएसवीसी/ 3902/02	म.न. 9-6-153, मारुति नगर, सैदाबाद (डाक), हैदराबाद- 500059	बीवीएससीएएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	25.8.79
651	मनमोहन सिंह, पुत्र श्री मान सिंह	एचपीएसवीसी /623/02	ग्राम-नालदा, डाक-थालमा, थाना-उदयपुर, जिला- ला.एवं स्पिती, हि.प्र.	बीवीएससीएएच/ एचपीकेवीसी/00	4.8.77
652	मानस रंजन बेहेरा, पुत्र श्री भगवान बेहेरा	उडीसाएसवीसी /1911/03	एटी:उत्तरेश्वर (जेना पोखारी के निकट), डाक/वाया-सोरे, जिला-बालासौर-756045	बीवीएससीएएच/ ओयूएएंडटी/03	1.5.79
653	मनदीप सिंह, पुत्र श्री चांद सिंह	पंजाबएसवीसी /2362/02	नानक सार रोड, बी/एस न्यू कोर्ट्स, बरनाला	बीवीएससीएएच/ पीएयू/02	18.6.77
654	माने लक्ष्मण मानिक	महाएसवीसी/ 6664	एटी एवं डाक-खेड़, तालुक- खंडाला, जिला-सतारा	बीवीएससीएएच/ एमपीकेवी/01	15.8.77
655	मंगला राम	राजएसवीसी/ 2972/03	ग्राम/डाक भिनमाल, वाया- भिनमाल, जालौर, राजस्थान	बीवीएससीएएच/ आरएयू/03	9.7.78
656	मंगरु प्रसाद, पुत्र श्री मोहन कनौजिया	यूपीएसवीसी/ 3641/02	रायपुरी (रायपुरिया), चुनार, मिर्जापुर	बीवीएससीएएच/ जीबीपीयूएएंडटी/ 85	10.4.63
657	मनीन्द्र सिंह, पुत्र श्री बलकर सिंह	पंजाबएसवीसी /2360/02	ग्राम एवं डाक डोडा, तह.- गिददरबाहा, जिला मुक्तसर	बीवीएससीएएच/ पीएयू/02	11.8.79
658	मनीश कुमार, पुत्र श्री कृष्णा	यूपीएसवीसी/ 3568/02	द्वारा रामकुमार, एमओ-बगदाद, ग्राम एवं डाक-बावन, जिला हरदोई, उ.प्र.	बीवीएससीएएच/ जीबीपीयूएएंडटी/ 02	26.2.80
659	मनीष कुमार पांडे, पुत्र श्री सुरेंद्र पांडे	बिहारएसवीसी /2117/01	ग्राम-ए जी कॉलोनी, डाक- आशियाना नगर, थाना- शास्त्री नगर, जिला- पटना	बीवीएससीएएच/ आरएयू/00	19.1.76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
660	मनीष शुक्ला	राजएसवीसी / 2914 / 03	ग्राम एवं डाक - कायास, बाड़मेर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	26.2.78
661	मनीष रथ, पुत्र श्री शरत चंद्र रथ	उड़ीसाएसवीसी / 1894 / 03	प्लॉट न. 432, नौसाही, नयापल्ली, भुवनेश्वर 7510121	बीवीएससीएच / ओयूएण्डटी / 03	4.5.78
662	मंजेश कुमार, पुत्र श्री जय प्रकाश	हरिएसवीसी / 1745	ग्राम एवं डाक - भांडेरी, थाना हांसी, हिसार	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 02	1.12.75
663	मनजिंदर कौर, पुत्री श्री अजीत सिंह सेखों	पंजाबएसवीसी / 2388 / 02	बसंत नगर, गली न. 6, कोटकापुरा, जिला- फरीदकोट	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	18.11.78
664	मनजिंदर शर्मा, पुत्र श्री सोम नाथ शर्मा	पंजाबएसवीसी / 2407 / 03	म.न. 21981, वा.न. 7, धेबियाना रोड, सिविल स्टेशन, भठिंडा	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	10.2.77
665	मनजीत सिंह, पुत्र श्री मेजर सिंह	पंजाबएसवीसी / 2424 / 02	ग्राम-कटाहरी, डाक-लापरान, तहसील पायल, लुधियाना	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	7.7.73
666	मंजु पाल, पुत्री श्री डी.एन. पाल	गुपीएसवीसी / 3610 / 02	ग्राम-अटूटा, डाक-बाबागढ़ कैंट, जिला-गाजियाबाद	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएण्डटी / 02	19.8.75
667	मंजु सलूजा	राजएसवीसी / 2971 / 03	सी-255, तालवाली, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	4.9.73
668	मंजुला वी. पुत्री श्री वेकटप्पा	कर्नाएसवीसी / 3365	प्रशांत नगर, चिक्कबल्लापुर, कोलार जिला	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	11.6.77
669	मंजुनाथ ए. पुत्र श्री यशोगौडा	कर्नाएसवीसी / 3340	हगलूर, ह. होराहल्ली डाक, सिरुगप्पा तालुक, बेलारी जिला	बीवीएससीएच / यूएसधारवाड / 02	1.6.79
670	मंजुनाथ ए.एम., पुत्र श्री मूनेगौडा	कर्नाएसवीसी / 3399	अंकाथट्टी ग्राम, मटानाहल्ली डाक, कोलार तालुक एवं जिला	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	20.8.78
671	मंजुनाथ एन. पुत्र श्री नारायण रेड्डी	कर्नाएसवीसी / 3404	चित्रनायकानाहल्ली, चल्लाकेरे तालुक, चित्रदुर्ग जिला	बीवीएससीएच / यूएसधारवाड / 02	20.7.79
672	मंजुनाथ पी.ए., पुत्र श्री अवालाकोडरायप्पा	कर्नाएसवीसी / 3367	डाक पेरेसान्द्रा, तालुक चिक्कबल्लापुरा, जिला कोलार- 562104	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	22.7.78
673	मनोहर सिंह	राजएसवीसी / 2937 / 03	ग्राम एवं डाक बूरीवाडा, बाड़मेर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	10.12.76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
674	मनोज बी.	केरलएसवीसी /2727/02	त्रोपिल इंचोरा हाउस, डाक कुजुर, थिसूर - 680734	बीवीएससीएच/ केएयू/02	7.6.77
675	मनोज कुमार जेना, पुत्र श्री सिद्धेश्वर जेना	उड़ीसाएसवीसी /1859/02	एटी-अतराई, डाक कमारसालिया, वाया-नामपो, जिला-बालासोर-756034	बीवीएससीएच/ ओयूएंडटी/01	20.3.77
676	मनोज कुमार सतपथी, पुत्र श्री बिधु भूषण सतपथी	उड़ीसाएसवीसी /1885/03	एटी: लाहन सासन, डाक- धंडोल, जिला-केंद्रपाड़ा, 754208	बीवीएससीएच/ ओयूएंडटी/03	4.1.77
677	मनोज कुमार, पुत्र श्री नागेंद्र प्रसाद	बिहारएसवीसी /2139/01	ग्राम-श्रीपार, डाक-मसौरी, थाना-मसौरी, जिला पटना	बीवीएससीएच/ बीएयू/01	5.11.73
678	मनोज कुमार अहिरवार, पुत्र श्री राम प्रसाद अहिरवार	एमपीएसवीसी /2046/02	201, अभिनंदन नगर, राजाखेडी (मकरोनिया), सागर-470001	बीवीएससीएच/ आईजोकेवीवी/00 -01	27.6.75
679	मनोरंजन परिदा, पुत्र श्री मथुरानंद परिदा	उड़ीसाएसवीसी /1909/03	एटी:कलियापट, डाक- गोपिया कुड, वाया-कुजंग, जिला- जगतसिंगपुर-784141	बीवीएससीएच/ ओयूएंडटी/03	3.6.79
680	मनोरंजन राउत, पुत्र श्री सरबस्वर राउत	उड़ीसाएसवीसी /1912/03	एटी: वी.एस.एस. नगर, वार्ड न. 9, (राउत निवास), डाक/ जिला बारगढ़-768028	बीवीएससीएच/ ओयूएंडटी/03	15.6.79
681	मनप्रीत कौर, पुत्री श्री कतार सिंह	पंजाबएसवीसी /2403/03	सी-7, सिविल अस्पताल, तलवंडी साबो, जिला-भटिंडा	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	20.4.79
682	मनप्रीत सिंह, पुत्र श्री हरप्रकाश सिंह	पंजाबएसवीसी /2385/02	10-1, सराभा नगर, लुधियाना	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	26.10.79
683	मानसी शर्मा, पुत्री श्री तेजनाथ शर्मा	एचपीएसवीसी /637/02	ग्राम शादिओर, डाक-गुटकार, जिला- मंडी, हि.प्र.	बीवीएससीएच/ सीएसकेएचपीकेवी /02	22.7.78
684	मारुति ताडलगी, पुत्र श्री मालप्पा	कर्नाएसवीसी/ 3311	डाक अंकालागी, तालुक एवं जिला बीजापुर-586127	बीवीएससीएच/ यूएसएधारावाड/ 01	22.7.78
685	मासारे प्रशांत सूर्यकांत	कर्नाएसवीसी/ 6689	यशोदीप, नंदनवन कॉलोनी, कारेगांव रोड, परभनी, जिला- परभनी	बीवीएससीएच/ एमएएफएसयू/02	17.3.80
686	माश प्रसाद, पुत्र स्व. श्री जे. लाल	यूपीएसवीसी/ 3673/03	ग्राम एवं डाक-बोरौर, जिला- कानपुर देहात	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 69	7.8.45

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
687	मैथ्यू अंगामी, पुत्र श्री विनगुजी	एनएसवीसी / 0113 / 00	पशु चिकित्सा एवं पशु पालन विभाग, कोहिमा, नागालैंड	बीवीएससीएच / केकेवी / 78	28.12.52
688	माथुरिया जे.के., पुत्र श्री आर.सी. माथुरिया	वीसीआई / 2427 / 03	ए-96, सेक्टर-22, नौएडा, उ.प्र.	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 03	31.7.77
689	मौसमी दास, पुत्री श्री तन्मय बिहारी दास	त्रिपुरावीसी / 140 / 02	द्वारा श्री तन्मय बिहारी दास, ग्राम-काटलामारा, डाक-सिमना, त्रिपुरा (पश्चिम)	बीवीएससीएच / एएयू / 02	20.10.76
690	मौ. जियाउली हसन सरवार, पुत्र मौ. करुएश	बिहारएसवीसी / 2146 / 01	ग्राम-देओकुंडा, डाक-चकनाथु, थाना-सनोहलिया, जिला-भागलपुर	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	24.11.74
691	मीनाक्षी, पुत्री श्री नरिंदर पाल गोयल	पंजाबएसवीसी / 2400 / 03	म.न. 111, फेस-1, मॉडल टाउन, भठिंडा	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	25.6.79
692	भौनल गुप्ता, पुत्र श्री आर.एस. गुप्ता	यूपीएसवीसी / 3553 / 02	1/43, फूलबाग, पंत नगर, यू.एस. नगर, यू.ए.	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 02	26.10.78
693	मेघना पांडे, पुत्री श्री बी.के. जोशी	यूपीएसवीसी / 3611 / 02	94, मंगल विहार, स्कीम न. 5, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 98	19.8.75
694	मेइतराम रैनावती देवी, पुत्री श्री तोम्बा सिंह	मणिएसवीसी / 376 / 02	खबी ममांग, लेहकेई, डाक-नमबेल	बीवीएससीएच / एएयू / 02	2.2.79
695	मिधुला रॉय	केरलएसवीसी / 2710 / 02	म.न. 2 (कोट्टाली), फील्ड व्यू कॉलोनी, चेवायूर, कोजीकोड-673017	बीवीएससीएच / केएयू / 02	8.10.77
696	मिनेश कुमार मेशराम, पुत्र, श्री खोमचंद मेशराम	एमपीएसवीसी / 2059 / 02	ग्राम एवं डाक-मिरागपुर, थाना वारासिओनी, जिला-बालाघाट-481449	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	14.3.78
697	मीर अमीर अली, पुत्र श्री साबिर अली	कर्नाएसवीसी / 3393	40, चौथा क्रॉस, आदि कबीर, आश्रम रोड, मतादाहल्ली, बंगलौर-82	बीवीएससीएच / यूएस. बंगलौर / 02	1.8.78
698	मिर्जा शरीक बेग	महाएसवीसी / 6705	तुरेबूल हक नगर, दरगाह रोड, म.न. 1562, परभनी, दरगाह रोड, परभनी	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	5.5.78
699	कुमारी ममता मेहर, पुत्री श्री आर.आर. मेहर	एमपीएसवीसी / 2094 / 02	हायर सेकेंडरी स्कूल के निकट, रामनगर, मंडीदीप, जिला-रायसेन-462048	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	7.7.75

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
700	कुमारी श्वेता शर्मा, पुत्री श्री आर.पी. शर्मा	एमपीएसवीसी /2101/02	लड़कियों का होस्टल, वेट. कॉलेज, सिविल लाइंस, जबलपुर-482001	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	4.11.75
701	मौ. असलम, पुत्र स्व. श्री जे. अली	यूपीएसवीसी/ 3644/03	ग्राम उनेर गंज, डाक-बलूई, जिला- बलिया, उ.प्र.	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएंडटी/ 74	1.1.51
702	मौ. जे. अहमद, पुत्र श्री शम्सुद्दीन	यूपीएसवीसी/ 3643/03	सी-307/18, जी.टी.बी. नगर, इलाहबाद	बीवीएससीएच/ रांचीवि/70	25.11.46
703	मोधी दीपुमोनी, पुत्र श्री टंकेश्वर मेधी	एसएमएसवी सी/2058/02	ग्राम एवं डाक- हैबरगांव, जिला- नागांव, पिन- 782002	बीवीएससीएच/ एएयू/02	
704	मोदी जैलेश छोटालाल	गुजएसवीसी/ 2436/02	डाबागर पिम्पली, गांधी चौक के निकट, उंझा, मेहसाना- 384170	बीवीएससीएच/ जीएयू/02	4.9.79
705	मोदी उमाकांत जगदीश कुमार	गुजएसवीसी/ 2435/02	जवाहर सोसायटी के निकट, देगाला रोड, वीसानगर, मेहसाना- 384315	बीवीएससीएच/ जीएयू/02	11.6.80
706	मौहम्मद अशफाक अंसारी	राजएसवीसी/ 2963/03	गवर्न. सेके. स्कूल के सामने, पाटनपोल, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	1.7.77
707	मोहन लाल	राजएसवीसी/ 2918/03	ग्राम डबाल मीना, डाक- डालवा, राजगढ़, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	2.7.76
708	मोहना एस.एम., पुत्र श्री मालेश्या एस.	कर्नाएसवीसी/ 3372	शेट्टीहल्ली, सानेहल्ली डाक, होसादुर्गा तालुक, चित्रदुर्गा जिला- 577515	बीवीएससीएच/ यूएस, बंगलौर/ 02	6.11.77
709	मोहर सिंह मीना	राजएसवीसी/ 2985/03	ग्राम एवं डाक- सिरसाला, तह.- चुरु, चुरु, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	10.8.78
710	मौहम्मद हनीफ भट, पुत्र मौह. अब्दुल्लाह भट	वीसीआई/ 2403/03	द्वारा ताशूक प्रोवीजन स्टोर, बातशाह कॉलोनी, लेन-7, लाल बाजार, श्रीनगर, ज. एवं क.	बीवीएससीएच/ एसकेयूएस टी/99	21.7.73
711	मोहरिल विलास सीताराम	महाएसवीसी/6 568	12, वर्मा लेआउट, अम्बाजरी, नागपुर	बीवीएससीएच/ पीकेवी/70	7.7.45
712	माकदम गजानन शालिकराम	महाएसवीसी/ 6595	द्वारा:वाई.टी. वनजारी, टाकिया वार्ड, साईमंदिर के निकट, भंडारा, जिला भंडारा, ए.आई. सबसेंटर, रतनारा, राइक, गोंडिया	बीवीएससीएच/ पीकेवी/86	25.6.61

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
713	मोनालिसा साहू द्वारा डा. नारायण साहू	उड़ीसाएसवीसी /1895/03	सी-37, शहीद नगर, भुवनेश्वर	बीवीएससीएच/ ओयूएफंडटी/03	5.7.79
714	मोनिका बतरा, पुत्र श्री बी.आर. बत्रा	हरिएसवीसी/ 1734	10/35, ओड कैंपस, एचएयू हिसार	बीवीएससीएच/ सीसीएसएचएयू/ 02	5.1.79
715	मोनोहे कैलाश संतोष राव	राजएसवीसी/ 2898/02	म.न. 1/211, एस.पी.एस. अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच/ पीकेवी/90	5.4.68
716	मोरकाने पोपट मौती	महाएसवीसी/ 6591	एटी दलवाड़ी, डाक वाखारी, तालुक फाल्टन, जिला- सतारा- 415523	बीवीएससीएच/ एमपीकेवी/01	6.5.78
717	मोटे चंद्र शेखर सम्भाजी	महाएसवीसी/ 6589	वाडाला मिशन, नेवासा, जिला- अहमदनगर-414602	बीवीएससीएच/ एमपीकेवी/01	18.10.78
718	मोटघरे अभिजीत भगवंत राव	महाएसवीसी/ 6623	प्लॉट न. 31, सुदर्शन कॉलोनी, न्यू सूबेदार लेआउट, नागपुर	बीवीएससीएच/ एमएएफएसयू/02	9.8.77
719	मोवालिया जिग्नेश कुमार कांतिलाल	गुजएसवीसी/ 2450/03	टोला पाटीदाद गोंडल, राजकोट-360311	बीवीएससीएच/ जीएयू/02	20.10.80
720	मृगंक होनपारखे	पंजाबएसवीसी /2382/02	शिंदे का बाड़ा, सेंट मेरी स्कूल के सामने, लश्कर, ग्वालियर, (म.प्र.)-474009	बीवीएससीएच/ जेएनकेवी/97	8.2.74
721	मुदासिर अशरफ बक्शी, पुत्र मोह. अशरफ बक्शी	वीसीआई/ 2408/03	द्वारा एम.ए.बक्शी, सहा. रजिस्ट्रार, शेर-ए-कश्मीर कृ. एवं तक. वि. वि.पोस्ट बॉ.न. 202, श्रीनगर	बीवीएससीएच/ एसकेयूएस टी/2000	11.3.74
722	मुकेश चंद मीना	राजएसवीसी/ 2973/03	ग्राम एवं डाक-कुंजोला नादोली, करौली, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	8.7.75
723	मुकेश चंद्र	राजएसवीसी/ 2993/03	ग्राम-मामटोली, डाक-साहना, वाया-उचत, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	10.2.77
724	मुकेश कुमार, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद साहा	बिहारएसवीसी /2107/01	ग्राम-सरायलाल खान, दरगाह चौक, डाक-नयाबाजार, थाना- तातरपुर, जिला-भागलपुर	बीवीएससीएच/ आरएयू/00	30.10.73
725	मुकेश प्रसाद सिंह, पुत्र श्री उमा शंकर सिंह	बिहारएसवीसी /2142/01	ग्राम-चंद्रहट्टी, डाक- चंद्रहट्टी, थाना- कुरनी, जिला- मुजफ्फरपुर	बीवीएससीएच/ बीएयू/01	13.1.76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
726	मुकेश रायपुरिया, पुत्र श्री भवानी प्रसाद रायपुरिया	एमपीएसवीसी / 2051 / 02	ग्राम एवं डाक- रथियापुरा, मेहगांव, भिंड- 477557	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 00-01	10.7.77
727	मुकेश शर्मा, पुत्र श्री रमेश चंद	हरिएसवीसी / 1746	415, सेक्टर 8, अर्बन एस्टेट, करनाल	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 01	5.4.78
728	मुकेश शर्मा, पुत्र श्री राजा राम शर्मा	एमपीएसवीसी / 2069 / 02	ए-85, शास्त्री कॉलोनी, भिंड, म.प्र.- 477001	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	8.7.77
729	मुक्तेश्वर सिंह, पुत्र स्व. श्री आर.एस. सिंह	यूपीएसवीसी / 3703 / 03	श्री राम भवन, न्यू कॉलोनी, कायकपुर, गोरखपुर	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 70	1.7.49
730	मुलेकर वर्षा किशन राव, पुत्री श्री कृष्ण राव मुलेक्सर	एमपीएसवीसी / 2052 / 02	श्री राजाराम कोल, सिविल लाइंस, गोल बाजार, जिला- छिंदवाड़ा, तह.-सौसेर 480106	बीवीएससीएच / पीआरकेवीपी / 92	14.1.70
731	मुल्ला अहमद अबुदकर	महाएसवीसी / 6636	ए/पी इस्लामपुर, तालुक- मालशिरास, जिला- सोलापुर- 413107	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	29.1.79
732	मुनीश कुमार बेदी, पुत्र श्री हरि कृष्ण बेदी	पंजाबएसवीसी / 2374 / 02	114/4, धवन कॉलोनी, फिरोजपुर	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	30.4.80
733	मुनीश कुमार, पुत्र श्री वेद प्रकाश	पंजाबएसवीसी / 2389 / 02	मौहल्ला सोडियान, गली बोहर वाली, फिरोजपुर सिटी	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	26.11.77
734	मुनिवेंकटप्पा वी., पुत्र श्री विसप्पा टी.एम	कर्नाएसवीसी / 3314	रामाकृष्ण नीलया, आर.के. एक्सटे., श्रीनिवासपुरा शहर, कोलार जिला	बीवीएससी / यूए सबंगलौर / 79	10.6.55
735	मुंशी लाल भीना	राजएसवीसी / 2932 / 03	ग्राम एवं डाक- सासेदी, करौली, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	1.3.76
736	मुरारी लाल	राजएसवीसी / 2981 / 03	ग्राम नांगलिओझा, डाक- ससागढ, तह- मुंडवार, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	10.5.76
737	मुरली धर भीना	राजएसवीसी / 2942 / 03	ग्राम एवं डाक- बुधादीत, तह.- डाइगोड, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	10.5.73
738	मुरुगेश वी.टी., पुत्र श्री थिप्पेरामा वी	कर्नाएसवीसी / 3376	सदरहल्ली लक्ष्मीसागर, तालुक एवं जिला- चित्रदुर्गा- 577501	बीवीएससीएच / यूएएस बंगलौर / 02	20.7.77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
739	एन. सैलजा, पुत्री श्री सुब्बा रेड्डी	एपीएसवीसी / 3868 / 02	1 / 380-4, गजुला अपार्ट., जिला कचहरी के सामने, मारुति नगर, कुडप्पा, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एनजीआरएयू / 2002	10.7.75
740	एन. आशा रेखा, पुत्री श्री उमा महेश्वर राव	एपीएसवीसी / 3854 / 02	द्वारा जी.वी. रामइयाह गरु, 1 / 1685, एन.सी. बलिया नगर, नवाबपेट, नेल्लोर-2, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एनजीआरएयू / 2002	31.7.78
741	एन.सी. त्रिपति, पुत्र श्री पी.एन. त्रिपति	यूपीएसवीसी / 3686 / 03	4 / 343, विवेक खंड, गोमती नगर, जिला- लखनऊ	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 70	9.10.45
742	एन. के. गंगवार, पुत्र श्री वीरपाल गंगवार	यूपीएसवीसी / 3554 / 02	ग्राम एवं डाक- सोमधाना, थाना- तिलार, जिला- शाहजहांपुर	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 70	15.9.77
743	एन.के. वर्मा, पुत्र डॉ. एस.वी.एल. वर्मा	यूपीएसवीसी / 3700 / 03	ग्राम एवं डाक- सदरपुर, जिला- हरदोई, उ.प्र.	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 94	15.1.67
744	एन.कल्याण चक्रवर्ती, पुत्र श्री एन.जे.एन. चंद्र मौली	एपीएसवीसी / 3863 / 02	म.न. 8 / 430, पीपुली, कुर्नूल जिला, 518221 (आ.प्र.)	बीवीएससीएच / एनजीआरएयू / 2002	1.8.79
745	एन. वेंकटेश्वर राव, पुत्र श्री सिम्हाचलम	एपीएसवीसी / 3825 / 02	प्लेट न. 2 'सी' नंदन एन्कलेव., ईस्ट पॉइंट कोल, पेडा, वाल्टेयर, विशाखापटणम 530017 (आं.प्र.)	बीवीएससी / एपीएयू / 1980	20.3.57
746	एन. वोपेनथुंगजिक ओडियो, पुत्र श्री न्चोनमियो ओडियो	एनएसवीसी / 107 / 00	द्वारा श्री यानथुंगो न्गुली (यूडीए), डायरेक्टरेट ऑफ एम्पलॉयमेंट, कोहिमा	बीवीएससीएच / डॉ.पीडीके वी / 00	27.5.77
747	नागप्पा करबासनावर, पुत्र श्री शिवानिंग करबासनावर	कर्नाएसवीसी / 3331	डाक कृष्णा कुटीर, तालुक अधानी, जिला बेलगाम- 591303	बीवीएससीएच / यूएसधारवाड / 02	1.3.79
748	नागर सिंह, पुत्र श्री गामदूर सिंह	पंजाबएसवीसी / 2364 / 02	ग्राम- नटट, डाक बुर्ज सेमा, वाया मोर मंडी, जिला- भठिंडा	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	23.4.79
749	नागराज केरूर, पुत्र श्री मालप्पा केरूर	कर्नाएसवीसी / 3405	न. 544, लक्ष्मीनिवास, कीर्ति नगर, बीजापुर 585101	बीवीएससीएच / यूएसधारवाड / 02	1.6.79
750	नागराज पी., पुत्र श्री पेरुमल	वीसीआई / 2438 / 04	प्लेट न.एच-16, नेशनल इंस्टीट्यूट, ऑफ इम्यूनोलॉजी, जेयूएन कॉम्प्लेक्स, अरुणा आसफअली मार्ग, नईदिल्ली-67	बीवीएससी / टीएन वीएंडएएसयू / 97	1.4.73
751	नागेश्वर राव एम, पुत्र श्री साम्बइयाह	एपीएसवीसी / 3904 / 02	बापूजी नगर, निदामारु (डाक), मंगलागिरि (एम), गुंटूर जिला, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एनजीआरएयू / 2002	1.7.76

क्र.सं.	नाम	पंजी. स.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
752	नकरानी नरसिंहभाई रावजीभाई	गुजएसवीसी / 2398 / 02	एटी-बराडिया (गिर), विसावदर, जूनागढ़- 362120	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	19.12.79
753	नाले लालासो सदाशिव	महाएसवीसी / 6674	एटी वनजाले, डाक दूधेभवी, तालुक फाल्टन, जिला-सतारा	बीवीएससीएच / केकेवी / 01	29.1.77
754	नाले रनजीत अप्पासो	महाएसवीसी / 6606	ए/पी गुनावारे, तालुक फाल्टन, जिला- सतारा- 415523	बीवीएससीएच / एमपीकेवी / 01	2.12.76
755	नल्लापानेनी अनुराधा, पुत्र श्री गोपाल कृष्णइयाह	एपीएसवीसी / 3908 / 03	652 ए, भेल टाउनशिप, आर. सी. पुरम, हैदराबाद- 502032	बीवीएससीएच / एनजीआरएयू / 2002	15.6.79
756	नमिता राय, पुत्र डॉ. त्रिवेनी राय	बिहारएसवीसी / 2215 / 02	बरियातु हाउसिंग बोर्ड, क्वा.न. 3 के / 17, डाक-बरियातु, जिला-रांची	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	24.3.70
757	नम्रता बारिक, पुत्री श्री भीष्मदेव बारिक	उड़ीसाएसवीसी / 1898 / 03	एटी / डाक- बारपाली, वार्ड न. 1, जिला-बारगढ़- 768029	बीवीएससीएच / ओयूएडटी / 03	24.6.78
758	नंद लाल चौधरी, पुत्र स्व. श्री कैलू चौधरी	बिहारएसवीसी / 2174 / 01	ग्राम-कासिमपुर, डाक- घोरदौर, थाना- सालखुआ, जिला सहरसा	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	5.2.74
759	नरेंद्र कुमार नागपाल	राजएसवीसी / 2925 / 03	द्वारा नागपाल क्लिनिक, मेन बाजार, अनूपगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	21.3.75
760	नरेंद्र नारायण चौधरी	राजएसवीसी / 2886 / 02	3 / 427, हाउसिंग बोर्ड, काला कुआं, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 71	9.1.47
761	नरेंद्र सिंह	राजएसवीसी / 2947 / 03	ग्राम- लोलावास, डाक-सिनला, वाया-मारवाड़ (जेएनसी), पाली, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	22.12.76
762	नरेंद्र सिंह राठौड़	राजएसवीसी / 2992 / 03	डी-103, प्रेम नगर, झोतवाड़ा, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	14.9.75
763	नरेश कुमार, पुत्र श्री बिशन सिंह	एचपीएसवीसी / 626 / 02	ग्राम- चोखाना, डाक- ढांगर, तह-घूमरविन, जिला- बिलासपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएच / सीएसकेएचपीकेवी / 02	16.10.77
764	नरेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री रोशन लाल शर्मा	पंजाबएसवीसी / 2427 / 03	एमआईजी-3एसएफ, ब्लॉक सी, ऋषि नगर, लुधियाना	बीवीएससीएच / पीएयू / 77	28.8.56

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
765	नरेश कुमार, पुत्र श्री दामोदर शर्मा	हरिएसवीसी / 1754	नरेश वेटरिनरी हॉस्पिटल, धांड जिला, कैथल	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 02	12.10.54
766	नसीमा के.टी.	केरलएसवीसी / 2699 / 02	इलाडथ मीढल हाउस, कन्ननकारा डाक, चेलानूर (वाया), कोजीकोड-673616	बीवीएससीएच / केएयू / 02	30.5.79
767	नटराजू एस., पुत्र श्री के. गुरु सिदइयाह	कर्नाएसवीसी / 3358	दोड्डाहोमा, डाक चिक्काहोमा, तालुक नान्जनगुड, मैसूर जिला- 517316	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	9.3.80
768	नाथ सत्येंद्र, पुत्र श्री बालेंद्र नाथ	एसएमएसवीसी / 2075 / 02	द्वारा भाबाज्योति दत्ता, डॉक्टर्स, होस्टल कमरा न. 111, सी.वी. सा., खानापाड़ा	बीवीएससीएच / एएयू / 03	
769	नवदीप सिंह दिल्ली, पुत्र श्री गुरजीत सिंह दिल्ली	पंजाबएसवीसी / 2350 / 02	प्रेम नगर, डाक सेंट्रल जेल, खरनबाद रोड, अमृतसर	बीवीएससीएच / पीएयू / 01	22.3.77
770	नवदीप सिंह बाजवा, पुत्र श्री कंबर सुजान सिंह बावजा	पंजाबएसवीसी / 2348 / 02	बीएक्स-IV-24, दौला नंगल, नेहरु गेट, बटाला-143505, जिला-गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएच / पीएयू / 01	30.3.78
771	नवीन कुमार, पुत्र श्री सिद्दाराजू एस.	कर्नाएसवीसी / 3362	डाक गरकाहल्ली, तालुक चन्नापाटना, ग्रामीण बंगलौर	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	2.2.80
772	नवीन कुमार राजू, पुत्र श्री सुधाकर राजू आर.	कर्नाएसवीसी / 3388	न. 5/9, महेश्वरी नीलया, सिव. रोड, मटाडाहल्ली, आर. टी. नगर, डाक बंगलौर-32	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	21.5.80
773	नवीन कुमार पांडे, पुत्र स्व. श्री शारदा पांडे	बिहारएसवीसी / 2094 / 01	द्वारा-बालबिहारी शिशु अकादमी एम.जी. रोड, डाक एवं थाना औरंगाबाद, जिला औरंगाबाद	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 00	20.11.75
774	नवजीत सिंह, पुत्र श्री बलदेव सिंह	पंजाबएसवीसी / 2402 / 03	ग्राम-धारीवाल, डाक-लखनपाल, थाना एवं जिला-गुरदासपुर	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	16.1.78
775	नीलम पट्टनाइक, द्वारा श्री जगदानंद पट्टनाइक	उड़ीसाएसवीसी / 1877 / 03	क्वा.न. टाइप IV-4, ओयूएटी कॉलोनी, भुबनेश्वर, ग्राम बोलगढ़, जिला-खुर्दा	बीवीएससीएच / ओयूएण्डटी / 03	15.3.79
776	नीना एंसी जकारिया	केरलएसवीसी / 2713 / 02	थोप्पिल हाउस, इडक्कारा, डाक नीलम्बूर, मलप्पुरम- 679331	बीवीएससीएच / केएयू / 02	12.5.78
777	नीरज कुमार, पुत्र श्री रामा लाल	यूपीएसवीसी / 3518 / 02	9/2, पुरानी मोहनपुरी, शिवा पब्लिक स्कूल के निकट, मेरठ, उ.प्र.	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 01	9.7.77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	वैधानिक अर्हताएं	जन्मतिथि
778	नेमी चंद शेषमा	राजएसवीसी / 2999 / 03	ग्राम-पूरनछोटी, वाया- सांवली, सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	15.9.74
779	नेवमे कु. लुंगेहुइलियु, पुत्री श्री इजीरंगबे जेमे	एसएसएमएसवी सी / 2049 / 02	द्वारा श्री इजीरंगबे जेमे लादी इमलोग, एन.सी. हिल्स, पिन- 788819	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
780	निजागुना बी.एस., पुत्र श्री शिवन्ना बी.एस.	कर्नाएसवीसी / 3373	43, छठा क्रॉस, चौथा मेन, केईबी लेआउट, आरएमवी।। स्टेज, बंगलौर	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	15.7.78
781	नीलकंठ दास, पुत्र श्री रबीन्द्र नाथ दास	उड़ीसाएसवीसी / 1917 / 03	एटी-डागरसाही, डाक-अरीसंध, थाना-नीमपाड़ा, जिला-पुरी- 752106	बीवीएससीएच / ओयूएंडटी / 03	25.4.78
782	निम्बलकर सम्भाजी भीमराव	महाएसवीसी / 6621	प्लॉट न. 85, एटी कोल्की, मालोजीनगर, फाल्टन, जिला- सतारा-415523	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	10.7.80
783	निपाने सुरेश फत्तूजी	महाएसवीसी / 6681	एटी डाक-जवाहरनगर, क्वा.न. 13/3, जे-टाइप, तालुक- भंडारा, जिला-भंडारा	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	12.12.76
784	नीरद कुमार साहू, पुत्र श्री प्रवाकर साहू	उड़ीसाएसवीसी / 1886 / 03	एटी: कुकुटा, डाक- बालिमी, जिला- ढेंकनाल- 759020	बीवीएससीएच / ओयूएंडटी / 03	9.7.78
785	नीरज कुमार, पुत्र श्री गिरिजा नंदन झा	बिहारएसवीसी / 2191 / 01	ग्राम सोनापथ, डाक-लालबाग, थाना-टाउन, जिला- दरभंगा	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 01	9.6.75
786	निरंजन कुमार प्रसाद, पुत्र श्री सरयुंग प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी / 2194 / 01	ग्राम-जयशिव बीघा, डाक- हब्बीपुर, थाना अकफंगरसराय, जिला- नालंदा	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	5.2.74
787	निर्मय कुमार सिंह, पुत्र श्री राजदेव सिंह	बिहारएसवीसी / 2116 / 01	ग्राम-नावादा, डाक-चैनवा, थाना-रसूलपुर, जिला-छपरा	बीवीएससीएच / आरएयू / 00	10.1.73
788	निर्मय कुमार, पुत्र श्री योगेश प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी / 2229 / 02	ग्राम-दरियापुर, डाक-सोनचरी, थाना-परबलपुर, जिला- नालंदा	बीवीएससीएच / आरएयू / 02	5.1.78
789	निर्मल चंद्र बारिक, पुत्र श्री नरहरि बारिक	उड़ीसाएसवीसी / 1876 / 03	एटी: झियाकीरा, डाक- अरखापुर, जिला-बालासौर- 756134	बीवीएससीएच / ओयूएंडटी / 03	3.3.78
790	निशा एम.एन.	केरलएसवीसी / 2688 / 02	आथिरा सास्था नगर, पट्टूराइकल, थिसूर- 680001	बीवीएससीएच / केएयू / 02	25.5.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
791	निशांत कुमार, पुत्र श्री मुकुंद झा	बिहारएसवीसी / 2213 / 02	ग्राम-मारिपुर, डाक-मुजफ्फरपुर, थाना-काजी मौहम्मदपुर, जिला-मुजफ्फरपुर	बीवीएससीएच / डब्ल्यूबीयूएंडएफ एसयू / 01	17.12.77
792	निताईपद पाल, पुत्र श्री नलिनी कुमार पाल	त्रिपुरावीसी / 141 / 02	'नित्यानंद भवन', जॉय नगर (उत्तर), अगरतला, त्रिपुरा (पश्चिम)	बीवीएससीएच / बीसीकैवीवी / 81	13.1.58
793	नितिन भरद्वाज, पुत्र श्री एम.एल. भरद्वाज	पंजाबएसवीसी / 2353 / 02	बी-3, 7464, एसबीएस नगर, हैबोवाल कलां, लुधियाना	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	6.2.80
794	नितुल सैकिया, पुत्र श्री रमेश चंद्र सैकिया	वीसीआई / 2437 / 04	द्वारा डॉ. एच.एफ. अहमद, पशु आहार विभाग, कॉलेज ऑफ़ वेट.साइंस, खानापाड़ा, गुवाहाटी	बीवीएससीएच / एएयू / 2000	10.8.77
795	नित्यानंद प्रसाद, पुत्र स्व. श्री बृजनंद लाल	बिहारएसवीसी / 2206 / 02	ग्राम-बड़ी पाटन देवी, डाक-गुलजार बाग, थाना-आलमगंज	बीवीएससीएच / एमयू / 01	30.9.46
796	नोबल टी. जॉर्ज	केरलएसवीसी / 2717 / 02	थेकेडथु हाउस, वाकयार, डाक कोरनी, पथानमथिट्टा-689698	बीवीएससीएच / केएयू / 02	25.9.78
797	नूपी अरोड़ा, पुत्री श्री सुरिन्दर कुमार अरोड़ा	पंजाबएसवीसी / 2413 / 03	द्वारा नूरी रियल एस्टेट, सी-1, पिक एवेन्यू, फिरोजपुर रोड, चुंगी के निकट, डाक लुधियाना	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	21.8.79
798	ओम प्रकाश चौधरी	राजएसवीसी / 2986 / 03	द्वारा महालक्ष्मी टेलर्स, सुभाष मार्ग बिलारा, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	25.1.78
799	ओम प्रकाश कृष्णिया	राजएसवीसी / 2902 / 03	ग्राम एवं डाक बुदाना, वाया बागर, झुझनू, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	19.11.76
800	ओम प्रकाश मीना	राजएसवीसी / 2915 / 03	ग्राम एवं डाक भीलपाड़ा, तह. नदौली करौली, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	10.7.74
801	ओम प्रकाश मेहरा	राजएसवीसी / 2995 / 03	ग्राम एवं डाक-सतखंड, थाना-निम्बाहेरा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	1.7.77
802	ओम प्रकाश साहू	राजएसवीसी / 2879 / 02	सी-727, बुध विहार, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएच / उदयपुरविवि / 91	12.6.58
803	पी.सी.डी. द्विवेदी, पुत्र श्री एच.डी. द्विवेदी	यूपीएसवीसी / 3660 / 03	ग्राम-अनोकुनिया, डाक-तिलौली (बस्ती), जिला- सिद्धार्थ नगर	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 89	15.7.64
804	पी.के. तोमर, पुत्र श्री सुखवीर सिंह	यूपीएसवीसी / 3605 / 02	ग्राम एवं डाक-मोखियाली, जिला-मुजफ्फर नगर	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 85	9.7.61

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
805	पी. सांति, पुत्री श्री जयशामी रेड्डी	एपीएसवीसी / 3851 / 02	म.न. 4-6-40, रिजरवॉयर कॉलोनी, तिरुपति-517507 (आं. प्र.)	बीवीएससीएच / एनजीआरएयू / 2002	1.5.79
806	पाचघडे कपिल विजयकुमार	महाएसवीसी / 6703	"प्रीत निवास" टीचर्स कॉलोनी, वर्धा रोड, कोंडली, तालुक कटोल, जिला- नागपुर	बीवीएससीएच / डॉ.पीडीकेवी / 01	12.1.75
807	पदमावती सिंगना मल्ला, पुत्री श्री रामी रेड्डी	एपीएसवीसी / 3852 / 02	मुगावारीपल्ली, एलीमारापुरम (डाक), पेनागलूर (एम), कुडप्पा जिला, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एनजीआरएयू / 2002	18.6.77
808	पद्मिनी प्रधान, पुत्री श्री देवी सिंह प्रसाद	मेघएसवीसी / 198 / 02	नॉग्रिम रोड, लाइत्मुखरा, शिलौंग-793003	बीवीएससी / टी एनवीएसयू / 02	29.1.78
809	पञ्जोल दत्ता सम्पत	महाएसवीसी / 6604	ए/पी, सोनेवाडी, तराग- निफद, जिला-नासिक	बीवीएससीएच / एमएयू / 01	15.12.78
810	पगरुट नीलेश कुमार सखाराम	महाएसवीसी / 6624	गौरक्षण रोड, सहकार नगर, एस.आर.पाटिल कॉलेज के निकट, अकोला- 444001	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	2.12.80
811	पाल विलास नारायण	महाएसवीसी / 6683	द्वारका नगरी, आनंदवन स्ववेयर, वारोरा, जिला- चंद्रपुर	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	10.6.79
812	पलानीसामी एस., पुत्र श्री सुब्रमन्यम	एपीएसवीसी / 3921 / 03	द्वारा श्रीनिवास हैचरी, 54-13 - 7 / 1, श्रीनिवास हाउस, एस बीआई के निकट, सीथमदारा, विशाखापटणम- 530013, आं.प्र.	बीवीएससी / टी एनवीएसयू / 94	28.5.72
813	पल्लव शेखर, पुत्र श्री बालेश्वर शर्मा	बिहारएसवीसी / 2095 / 01	ग्राम-अनीशाबाद, डाक- अनीशाबाद, थाना-गरदानीबाग, पटना 800002	बीवीएससीएच / आरएयू / 00	5.12.76
814	पल्लवी भारद्वाज, पुत्र श्री जी.डी. भारद्वाज	एचपीएसवीसी / 617 / 02	ग्राम एवं डाक- बैजनाथ, जिला-कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएच / सीएसकेएचपीकेवी / 01	22.10.78
815	पामिंगचुबा, पुत्र स्व.श्री हेंडो	एनएसवीसी / 1 81 / 03	सेंट जॉन 'बी', तुएनसांग टाउन, नागालैंड- 798610	बीवीएससीएच / एएयू / 03	27.1.75
816	प्रमोद कुमार, पुत्र श्री बृजलाल	एचपीएसवीसी / 603 / 02	ग्राम एवं डाक-नामहोले, जिला- बिलासपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएच / सीएसकेएचपीकेवी / 02	4.6.78
817	पांडे विवेक विनायक राव	महाएसवीसी / 6625	ए/पी पिम्परी खुर्द, अकोट, जिला अकोला- 444101	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	1.6.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
818	पांड्या कौशिक कुमार प्रवीन चंद्र	गुजएसवीसी / 2433 / 02	3/2, अमरदीप अपार्टमेंट, मानेकलाल रोड, नवसारी, खेडा- 396445	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	9.11.79
819	पनिकर अनिता आनंद	महाएसवीसी / 6693	आनांद भवन, डाक कॉलोनी, पुराना पेडगांव रोड, परभनी	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	20.5.79
820	पंकज बसुमतारी, पुत्र श्री एच.एन.बसुमतारी	मेघएसवीसी / 199 / 02	घोरामार, डाक-गारोबधा, प. गारो हिल्स, मेघालय	बीवीएससीएच / एएयू / 02	3.02.79
821	पंकज कुमार यादव, पुत्र श्री भानु प्रताप यादव	यूपीएसवीसी / 3564 / 02	ग्राम- हांडिया, डाक-मिटटुपुर, जिला- आजमगढ़, उ.प्र.	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 02	20.7.78
822	पंकज कुमार, पुत्र श्री राम अलख पांडे	बिहारएसवीसी / 2113 / 01	ग्राम विषणुपुर बाखरी, डाक बसंतपुर बाखरी, थाना-साकरा, जिला मुजफ्फरपुर, -843121	बीवीएससीएच / आरएयू / 00	10.3.76
823	पंकज कुमार, पुत्र श्री नारायण रजक	बिहारएसवीसी / 2221 / 02	ग्राम बाखरी, डाक सामदा, थाना सौर बाजार, जिला- सहरसा	बीवीएससीएच / आरएयू / 02	17.1.78
824	पंकज कुमार, पुत्र श्री राम नाथ सिंह	बिहारएसवीसी / 2128 / 01	ग्राम मोल्दियार, टोला- पठानघाट, डाक-मोकामा, थाना- मोकामा, जिला-पटना	बीवीएससीएच / सीएसएयूएंडटी / 00	11.11.75
825	पंकज मोहन, पुत्र श्री आर.एस. सिंह	यूपीएसवीसी / 3655 / 03	233, कपूर लेन, मालदाहिया, जिला-वाराणसी	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 84	1.1.63
826	पंकज सेठ, पुत्र श्री शशि भूषण सेठ	बिहारएसवीसी / 2154 / 01	ग्राम ओरेदरु, डाक लांडुआडीह, थाना सोनाहातु, जिला-रांची	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	1.1.77
827	पप्पू कुमार, पुत्र श्री विजय शर्मा	बिहारएसवीसी / 2175 / 01	ग्राम-तिनेरी, डाक-नंदौल, थाना- मसौरी, जिला-पटना	बीवीएससीएच / एमएयू / 00	14.1.75
828	पराग पांड्या, पुत्र श्री ए.के. पांड्या	एमपीएसवीसी / 2102 / 02	एच-506, ई-7, अरेरा कॉलोनी, भोपाल	बीवीएससीएच / जीएयू / 96	20.8.72
829	परमानंद नाइक, पुत्र श्री भीमसेन नाइक	उड़ीसाएसवीसी / 1883 / 03	एटी- रेंगाली, पुरानी बस्ती, डाक-रेंगाली, जिला सम्भलपुर - 768212	बीवीएससीएच / ओयूएंडटी / 03	12.6.77
830	परमजीत सिंह, पुत्र श्री गुरदेव सिंह	पंजाबएसवीसी / 2338 / 02	3557, सेक्टर 35-डी, चंडीगढ़, 2540, सेक्टर 19-सी, चंडीगढ़	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	17.12.77

क्र.सं.	नाम	पैकी सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
831	पारीगेला मधुसूदन, पुत्र श्री मदन्ना	एपीएसवीसी / 3 893 / 02	लददेगिरी, कोडुमुरु (एम), कुर्नूल, जिला आं.प्र.	बीवीएससीएच / एनजीआरएयू / 2002	6.7.76
832	पारिखीता कुंडु, पुत्र श्री लोकनाथ कुंडु	उड़ीसाएसवीसी / 1864 / 02	एटी-बीराबरपुर, डाक- अभिमानपुर, जिला-कटक- 754035	बीवीएससीएच / ओयूएंडटी / 01	15.6.76
833	परमा नंद रजक, पुत्र श्री सदा नंद रजक	बिहारएसवीसी / 2106 / 01	ग्राम-दरियार्द, डाक गंगतामोर, थाना खड़गपुर, जिला- मुंगेर, पिन-811213	बीवीएससीएच / आरएयू / 00	16.6.01
834	परमानंद मोर्या	राजएसवीसी / 2944 / 03	बी-17, हसन पुरा, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	10.8.76
835	परमार जसवंत भाई रमेश भाई	गुजएसवीसी / 2440 / 02	75, पारस सोसायटी, शिवम सिनेमा के पीछे, मेघराज रोड, मोदासा, साबरकंठा, 393315	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	4.6.80
836	परमार उदे सिंह घेमर जी	गुजएसवीसी / 2439 / 02	टोला धोलेना, डाक जलोत्रा, पालनपुर, बनासकंठा-385001	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	1.6.79
837	परमिंदर पाल सिंह, पुत्र श्री हरजीत सिंह	पंजाबएसवीसी / 2431 / 03	194, आनंद नगर, निकट, तिपरी, पटियाला	बीवीएससीएच / पीएयू / 03	15.9.79
838	प्रवीण कुमार, पुत्र श्री सूरज भान	हरिएएसवीसी / 1769	संत नगर, पटियाला चौक, जींद	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 03	15.9.78
839	परवीन पाराशर	राजएसवीसी / 2946 / 02	मान हाउस, वार्ड न. 8, मंगरोल, बारंड, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	7.12.77
840	परवेश सिंह, पुत्र श्री आर.के. सुरिन्दरजीत सिंह	पंजाबएसवीसी / 2356 / 02	म.न. बी-34 / 7031, जस्सियां चौक, हैबोवल कलां, लुधियाना	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	5.2.80
841	पाचा राधिका, पुत्री श्री शेशइयाह नायडू	एपीएसवीसी / 3924 / 03	मुरुगल्ला (डाक), अत्माकुर (एम), नेल्लोर जिला, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एनजीआरएयू / 2002	5.8.78
842	पटेल अश्विन कुमार खोडा भाई	गुजएसवीसी / 2411 / 02	टोला मुदारदा, जैन डेरासर के निकट, मेहसाना- 384421	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	15.4.79
843	पटेल भावेश कुमार पोपट लाल	गुजएसवीसी / 2414 / 02	सी / 31, हरिसिद्धपार्क सोसायटी नवसर्जन हाईस्कूल के निकट, रानिप, अहमदाबाद- 382480	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	11.7.80
844	पटेल चंद्रकांत तलसीदास	गुजएसवीसी / 2394 / 02	9, गायत्री सोसायटी, सुखबॉग, पालनपुर, बनासकंठा- 385001	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	9.9.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
845	पटेल देवराज भाई मुला भाई	गुजएसवीसी / 2428 / 02	एटी / डाक- तेतोडा, दीसा, बनासकंठा- 385535	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	7.2.80
846	पटेल दिलीप कुमार अम्बालाल	गुजएसवीसी / 2447 / 03	एटी एवं डाक मीठाधरवा, चनास्मा, पाटन- 384229	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	12.8.79
847	पटेल हर्षद कुमार अमृतलाल	गुजएसवीसी / 2392 / 02	थाना-बंतावाड़ा, डाक चित्रसानी, पालनपुर, बनासकंठा -385010	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	9.12.79
848	पटेल हेतलबेन कीर्ति भाई	गुजएसवीसी / 2397 / 02	692-एचआईजी, एकता कॉलोन, सेक्टर न. 27, गांधीनगर- 382027	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	16.6.79
849	पटेल जीतेंद्र कुमार खीमजी भाई	गुजएसवीसी / 2416 / 02	एटी / डाक सावदी, टंकारा, राजकोट- 363650	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	11.10.78
850	पटेल कल्पेश कुमार मोहन भाई	गुजएसवीसी / 2426 / 02	एटी एवं डाक चंद्रावती, सिद्धपुर, पाटन- 384151	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	3.12.79
851	पटेल कनुभाई रामजी भाई	गुजएसवीसी / 2446 / 02	एटी एवं डाक छाला, गांधीनगर, 382355	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	1.6.80
852	पटेल किरन कुमार जोड़ताभाई	गुजएसवीसी / 2401 / 02	एटी एवं डाक दाशेला गांधीनगर	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	11.5.79
853	पटेल मनीश कुमार लक्ष्मीदास	गुजएसवीसी / 2451 / 03	बी / 3, पंचामृत डेयरी स्टाफ क्वा., लूनावाडा रोड, गोधरा, पंचमहल- 389001	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	17.4.78
854	पटेल मयूर कुमार नवनीत भाई	गुजएसवीसी / 2419 / 02	एटी एवं डाक लोछारश, राजपीपला, नर्मदा- 393150	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	22.6.80
855	पटेल नीलेश कुमार रमनलाल	गुजएसवीसी / 2452 / 03	सोमनाथ नगर सोसायटी, ब्लॉक न. ए / 87, कापड़वंज, खेड़ा- 387620	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	14.8.80
856	पटेल नीताबेन रामभाई	गुजएसवीसी / 2403 / 02	डी-1 / 604, स्पेक्ट्रम टावर्स, पुलिस स्टेडियम के सामने, शाहीबाग, अहमदाबाद-380004	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	24.10.79
857	पटेल परेश कुमार प्रभुदास	गुजएसवीसी / 2448 / 03	एटी एवं डाक- प्रेमपुर, हिम्मतनगर, साबरकंठा	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	20.3.79
858	पटेल प्रकाश कुमार नाथालाल	गुजएसवीसी / 2413 / 02	ए / 93, भावना सोसायटी पार्ट-2, पुरानी रेलवे लाइन के निकट, रानिप, अहमदाबाद- 382480	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	13.12.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	वैधानिक अर्हताएं	जन्मतिथि
859	पटेल सतीश कुमार अम्बालाल	गुजएसवीसी / 2396 / 02	एटी एवं डाक-सुनोक चतुर पुरा, उंझा, जिला- मेहसाना, पिन- 384170	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	1.6.78
860	पटेल तुषार कुमार जयंति लाल	गुजएसवीसी / 2423 / 02	एटी एवं डाक- दिनाप बंगापुरा, विसनगर, मेहसाना	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	22.7.80
861	पटेल विजय कुमार सोमा भाई	गुजएसवीसी / 2408 / 02	एटी जांडा, डाक अबवल, कापडवज खेडा- 387650	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	17.9.78
862	पटेल विजय कुमार विठ्ठल भाई	गुजएसवीसी / 2420 / 02	एटी धान्डोडी, निवास: मोती खडकी, महुघा खेडा- 387335	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	12.6.80
863	पाटिल दीपक लक्ष्मण, पुत्र श्री लक्ष्मण रामभाऊ पाटिल	एमपीएसवीसी / 2035 / 02	69, चंद्रलोक कॉलोनी, 102 गौरव अपार्टमेंट, इंदौर - 452018	बीवीएससीएच / एमपीकेवीपी / 00	5.11.71
864	पाटिल मनोज प्रहलाद	महाएसवीसी / 6626	नाईगांव, मुक्ति नगर, जलगांव- 425308	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	8.4.79
865	पाटिल राहुल भानुदास	महाएसवीसी / 6641	वर्षा निवास एवं बोरी कॉलोनी, एटी डाक परोला, जिला- जलगांव- 425111	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	31.7.79
866	पाटिल राजेंद्र दामु	महाएसवीसी / 6601	द्वारा डी.जी. पाटिल (वकील), गणेश कॉलोनी, पचोरा, तालुक पचोरा, जिला जलगांव	बीवीएससीएच / एमएयू / 01	8.8.79
867	पाटिल सत्यजीत सोमनाथ	महाएसवीसी / 6588	चित्रजीत, प्लॉट न. 29, यशवंत नगर, सरकारी रेस्ट हाउस के पीछे, तालुक पंढारपुर, जिला सोलापुर- 413304	बीवीएससीएच / एमपीकेवी / 01	1.12.77
868	पाटिल शिव कुमार रामाराव	महाएसवीसी / 6582	एटी डाक सातावे, तालुक पनहाला, जिला कोल्हापुर- 416114	बीवीएससीएच / एमपीकेवी / 01	28.3.79
869	पाटिल विलास दत्तात्रेय	महाएसवीसी / 6584	एटी डाक कोगे, तालुक कारवीर, जिला कोल्हापुर	बीवीएससीएच / एमपीकेवी / 01	10.7.79
870	पटवारी नरेंद्र कुमार छित्तुभाई	गुजएसवीसी / 2399 / 02	दरबार रोड, लालभाई शेट स्ट्रीट, राजपिपला, नर्मदा- 393145	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	10.2.80
871	पवन कुमार, पुत्र श्री चंद्र भूषण प्रसाद गुप्ता	एमपीएसवीसी / 2034 / 02	चांदबारी हनुमानमंदिर के पीछे बस स्टैंड के निकट, झांझा जिला, जामुई बिहार- 811308	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 00-01	4.3.76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
872	पवन कुमार सिंघल	राजएसवीसी / 2935 / 03	पुरानी अनाज मंडी, सवाई माधोपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	1.1.78
873	पवन कुमार, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	बिहारएसवीसी / 2185 / 01	ग्राम-काशीडीह, डाक-साकची, थाना-साकची, जिला-पूर्वी सिंघभूम	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	8.5.76
874	पेडुलवार सपना नीलकंठ	महाएसवीसी / 6651	मेडिकल कॉम्प्लेक्स, क्वा. न. डी / 7, गडचिरोली, जिला- गडचिरोली	बीवीएससीएच / एमएएफएसयू / 02	5.7.80
875	पिताबास साहू, पुत्र श्री हरिहर साहू	उड़ीसाएसवीसी / 1881 / 03	एटी-बाबाजी टोला गली, डाक- बरहामपुर-1, जिला-गंजम	बीवीएससीएच / ओयूएण्डटी / 03	20.6.76
876	पीयूष गोयल, पुत्र श्री ए.सी. गोयल	यूपीएसवीसी / 3574 / 02	78 / 3, नेशनल रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएण्डटी / 96	18.8.72
877	पीयूष कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री प्रेम नारायण सिंह	बिहारएसवीसी / 2105 / 01	ग्राम-अलीगंज, डाक-लौकाही, थाना बरहारा कोठी, जिला- पूर्णिया, पिन- 854202	बीवीएससीएच / आरएयू / 00	23.10.73
878	पोम्पी एस. मारक, पुत्री श्री बी.एम. रेची	मेघएसवीसी / 197 / 02	तेतैंगकोल, पश्चिमी गारो हिल्स, जिला- तुशा- 794001	बीवीएससीएच / एएयू / 02	18.6.76
879	पूजा तिवारी, पुत्री श्री ए.के. तिवारी	यूपीएसवीसी / 3527 / 02	12, आवास विकास, अमानीगंज, जिला- फैजाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएण्डटी / 00	25.6.78
880	पोत्तवार बालाजी कृष्ण राव	महाएसवीसी / 6662	एटी एवं डाक-शाहपुर, तालुक बेगलूर, जिला-नाडिड	बीवीएससीएच / एमएयू / 01	5.6.77
881	पोतलुरु रविकुमार, पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण	एपीएसवीसी / 3870 / 02	नरपला, डी अनंतपुर जिला- 515425, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	15.3.78
882	प्रभादीप सिंह, पुत्र श्री बलदेव सिंह	पंजाबएसवीसी / 2404 / 03	213, मेडिकल एन्कलेव, अमृतसर	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	11.1.79
883	प्रभात कुमार पांडे, पुत्र डॉ. राम सखा पांडे	बिहारएसवीसी / 2138 / 01	ग्राम-भोकरी, डाक-खाजरा, थाना -मोहानिया, जिला-भभुआ, कैमूर	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	9.12.75
884	प्रभात झा, पुत्र श्री विजयानंद झा	एमपीएसवीसी / 2082 / 02	एम.एस धारवे डिस्ट्रिक्ट मार्केट, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	1.9.77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	सैन्यिक आईएफ	जन्मतिथि
885	प्रभात कुमार जेना, पुत्र श्री राधा श्याम जेना	उड़ीसाएसवीसी /1907/03	एटी-अलुपटान, डाक- सातपदा, थाना- ब्रह्मगिरि, जिला-पुरी- 752011	बीवीएससीएच/ ओयूएण्डटी/03	22.4.77
886	प्रभात कुमार पात्रा, पुत्र श्री भुबनेश्वर पात्रा	उड़ीसाएसवीसी /1921/03	एटी/डाक- बालंगा, जिला- पुरी	बीवीएससीएच/ ओयूएण्डटी/03	15.5.77
887	प्रभु ओमप्रकाश श्रीवास्तव, पुत्र श्री ए. पी. श्रीवास्तव	एमपीएसवीसी /2130/03	एफ-85/42, 1250, दूसरा स्टॉप, भोपाल- 462003	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 77-78	4.7.55
888	प्रदीप के.आर.	केरलएसवीसी /2716/02	केपी IX/465, 'कृपा' पीजेआर आरए-59, पोथुजानम लेन, कुमारापुरम, मेडिकल कॉलेज, डाक-त्रिवेंद्रम	बीवीएससीएच/ केएयू/02	3.5.78
889	प्रदीप कुमार जी.बी. पुत्र श्री बानप्पा गौडा	कर्नाएसवीसी/ 3401	डाक नगरकाडेगी, तालुक होसनागारा, जिला शिमोगा	बीवीएससीएच/ यूएस, बंगलौर/ 02	1.11.78
890	प्रदीप कुमार एन. कोंडोजी, पुत्र श्री नागप्पा एम. कोंडोजी	कर्नाएसवीसी/ 3349	न. 331, 24वां ब्लॉक, सीपीडब्ल्यूडी क्वा., 27वां मेन, 13वां क्रॉस, एचएसआर लेआउट सेक्टर, बंगलौर-34	बीवीएससीएच/ यूएसधारवाड़/ 02	5.1.79
891	प्रदीप कुमार, पुत्र श्री लीलू राम	हरिएसवीसी/ 1744	ग्राम एवं डाक- झाल, तह.- कोसी, रिवाड़ी	बीवीएससीएच/ सीसीएसएचएयू/ 02	14.8.79
892	प्रदीप एम.ए.	केरलएसवीसी /2752/02	मंगोटिटल हाउस, अंजुमना, ममंगलम, एडापल्ली डाक, कोची-24	बीवीएससीएच/ केएयू/02	24.12.76
893	प्रदीप एस.वी.	केरलएसवीसी /2729/02	एस.वी. कॉटेज, वजूथूर, नेवयट्टिंकर डाक, त्रिवेंद्रम- 695121	बीवीएससीएच/ केएयू/02	21.5.78
894	प्रदीप मिश्रा, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा	एमपीएसवीसी /2098/02	76-सी, वैशाली नगर, अन्नूपर्णा रोड, इंदौर- 452009	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 00-01	1.1.76
895	प्रफुल्ल कुमार नाइक, पुत्र श्री विश्वमार नाइक	पंजाबएसवीसी /2399/03	2015/1, गोबिंद नगर, लुधियाना	बीवीएससीएच/ ओयूएण्डटी/ 2000	25.8.71
896	प्रजापति महेंद्र कुमार डाहयाभाई	गुजएसवीसी/ 2445/03	एटी: चंद्र नगर, दभाला, विजापुर, मेहसाना- 382865	बीवीएससीएच/ जीएयू/02	5.2.79
897	प्रकाश बाबू बी., पुत्र श्री रेड्डप्पा	एपीएसवीसी/ 3857/03	डी.न. 1-153-2, साइराम स्ट्रीट, कुडप्पा हाइवे के निकट, पाइलेर, चित्तूर जिला, आं.प्र.	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	11.6.76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
898	प्रकाश चंद्र हिमांशु, पुत्र स्व. श्री महावीर प्रसाद	बिहारएसवीसी / 2219 / 02	ग्राम-मजफारे, डाक बरद्वि, थाना-इशलामपुर, जिला- नालंदा	बीवीएससीएच/ आरएयू/ 02	26.12.72
899	प्रमोद कुमार अग्रवाल	राजएसवीसी/ 2878 / 03	48-डी, राधा नगर, मथुरा, उ.प्र.	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएण्डटी/ 91	7.1.68
900	प्रणव कुमार, पुत्र श्री जय प्रकाश नारायण सिंह	बिहारएसवीसी / 2218 / 02	ग्राम-मझौल, डाक-मझौल, टीला- मथुरामल, जिला- बेगुसराय	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 01	16.4.77
901	प्रसन्न कुमार रथ, पुत्र श्री प्रहलाद रथ	उड़ीसाएसवीसी / 1880 / 78	एटी-पीताम्बर पुर, डाक- कुडईहाट, वाया- बांगुरीगान, जिला- पुरी- 752108	बीवीएससीएच/ ओयूएण्डटी/ 03	7.7.78
902	प्रसन्ना कुमार दास, पुत्र श्री फकीर चरन दास	उड़ीसाएसवीसी / 1857 / 02	द्वारा फकीर चरन दास, एटी- चाला, डाक एवं जिला- जगतसिंगपुर- 754103	बीवीएससीएच/ ओयूएण्डटी/ 01	11.6.78
903	प्रशांख जे.के. पुत्र श्री जयन्ना टी.एस.	कर्नाएसवीसी/ 3419	125, दूसरा मेन, केएसआरटीसी लेआउट, दूसरा फेस, जेपी नगर, बंगलौर 560078	बीवीएससीएच/ यूएस, बंगलौर/ 02	6.5.79
904	प्रसून दूबे, पुत्र श्री देवीदत्त दूबे	एमपीएसवीसी / 2092 / 02	महामना स्कूल के निकट, बिचिया, शेवा	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	17.3.78
905	प्रताप रेड्डी बी.टी., पुत्र श्री थिपइयाह रेड्डी	कर्नाएसवीसी/ 3330	थिमइयाह नायडू बिल्डिंग, मेन रोड, होसादुर्गा, चित्रदुर्गा जिला	बीवीएससी/ यूएस स, बंगलौर/ 81	18.2.57
906	प्रतिमा कुमारी, पुत्री श्री मथुरा नंद प्रसाद	बिहारएसवीसी / 2198 / 02	ग्राम-औरिया, डाक-औरिया, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग	बीवीएससीएच/ बीएयू/ 01	13.4.76
907	प्रतिमा कुमारी, पुत्री श्री राम प्रकाश राय	बिहारएसवीसी / 2141 / 01	ग्राम-धरपाखना, डाक-रांची, थाना-लालपुर, जिला-रांची	बीवीएससीएच/ बीएयू/ 01	10.1.75
908	प्रवा मयंगबाम	मणिएसवीसी/ 377 / 02	केइशमथोंग इरोम, पुखरी, मापल, इम्फाल	बीवीएससीएच/ एएयू/ 02	21.12.78
909	प्रवीण दत्तशर्मा, पुत्र श्री आर.पी. शर्मा	यूपीएसवीसी/ 3579 / 02	म.न. 1-2, सेक्टर-12, नौएडा, उ.प्र.	बीवीएससीएच/ सीसीएसएचएयू/ 02	28.10.78
910	प्रीत केशिन्दर सिंह, पुत्र श्री इंदरवीर सिंह	संज्जबएसवीसी / 2355 / 02	780, हरनेक नगर, अड्डा डाखा, मंडी मुल्लनपुर, लुधियाना- 141101	बीवीएससीएच/ पीएयू/ 02	15.12.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
911	प्रीथी एम.एस.	केरलएसवीसी / 2766 / 02	के.पी.VIII / 70ए, शरण्य निवास कल्लार थल्ला, काराकोनम डाक, त्रिवेंद्रम-695504	बीवीएससीएच / टीएनवीएसयू / 02	4.12.77
912	प्रीति अरोड़ा, पुत्री श्री पी.पी. अरोड़ा	यूपीएसवीसी / 3663 / 03	ए-222, मंगल अपार्टमेंट, वसुंधरा एन्कलेव, दिल्ली-16	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 95	24.9.70
913	प्रहलाद कुमार मीना	राजएसवीसी / 2970 / 03	ग्राम-हिचेर, डाक-हरिगढ़ खानपुर, झालावाड़, राजस्थान	बीवीएससीएच, आरएयू / 03	4.9.73
914	प्रेमजो पलथिंगल	केरलएसवीसी / 2732 / 02	पलथिंगल हाउस, आर.सी. चर्च के निकट, डाक कट्टूर, थिसूर-680702	बीवीएससीएच / केएयू / 02	1.3.78
915	प्रेम्मानंद सतपथी, पुत्र श्री पनचाना सतपथी	उड़ीसाएसवीसी / 1870 / 02	एटी / डाक- राउतपदा, वाया- बेगुनिया, जिला-खुर्दा	बीवीएससीएच / ओयूएंडटी / 01	23.6.78
916	प्रेम नारायण जाटव, पुत्र श्री रतनलाल जाटव	एमपीएसवीसी / 2060 / 02	12 / 132, कमद रोड, इंद्रगढ़, दतिया- 475675	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	18.11.74
917	प्रीतम सरकार, पुत्र श्री हरिपद सरकार	त्रिपुरावीसी / 145 / 02	2 न., क्षुदीराम पल्ली, डाक- अमरपुर, त्रिपुरा (दक्षिण)	बीवीएससीएच / बीसीकेवीवी / 93	2.12.70
918	प्रीति गंगवार, पुत्री श्री ओ.पी. गंगवार	यूपीएसवीसी / 3563 / 02	437, हार्टमैन कॉलेज के सामने, अशरफ खान, चावनी, इज्जतनगर	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 02	26.7.75
919	प्रमोद कुमार, पुत्र श्री राज कुमार प्रसाद	बिहारएसवीसी / 2123 / 01	ग्राम- बरांडी, डाक- बरांडी, थाना- राहुई, जिला- नालंदा	बीवीएससीएच / आरएयू / 00	13.4.78
920	पुनम कुमारी, पुत्री श्री भूषण कुमार चौधरी	बिहारएसवीसी / 2196 / 01	ग्राम-शुभकरन गंज, डाक- दौलतपुर, थाना-आराह, जिला- भोजपुर	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	28.7.75
921	पुनीत पाराशर, पुत्र श्री हरि कृष्ण	पंजाबएसवीसी / 2359 / 02	मौह. पठाकन, नवां शहर- 144514	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	2.6.74
922	पूरन राम सुथार	राजएसवीसी / 2919 / 03	ग्राम एवं डाक- फेफाना, नोहर, हनुमानगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	17.4.72
923	पूर्णंद नारायण डे, पुत्र श्री नृपेंद्र नारायण डे	त्रिपुरावीसी / 139 / 02	9 / 3, कृष्णा नगर, नूतन पल्ली, अगरतला, त्रिपुरा (पश्चिम)	बीवीएससीएच / बीसीकेवीवी / 79	5.4.55
924	पुरोहित कैलाश चंद	राजएसवीसी / 2896 / 02	डी-142, आनंद विहार, रेलवे कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / उदयपुरवि / 68	15.11.45

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
925	पुरुषोत्तम कुमार माझी, पुत्र श्री महेश्वर प्रसाद माझी	बिहारएसवीसी / 2125 / 01	ग्राम-हृदयगंज, डाक-कटिहर, थाना- कटिहर, जिला-कटिहर	बीवीएससीएएच/ आरएयू/ 99	7.8.75
926	पुषेंद्र कुमार	राजएसवीसी/ 2959 / 03	132-के.वी.जी.एस.एस.आर.एस.ई. बी. सदूलपूर, चुरु, राजस्थान	बीवीएससीएएच/ आरएयू/ 03	11.7.75
927	पुषेंद्र सिंह, पुत्र श्री मनिराज सिंह	एमपीएसवीसी / 2053 / 02	ग्राम-तिवारी गाम, डाक- देओतालाप, जिला-रावा	बीवीएससीएएच/ जेएलएनकेवीवी/ 00-01	20.7.77
928	पुट्टप्पा डी.आर., पुत्र श्री डोडमाने राचप्पा	कर्नाएसवीसी/ 3382	डाक येतकुंडली, तालुक शुटीकोपा सागर, जिला शिमोगा	बीवीएससीएएच/ यूएसधरवाड/ 02	20.7.79
929	पुट्टाराजू आर.सी., पुत्र श्री चिक्कन्ना	कर्नाएसवीसी/ 3336	डाक गांडसी, तालुक अरासीकेरे, जिला हसन	बीवीएससीएएच/ यूएसधरवाड/ 02	13.4.80
930	कुरैशी नियाज अहमद	महाएसवीसी/ 6575	प्लॉट न. 118, राजौड़ लेआउट, आनंदनगर, पुलिस लाइन के पीछे, टाकली, नागपुर	बीवीएससीएएच/ नागपुरवि.वि/ 65	18.12.39
931	आर. श्रीधर, पुत्र श्री रामइयाह	एपीएसवीसी/ 3928 / 03	कल्लेपल्ली, बेजांकी (एम), करीमनगर जिला- 505528, आं. प्र.	बीवीएससीएएच/ एएनजीआरएयू/ 2000	10.4.69
932	आर. किशोर कुमार, पुत्र श्री आर. राजेश्वर राव	उड़ीसाएसवीसी / 1860 / 02	प्लेट न.102, ब्लॉक-ई, श्रीराम विहार अपार्ट., नयापल्ली, भुवनेश्वर- 751012	बीवीएससीएएच/ एएनजीआरएयू/ 00	6.4.77
933	आर.आर. कुमार, पुत्र श्री मदन प्रसाद	यूपीएसवीसी/ 3594 / 02	प्रसाद क्लिनिक, सिक्ता, डाक सिक्ता बाजार, जिला- चम्पारन	बीवीएससीएएच/ जीवीपीयूएंडटी/ 02	15.9.78
934	आर. रंगास्वामी पोलेपल्ली, पुत्र श्री पेड्डा रंगइयाह	एपीएसवीसी/ 3869 / 02	द्वारा एस.एन.जी. स्वामी मेडिकल स्टोर, कोमारोल, प्रकासम जिला- 523373	बीवीएससीएएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	1.7.79
935	आर.एस. राजमनि, पुत्र श्री राम सेवक सिन्हा	बिहारएसवीसी / 2220 / 02	ग्राम-बैरागी, डाक-आर.एस. गया, थाना-डेल्टा, जिला-गया	बीवीएससीएएच/ आरएयू/ 02	1.12.73
936	आर.एस. उपाध्याय, पुत्र स्व. श्री जी.एस. उपाध्याय	यूपीएसवीसी/ 3625 / 02	बी-22, मोती कुंज, मथुरा	बीवीएससीएएच/ जेएनकेवीसीवी/ 02	27.10.46
937	रबीन्द्र भारती, पुत्र श्री महेंद्र भारती	बिहारएसवीसी / 2178 / 01	ग्राम-खुतान, डाक-खुतान, थाना-खुतान, जिला- भोजपुर	बीवीएससीएएच/ आरएयू/ 01	6.10.74

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
938	रबीन्द्र कुमार, पुत्र श्री सुरेंद्र प्रसाद	बिहारएसवीसी / 2129/01	ग्राम-मोहन नगर, शास्त्री नगर, डाक- छपरा, थाना- छपरा, जिला- छपरा	बीवीएससीएच / सीएसएयूएंडटी / 01	30.10.76
939	रचा नीलकंठ, पुत्र श्री रामा मूर्ति	एपीएसवीसी / 3860/02	क्वा.न. बीई 210, 'डी' कॉलोनी, केपीटीएस, पलौंचा, खम्मम जिला- 507115, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	18.8.78
940	राधाकृष्ण पी., पुत्र श्री शंकर	एपीएसवीसी / 3898/02	क्वा.7, ब्लॉक 14, ए.आर. पुलिस लाइंस, रेडियोस्टेशन के सामने, आदिलाबाद 504001 आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	24.7.78
941	राधे श्याम मीन	राजएसवीसी / 2958/03	ग्राम एवं डाक-बालामेरी, तह.- माहवा, दौसा, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	20.7.75
942	राघवेंद्र ए.जी., पुत्र श्री गुरुसिद्ध शेदटी	कर्नाएसवीसी / 3351	न. 587, दूसरा क्रॉस, 7'ई' मेन, स्टेज, हेब्ल, मैसूर-16	बीवीएससीएच / यूएस.बंगलौर / 02	26.8.78
943	रघुराम गौडा, पुत्र श्री वेंकटेश के.	कर्नाएसवीसी / 3413	न. 1440/1, चौथा क्रॉस, 13वां वार्ड, पीसी एक्सटेंशन, कोलार- 563101	बीवीएससी / यूएस स.बंगलौर / 80	17.8.55
944	राहुल आर्या, पुत्र श्री वैद्यनाथ प्रसाद आर्या	वीसीआई / 2454/04	आनंदग्राम स्ट्रीट न. 3, मोड़ाबाड़ी मैदान, उत्तरी रांची, झारखंड	बीवीएससीएच / बीएयू / 03	21.7.79
945	राहुल देव, पुत्र श्री प्रमोद कुमार	एचपीएसवीसी / 650/02	ग्राम एवं डाक-किलबा, थाना- शंगाल, जिला-किन्नौर, हि.प्र.	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	1.1.77
946	राहुल गौतम, पुत्र श्री रामसेवक गौतम	एमपीएसवीसी / 2111/03	आसवाला सॉ मिल, मानपुर, लाल बाड़ा, जिला- बालाघट	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	29.8.77
947	राज कुमार अहलावत, पुत्र श्री सूरज भान	हरिएसवीसी / 1741	118, सेक्टर 15-ए, हिसार	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 02	14.6.78
948	राज कुमार सुमन	राजएसवीसी / 2978/03	रेलवे बो.न.-एल-ए, उत्तर रेलवे वर्कशॉप, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	8.8.73
949	राजा सेकर, पुत्र श्री पी. अंदियापन	एंडएनएसवी सी / 87/02	द्वारा पी.अंदियापन, वर्क असि., अंडमान पीडब्ल्यूडी, बैम्बू फ्लैट, दक्षिणी अंडमान	बीवीएससी / टी एनएंडएएसयू / 02	28.2.74
950	राजन, पुत्र श्री हरीश चंदर	हरिएसवीसी / 1748	130/14, मोह. डोगरान, हिसार	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 02	3.1.79
951	रजनी के.काला	केरलएसवीसी / 2712/02	हरि निवास, वड्डकेविला डाक, कोल्लम- 691010	बीवीएससीएच / केएयू / 02	21.10.76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
952	राजापंडी एम. पुत्र श्री मुरुगेशन	एपीएसवीसी / 3842 / 02	2-93, सवालियापुरम, गुंदूर जिला आं. प्र.	बीवीएससी / टी एनवीएसयू / 2002	10.5.75
953	राजीव कुमार, पुत्र श्री बिद्यानागर गरई	बिहारएसवीसी / 2172 / 01	ग्राम-सलयपुर, डाक तेजहेरा, थाना-अकंगरसराय, जिला-नालंदा	बीवीएससीएच / केकेवीपी / 01	8.6.78
954	राजीव रंजन, पुत्र श्री चंद्रानंद ठाकुर	बिहारएसवीसी / 2097 / 01	ग्राम-बठनाहा, डाक-साहासौल, थाना-बसानही, जिला-सहरसा	बीवीएससीएच / आरएयू / 00	2.10.74
955	राजीव एम.	केरलएसवीसी / 2709 / 02	म.न. 2 (कोट्टालिल), फील्ड व्यू कॉलोनी, चेवायूर, कोजीकोड- 673017	बीवीएससीएच / केएयू / 02	3.1.77
956	राजेंद्र कुमार गुप्ता	राजएसवीसी / 2920 / 03	ग्राम एवं डाक-मोठपुर, तह.-अनु, बारान, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	9.5.76
957	राजेंद्र कुमार सक्सेना, पुत्र श्री पी.एन. वर्मा	वीसीआई / 2415 / 03	सहायक प्रोफेसर, सेंटर फॉर बायो मेडिकल इंजी, आईआई टी, हौस खास, नई दिल्ली-16	बीवीएससीएच / पीएयू / 67	23.4.43
958	राजेंद्र कुमार शर्मा, पुत्र श्री केवल प्रसाद शर्मा	एमपीएसवीसी / 2054 / 02	457, गोयल नगर, जी-1, न्यू इंडिया हाउस, इंदौर- 450002	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 76-77	1.5.44
959	राजेंद्रन थॉमस	केरलएसवीसी / 2683 / 02	कोचेट्टोनिल हाउस, पीची डाक, थिसूर- 680653	बीवीएससीएच / केएयू / 02	26.12.77
960	राजेश भाटिया	एचपीएसवीसी / 648 / 02	ग्राम एवं डाक- बालूगोला, जिला-कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएच / सीएसकेएचपीकेवी / 02	28.6.79
961	राजेश के. असरानी, पुत्र श्री बशेशर नाथ	एचपीएसवीसी / 642 / 02	713, सेक्टर-15ए, हिसार-125001, हरियाणा	बीवीएससीएच / एचएयू / 89	11.10.65
962	राजेश कुमार द्विवेदी, पुत्र श्री सरत चंद्र द्विवेदी	बिहारएसवीसी / 2130 / 01	ग्राम-विष्णुपुरा, डाक-साकरी, थाना-अर्बल, जिला- जहानाबाद	बीवीएससीएच / आरएयू / 98	29.11.68
963	राजेश कुमार कवि, पुत्र श्री बसंत कुमार कवि	उड़ीसाएसवीसी / 1879 / 03	एटी: मिश्रापदा छाक, डाक एवं जिला- अंगुल- 759122	बीवीएससीएच / ओयूएंडटी / 03	23.5.78
964	राजेश कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री अवधेश कुमार सिंह	बिहारएसवीसी / 2148 / 01	ग्राम-रंजनपुरा, डाक-रंजनपुरा, थाना-हसनपुरा, जिला-सीवन	बीवीएससीएच / ओयूएंडटी / 01	12.5.74

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
965	राजेश कुमार, पुत्र श्री अमर लाल	पंजाबएसवीसी /2432/03	राधा स्वामी कॉलोनी, गली न.5, फाजिल्का (पंजाब), जिला-फिरोजपुर-152123	बीवीएससीएच / पीएयू/01	25.3.77
966	राजेश रोशन मीना	राजएसवीसी /2873/02	ग्राम/डाक-शंकदा, तह. मरालनादूनगर, सवाईमाधोपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू/00	10.7.75
967	राजेश्वर प्रसाद यादव, पुत्र स्व. श्री देवनंदन प्रसाद यादव	बिहारएसवीसी /2120/01	ग्राम-आरान, डाक-आरान, थाना-बिराह, जिला-सहरसा	बीवीएससीएच / आरएयू/76	2.1.39
968	राजेश्वर सिंह, पुत्र श्री केशव सिंह	यूपीएसवीसी /3606/02	विमल निकेतन, अतरा रोड, बाबेरु जिला- बांदा	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 85	8.2.66
969	राजिन्दर कुमार, पुत्र श्री परस राम	पंजाबएसवीसी /2344/03	ग्राम एवं डाक बेगमपुर, थाना-बालाघौर, जिला- नवा शहर	बीवीएससीएच / पीएयू/02	3.3.75
970	राजी रवीन्द्रन	केरलएसवीसी /2697/02	लक्ष्मी मय्यानंद डाकघर, कोल्लम- 691303	बीवीएससीएच / केएयू/02	31.5.79
971	राजीव कुमार शर्मा, पुत्र श्री सुरेंद्र प्रसाद शर्मा	एमपीएसवीसी /2115/03	135, रेडियो कॉलोनी, इंदौर-452001	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	1.6.78
972	राजीव शर्मा, पुत्र श्री रामसेवक शर्मा	एमपीएसवीसी /2033/02	एम.एल.डी. स्कूल के निकट, अम्बाहं, मुरैना	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 00-01	30.6.76
973	राजीव उपाध्याय, पुत्र श्री के.सी. उपाध्याय	यूपीएसवीसी /3618/02	25/240, न्यू कॉलोनी, जिला-देवरिया	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 84	1.7.62
974	राजीव कुमार श्रीवास्तव	राजएसवीसी /2876/02	द्वारा श्री सुंदर लाल सोमानी, मैनग्रोप, भीलवाड़ा, राजस्थान	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 94	1.12.71
975	राजकुमार गढ़पायले, पुत्र श्री ई.यू. गढ़पायले	एमपीएसवीसी /2119/03	एफ-108/52, 5 न. स्टॉप, शिवाजिंग, भोपाल-462016	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 00-01	4.2.75
976	राजकुमार कुर्रे, पुत्र श्री नरेंद्र कुर्रे	एमपीएसवीसी /2120/03	श्री वसंत कुर्रे, 114/3, उत्तरी मुसाखेड़ी, इंदौर- 452018	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 00-01	15.8.77
977	राजमने शुभांगी उत्तम	महाएसवीसी /6691	एटी डाक मरदी, तालुक मान, जिला सतारा	बीवीएससीएच / एमएफएसयू/02	7.7.80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
978	रजनीश चंदर, पुत्र श्री ओम प्रकाश	एचपीएसवीसी / 633/02	म.न. 76, वार्ड नं. 3, प्रताप नगर, हमीरपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएच / सीएसकेएचपीकेवी / 02	9.6.78
979	रजनीश शर्मा, पुत्र श्री हरीश कुमार	पंजाबएसवीसी / 2349/02	89/2, गुरु नानक नगर, स्पोर्ट्स कॉलेज के सामने, केपीटी रोड, जालंधर	बीवीएससीएच / पीएयू/01	23.10.78
980	राजू एस.	केरलएसवीसी / 2764/02	म.न. 111/491, दूकुपलम, करुणापुरम, उदुमपचोला, इडुक्की- 627115	बीवीएससी / टीएन वीएसयू/96	15.5.70
981	राजुल सक्सेना, पुत्र श्री आर.सी. सक्सेना	यूपीएसवीसी / 3596/02	वी-42, राजेंद्र नगर, बरेली	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएण्डटी / 02	1.7.78
982	राज्य लक्ष्मी वीरंकी, पुत्री श्री कोटेश्वरदा राव	एपीएसवीसी / 3 872/02	वीरांकीवारीपलेम, काउनीकिवा रिपलेम (डाक), नागरम (एम), गुंटूर जिला आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	6.6.78
983	राकेश कुमार चितौरा	राजएसवीसी / 2910/03	ग्राम/डाक नामना, बूंदी, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू/03	30.4.77
984	राकेश कुमार चितौरा, पुत्र श्री महावीर प्रसाद चितौरा	वीसीआई / 2449/04	ग्राम/डाक नमाना, जिला- बूंदी, राजस्थान- 323022	बीवीएससीएच / आरएयू/01	30.4.77
985	राकेश कुमार शर्मा	राजएसवीसी / 2900/02	ग्राम-चेनपुरा, डाक-सतपुड़ा, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 02	28.12.77
986	राकेश कुमार, पुत्र श्री रघबीर दास	पंजाबएसवीसी / 2428/03	ग्राम एवं डाक-खन्ना वाया-अमलोह, फतेहगढ़ साहिब	बीवीएससीएच / पीएयू/03	
987	राकेश पुरोहित	राजएसवीसी / 2940/03	पंचायत समिति के सामने, लछमनगढ़, सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू/03	22.11.76
988	राकेश ठाकुर, पुत्र श्री मेहर चंद	एचपीएसवीसी / 646/02	ग्राम-बधर, डाक-राखोह, तह-सरकाघाट, जिला-मंडी, हि.प्र.	बीवीएससीएच / सीएसकेएचपीकेवी / 02	9.11.79
989	राखे अजय मधुकर राव	महाएसवीसी / 6642	अम्बिका निवास, 27, जिला परिषद कॉलोनी, माले गांव रोड, नांडेड- 431605	बीवीएससीएच / एमएफएसयू/02	7.4.80
990	राखी के.आर.	केरलएसवीसी / 2726/02	अक्षरा, रवि वर्मा लेन, डाक अटिंटंगल, त्रिवेंद्रम-695101	बीवीएससीएच / केएयू/02	20.5.78
991	राखी, पुत्री श्री मनोरंजन प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी / 2167/01	ग्राम- पहाड़ीचाक, डाक-सोनपुर, थाना-सोनपुर, जिला सारन	बीवीएससीएच / बीएयू/01	29.6.76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
992	राम दास	राजएसवीसी / 2891 / 02	इंचार्ज, सरकारी पशु चिकित्सालय, चोरीमाना, बाड़मेर, राजस्थान	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 96	1.4.72
993	राम नरेश कुशरो, पुत्र श्री गोपाल प्रसाद कुशरो	एमपीएसवीसी / 2061 / 02	ग्राम- चतुवरमार, डाक-कटरा, जिला-मांडला, म.प्र.	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	25.6.75
994	राम प्रवेश राम, पुत्र श्री अमीचंद राम	बिहारएसवीसी / 2157 / 01	ग्राम-बेरैठा, डाक-खरतारी, थाना- चिरइया, जिला- मोतीहारी	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	26.1.74
995	राम प्रवेश कुमार, पुत्र श्री शिव सहाय प्रसाद	बिहारएसवीसी / 2228 / 02	ग्राम-मखदूमपुर पारथु, डाक- मखदूमपुर पारथु, थाना- अकंगर सराय, जिला-नालंदा	बीवीएससीएच / डब्ल्यूबीयूएंडएफ एसयू / 00	1.3.77
996	राम प्रवेश कुमार, पुत्र श्री बोध नारायण प्रसाद	बिहारएसवीसी / 2216 / 02	ग्राम-बनारसी बीघा, डाक- बनारसी बीघा, थाना- इसलामपुर, जिला- नालंदा	बीवीएससीएच / आरएयू / 01	12.6.73
997	रामा मोहन ए.एच., पुत्र श्री नरसइयाह एम.	कर्नाएसवीसी / 3412	सहायक निदेशक, सेंट्रल सीमन कलेक्शन सेंटर, बिरुर	बीवीएससी / यूएए स, बंगलौर / 77	23.11.51
998	रमन कुमार, पुत्र श्री चरनजीत	पंजाबएसवीसी / 2406 / 03	म.न. बी-VII / 148, गारठोली, मौहल्ला, पठानकोट-145001	बीवीएससीएच / पीएयू / 03	17.6.78
999	रमन गौड आर.बी., पुत्र श्री एच. भोजप्पा	कर्नाएसवीसी / 3339	डाक विगातेरी, टोला हरप्पनहल्ली, जिला दावणगेरे- 583127	बीवीएससीएच / यूएसधारवाड़ / 02	5.5.80
1000	रमावथ सिवशंकर नाइक, पुत्र श्री गोपाल नाइक	एपीएसवीसी / 3896 / 02	पी.एच.सी. पामुडुर्थी, बुक्कापटणम (एम), अनंतपुर जिला, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एनजीआरएयू / 2002	20.5.78
1001	रामभाऊ बागेल, पुत्र श्री हेतसिंह बेगेल	एमपीएसवीसी / 2036 / 02	146, स्वर्णकार कॉलोनी, विदिशा- 484001	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 00-01	5.6.74
1002	रमेश बयादगी गुरुपदप्पा, पुत्र श्री आदिवेप्पा बयादगी	कर्नाएसवीसी / 3333	बयादगी, हावेरिड जिला 581106	बीवीएससीएच / यूएसधारवाड़ / 02	1.6.79
1003	रमेश चंद्र बंशकार, पुत्र स्व. श्री सुक्के बंशकार	एमपीएसवीसी / 2064 / 02	ग्राम-राजापुर, डाक-लाडवारी, जिला-टीकमगढ़, म.प्र.	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	15.7.63
1004	रमेश एच.एस., पुत्र श्री सोमाशेट्टी एच.	कर्नाएसवीसी / 3378	होलालागुड, डाक अलाढली, मल्लीपटना होबली, अराकल गुड तालुक, हसन जिला	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	13.4.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1005	रमेश कुमार वर्मा, पुत्र श्री दीनदयाल वर्मा	एमपीएसवीसी /2125/03	श्यामलाल अहिरवार रेडियो कॉलोनी, छतरपुर, म.प्र.- 497001	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 00-01	16.4.77
1006	रामी रेड्डी तिव्यागुरु, पुत्र श्री साम्बी रेड्डी	एपीएसवीसी/ 3882/02	मोडुकुरु, त्तुंदुरु (एम), गुंदूर जिला- 522318, आं.प्र.	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	2.1.79
1007	रामीरेड्डी कृष्णा वेनी, पुत्री श्री आर. गंगी रेड्डी	एपीएसवीसी/3 849/02	रामीरेड्डीपल्ली, वेमपल्ली (एम), कुडप्पा जिला- 516321, (आं.प्र.)	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	4.8.77
1008	राम कुमार शर्मा, पुत्र श्री कामता प्रसाद शर्मा	एमपीएसवीसी /2047/02	41, गायत्री बिहार, थाटीपुर, ग्वालियर- 474001	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 00-01	2.3.77
1009	राम प्रकाश यादव, पुत्र श्री. आर.के.एस. यादव	यूपीएसवीसी/ 3570/02	ग्राम-सागरपुर, डाक- जहूराबाद, जिला-गाजीपुर	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएण्टी/ 02	25.8.78
1010	रामचंद्रप्पा एस.वी., पुत्र श्री वेंकटास्वामी	कर्नाएसवीसी/ 3322	श्रीनिधि नीलया, विजय नगर एक्सटेंशन, रेलवे गेट के निकट, चित्रदुर्गा- 577501	बीवीएससी/यूए स.बंगलौर/79	3.2.54
1011	रनबीर कुमार, पुत्र श्री देवनाथ प्रसाद	बिहारएसवीसी /2214/02	ग्राम-काजीचाक, डाक- रामनाथपुर, थाना-सिरमेर, जिला- नालंदा	बीवीएससीएच/ आरएयू/02	2.8.72
1012	रनबीर सिंह, पुत्र श्री गुरुमोहिंदर सिंह	वीसीआई/ 2406/03	640, कृष्णा नगर, गुरदासपुर, पंजाब- 143521	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	9.11.77
1013	रनबीर सिंह, पुत्र स्व. श्री रामपाल सिंह	यूपीएसवीसी/ 3619/02	1795/बी, टीए कॉलोनी, पंतनगर, यू.एस. नगर, यू.ए.	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएण्टी/ 00	12.11.57
1014	रनबीर सिंह, पुत्र गुरुमोहिंदर सिंह	पंजाबएसवीसी /2347/02	640/4, कृष्णा नगर, गुरदासपुर, पंजाब- 143521	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	9.11.77
1015	रनधीर सिंह, पुत्र श्री अमर सिंह	पंजाबएसवीसी /2398/99	म.न. 32, द्वारा डॉ. के.सी. चौधरी, सतगुरु नगर, लुधियाना	बीवीएससीएच/ एचएयू/98	14.11.74
1016	रानी गोपी नाथ वी.	केरलएसवीसी /2724/02	लक्ष्मी विहार, कुरुन्थोटी लेन, एनसीसी रोड, पुमालियूकोनम, पेरुकाडा डाक, त्रिवेंद्रम 695005	बीवीएससीएच/ केएयू/02	3.12.78
1017	रंजन कुमार, पुत्र श्री ब्रमदेव पंजियारा	बिहारएसवीसी /2153/01	ग्राम-माकवा, डाक-मागवा, थाना-तारापुर, जिला-मुंगेर	बीवीएससीएच/ बीएयू/01	25.6.74

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1018	रंजना सूद, पुत्र श्री करन चंद	एचपीएसवीसी / 632 / 02	ग्राम एवं डाक सुजानपुर, तिहरा, मेन बाजार, हमीरपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएच / सीएसकेएचपीकेवी / 02	25.2.78
1019	रंक. शांतिलाल गोविंदभाई	गुजएसवीसी / 2413 / 02	एटी- मेघवाड़, जाम-कांडोराना, राजकोट	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	25.11.79
1020	राओते यादओ विठलराव	महाएसवीसी / 6598	प्लॉट न.61, नीमा भवन के पास, गणेश नगर, नांडेड कॉलेज वेट.सा.एंडए.एच., परभनी	बीवीएससीएच / पीकेवी / 83	3.7.57
1021	रश्मि गर्ग, पुत्री श्री एस.के.गर्ग	हरिएसवीसी / 1 767	57-एस, मॉडल टाउन, हिसार	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 93	31.10.70
1022	राजौड़ सुभाष, पुत्र श्री किशन	एपीएसवीसी / 3910 / 03	वागाई टांडा, इंद्रावल्ली (डाक एवं मौह), आदिलाबाद जिला- 504311, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एनजीआरएयू / 2002	5.9.76
1023	राउत विजय सिंह भिकोबा	महाएसवीसी / 6678	एटी डाक मरियाइचीवाडी, तालुक खंडाला, जिला- सतारा	बीवीएससीएच / केकेवी / 75	19.6.76
1024	रवि अम्बोथु, पुत्र श्री विधिया	एपीएसवीसी / 3 912 / 03	वीरलाथड्डागंडा (ग्राम), पेरूर (डाक), अनुमूला (एम), नालगोंडा जिला- 508202 आं.प्र.	बीवीएससीएच / एनजीआरएयू / 2002	18.6.78
1025	रवि के.वी., पुत्र श्री वेंकटनासयणप्पा	कर्नाएसवीसी / 3366	न.106, सोपिनाबीडी, कंडावरपेट, चिक्कबल्लापुर, कोलार जिला -562101	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	20.7.78
1026	रवि कुमार मित्तल	राजएसवीसी / 2916 / 03	द्वारा दुर्गा प्रसाद राम सेवक, सर्राफा बाजार, बडी धौलपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	7.4.77
1027	रवि पतियाल, पुत्र श्री रमेश पतियाल	एचपीएसवीसी / 613 / 02	ग्राम थाडोह, डाक भटवारा, तह- घुमारविन, जिला- बिलासपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएच / सीएसकेएचपीकेवी / 02	11.3.79
1028	रवि कुमार पी.एच., पुत्र श्री हनुमइयाह	कर्नाएसवीसी / 3353	पारेडोड्डी, रामपुरा डाक, चन्नापालना तालुक, बंगलौर ग्रामीण	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	29.5.79
1029	रवि कुमार वी.पी., पुत्र श्री बी.एम. पुट्टावीरइयाह	कर्नाएसवीसी / 3387	बल्लागेरे गांव, पूरीगली डाक, मलावल्ली तालुक, मांड्या जिला 571453	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	6.9.78
1030	रवि कुमार एम.	कर्नाएसवीसी / 3364	मल्लंदाहल्ली ग्राम, मादेशी डाक, कोलार तालुक एवं जिला- 563101	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	9.6.77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1031	रविन्दर सपल, पुत्र श्री गुरचरन सिंह सप्पल	पंजाबएसवीसी /2425/03	33, खालसा कॉलेज, अमृतसर	बीवीएससीएच / पीएयू/02	29.7.78
1032	रवीन्दर शर्मा, पुत्र श्री जगदीश शर्मा	एचपीएसवीसी /618/02	ग्राम एवं डाक-चुराग, थाना-कारसोग, जिला- मंडी, हि.प्र.	बीवीएससीएच / सीएसकेएचपीकेवी /01	2.12.73
1033	रवीन्दर सिंह बरार, पुत्र श्री नाहर सिंह	पंजाबएसवीसी /2408/03	ग्राम एवं डाक- खोटे, थाना-निहाल सिंह, जिला- मोगा	बीवीएससीएच / जीएयू/02	6.9.78
1034	रीना शैली कुजूर, पुत्री श्री बालासिंघास कुजूर	बिहारएसवीसी /2190/01	ग्राम सतरंजी, डाक हुलहुंडा, थाना हटिया, जिला रांची	बीवीएससीएच / बीएयू/01	16.4.76
1035	रेखा कुमारी पोखराना	राजएसवीसी /2969/03	द्वारा श्री एस.आर. जैन क्लॉथ मर्चेट, सतारा बाजार, बिजय नगर, अजमेर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू/03	3.9.75
1036	रेशमा जैन, पुत्री स्व. श्री ओ.सी. जैन	यूपीएसवीसी /3540/02	फ्लैट न. 1, सी.एस. कॉलोनी, बीएचयू, वाराणसी, उ.प्र.	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी /00	10.7.76
1037	ऋतु ग्रोवर, पुत्री श्री नरेश ग्रोवर	पंजाबएसवीसी /2421/03	द्वारा ग्रोवर बुक डिपो, रेलवे रोड, कोटकपुरा- 151204	बीवीएससीएच / पीएयू/02	4.7.78
1038	ऋतु सिंह, पुत्री श्री राजेंदर सिंह	हरिएसवीसी /1763	334, एचबीसी, जींद	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू /01	26.3.78
1039	रियाज डी.बी., पुत्र श्री बुदेंड साब. पी.	कर्नाएसवीसी /3385	डोड्डाघट्टा डाक, चन्नागिरि तालुक, दावणगेरे जिला	बीवीएससीएच / यूएस.बंगलौर /02	18.5.78
1040	रोबिन जी. राज	केरलएसवीसी /2703/02	थारंग पेरेटिल, मूंगोडे, डाक वरकला, त्रिवेंद्रम- 695144	बीवीएससीएच / केएयू/02	3.3.78
1041	रोहित कुमार, पुत्र श्री गुलजारी लाल	हरिएसवीसी /1760	ग्राम एवं डाक- धानसू, हिसार	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू /02	5.11.78
1042	रंगेनसुसांग, पुत्र श्री पांगेरलेमजुंग	एनएसवीसी /186/03	द्वारा आई पांगेर लकर, मेकेम पोंग सेक्टर, उंगमे, बीपीओ- उंगमा, मोकोकचुंग-798601	बीवीएससीएच / आरएयू/00	4.5.76
1043	रूप चंद बैरवा	राजएसवीसी /2952/03	ग्राम एवं डाक- सापोत्रा, करौली, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू/03	15.7.75

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1044	रूपा सतीश, पुत्र श्री डी.वी. सथीश	कर्नाएसवीसी / 3416	28/4, चौथा क्रॉस, पहला ब्लॉक, जयनगर, बंगलौर-560011	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	1.6.79
1045	रूपा यादव, पुत्री डॉ. बलवान सिंह	यूपीएसवीसी / 3550/02	117/1, एन- ब्लॉक, काकादेव, कानपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएण्डटी / 02	13.11.77
1046	रॉय (कु.) कुंतोला, पुत्री श्री सुशील कुमार रे	एएसएमएसवी सी / 2042/03	ग्राम-मोवातारी, डाक-चपर, जिला-धुबरी, पिन-783371	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
1047	रॉय राजीव कुमार, पुत्र श्री श्यामंता रॉय	एएसएमएसवी सी / 2072/02	आमगुरी, हिलईडोरी गांव, डाक- आमगुरी, जिला-डिब्रुगढ़, पिन- 785680	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
1048	रुबी	राजएसवीसी / 2955/03	श्री कृष्ण लाल अरोड़ा, श्रीकरनपुर, श्रीगंगानगर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	1.1.75
1049	रूपा लाकरा, पुत्री श्री लाधू रुंडा	बिहारएसवीसी / 2226/02	ग्राम करमटोली, बरियातु रोड, डाक रांची वि.वि., रांची, थाना-लालपुर, जिला- रांची	बीवीएससीएच / आरएयू / 02	26.7.76
1050	रूपापारा विपुल जमनादास	गुजएसवीसी / 2407/02	चित्रकूटधाम-142, आईओसी क्वा. के पीछे, कलावाड रोड, राजकोट-360005	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	24.6.79
1051	एस. प्रेम कुमार	गुजएसवीसी / 2434/02	203, सी-4, महालय अपार्टमेंट, सेक्टर-29, गांधीनगर- 382029	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	27.6.80
1052	एस.सी. गुप्ता, पुत्र श्री एस.बी. गुप्ता	यूपीएसवीसी / 3662/03	50 नवनीत नगर, डाक-कृष्णा नगर, जिला- मथुरा	बीवीएससीएच / आगरावि.वि. / 72	2.7.48
1053	एस.सी. सक्सेना, पुत्र स्व. श्री जे.पी. सक्सेना	यूपीएसवीसी / 3690/03	10, राजीव कुंज कॉलोनी, इज्जतनगर, बरेली	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएण्डटी / 66	7.1.44
1054	एस. इयान गोवन	महाएसवीसी / 6587	द ओरिएंटल इन्श्योरेंस कं.लि., क्षेत्रीय कार्यालय, पहली मंजिल, मुम्बई रोड, शिवाजीनगर, पुणे	बीवीएससी / टी एनवीएएसयू / 82	24.8.58
1055	एस. इल्होवी, पुत्र स्व. श्री सालू स्तु	एनएसवीसी / 179/03	द्वारा एस.तोलिवी स्तु, स्टाफ नर्स, नागा अस्पताल, कोहिमा, नागालैंड	बीवीएससीएच / एएयू / 03	24.1.76
1056	एस.के. मिश्रा, पुत्र श्री जी.पी. मिश्रा	यूपीएसवीसी / 3654/03	ग्राम एवं डाक- नारायणपुर, जिला- यूएस. नगर, यू.ए.	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएण्डटी / 90	5.3.67

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1057	एस.के. शर्मा, पुत्र श्री आर.एस. शर्मा	यूपीएसवीसी / 3616 / 02	बी-54, गंगा विहार कॉलोनी, चिनहट, लखनऊ, उ.प्र.	बीवीएससीएच / जेएलएमकेवीवी / 01	1.7.76
1058	एस.एन. सिंह, पुत्र श्री ए.बी. सिंह	यूपीएसवीसी / 3653 / 03	ग्राम-इब्राहिमपुर, डाक- सोनपुर, जिला- प्रतापगढ़	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 70	15.7.48
1059	एस.आर. चौधरी, पुत्र श्री जे.आर. चौधरी	यूपीएसवीसी / 3657 / 03	ग्राम-आशुबाजार बरियावन, डाक-अम्बेडकर नगर	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 92	10.12.63
1060	एस.आर. सिंह बाली, पुत्र श्री एल. राम	यूपीएसवीसी / 3658 / 03	एच-242, सेक्टर-23, संजय नगर, जिला-गाजियाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएच / आगराविधि / 71	15.1.47
1061	एस. राजशेखर, पुत्र श्री मलप्पा	एपीएसवीसी / 3853 / 02	डी.न. 4-3, पद्मावतीपुरम, तिरुघनूर रोड, तिरुपति-517503 (आं.प्र.)	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	10.7.77
1062	एस.एस. रल्हन, पुत्र श्री डी.एस. रल्हन	यूपीएसवीसी / 3576 / 02	बिसाती फार्म, डाक- बिष्टी पटिया, तह.- सितारगंज, जिला- यू.एस. नगर	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 90	2.3.66
1063	सबरीश वी.आई.	केरलएसवीसी / 2721 / 02	श्रीसाइलाम, 191, हिल गार्डस, कुट्टेनेलूर, थिसूर- 680014	बीवीएससीएच / केएयू / 02	28.11.77
1064	सबीन जॉर्ज	केरलएसवीसी / 2735 / 02	कूचूरमनूर हाउस, थोडानल, डाक कोट्टायम-686573	बीवीएससीएच / केएयू / 02	10.10.77
1065	सचिदानंद सहाय, पुत्र स्व. श्री राजेंद्र प्रसाद	बिहारएसवीसी / 2110 / 01	ग्राम-शीतल टोला, डाक- आराह, थाना-सदर आराह, जिला-आराह, भोजपुर	बीवीएससीएच / बिहारविधि / 60	15.3.41
1066	सचिन दाश, पुत्र श्री निरंजन दाश	उड़ीसाएसवीसी / 1867 / 02	एटी: रेंजा, डाक- ब्रजराजनगर, जिला- झाड़सुगुदा	बीवीएससीएच / ओयूएंडटी / 01	13.7.77
1067	साहब नाथ सिंह, पुत्र श्री राम मूरत सिंह	यूपीएसवीसी / 3508 / 02	VI - धुघुरी, डाक- खैरुद्दीनपुर, जिला- आजमगढ़, उ.प्र.	बीवीएससीएच / यूपीएयू / 70	18.1.46
1068	शक्ति मलिक, पुत्र श्री पाले राम	हरिएसवीसी / 1733	735 / बी / 28, भरत कॉलोनी, रोहतक	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 02	20.3.79
1069	सैकिया हृदय कमल, पुत्र श्री नबकमल सैकिया	एएसएमएसवी सी / 2036 / 02	पूर्वी अमोलापट्टी, नागांव-1	बीवीएससीएच / एएयू / 02	

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	सैद्धान्तिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1070	सैकिया नानी माधव, पुत्र श्री गुना लैश सैकिया	एएसएमएसवी सी/2033/02	ग्राम एवं डाक-होलागांव, ब्रह्मपुर, जिला- नागांव, पिन- 782141	बीवीएससीएच/ एएयू/02	
1071	सैकिया प्रांजल प्रतिम, पुत्र श्री गुना राम सैकिया	एएसएमएसवी सी/2091/03	लौखोवा रोड, डाक-हैबरगांव, जिला-नागांव, पिन-782002	बीवीएससीएच/ एएयू/03	
1072	सैकिया प्रांजली, पुत्री श्री होम च सैकिया	एएसएमएसवी सी/2088/02	बीवीएफसीएल, नामरूप, क्वा.न. 670/111/एफ, डाक- परबतपुर, जिला डिब्रुगढ़	बीवीएससीएच/ एएयू/03	
1073	सैनुधीन वी.एच.	केरलएसवीसी /2763/02	वल्लीकाडायिल हाउस, डाक पेरिंगला, किज़कम्बजम, अर्नाकुलम- 683565	बीवीएससी/ केएयू/71	19.5.46
1074	साइरा पी.ए.	केरलएसवीसी /2702/02	रहीम मंजिल, पुन्नीलाथु हाउस, इडावंकड़ डाक, अर्नाकुलम- 682502	बीवीएससीएच/ केएयू/02	9.5.78
1075	साजिथ पुरुषोत्तम	केरलएसवीसी /2695/02	साजिथ सदन, चिट्टाकोडु, मरानडु, डाक इजुकोन, जिला- कोल्लम- 691505	बीवीएससीएच/ केएयू/02	1.2.78
1076	सज्जा रवि कुमार, पुत्र श्री वेंकट शिव राव	एपीएसवीसी/ 3879/02	पंडिलापल्ली (डाक), वेटापलेम (एम), प्रकासम जिला-523184, आ.प्र.	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	1.7.77
1077	साकुंदे दीपाली तानाजी	महाएसवीसी/ 6698	डोम्बले चाल, जूना फाल्टन रोड के निकट, लोंदा, तालुक- खंडाला, जिला-सतारा	बीवीएससीएच/ एमएएफएसयू/02	1.1.80
1078	सालिक राम, पुत्र श्री घासी राम	यूपीएसवीसी/ 3659/03	ग्राम एवं डाक- मोधावापुर, जिला- औरङ्ग, उ.प्र.	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएण्डटी/ 97	14.4.69
1079	समरसिंह राठौड़, पुत्र श्री आर.बी. सिंह	एमपीएसवीसी /2040/02	बैंक कॉलोनी, कृष्णापुरी, मॉनिंग स्टेट स्कूल के निकट, गोले का मंदिर, मुरार, ग्वालियर	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 89-90	28.4.67
1080	सम्भू प्रसाद साहु, पुत्र श्री गौरा चरन साहु	उड़ीसाएसवीसी /1858/02	एटी/डाक- लोइसियाघा, जिला- बोलनगीर- 767020	बीवीएससीएच/ ओयूएण्डटी/01	6.7.78
1081	समीर सहाय, पुत्र श्री गोपालजी सहाय	बिहारएसवीसी /2168/01	जानकी निवास, मालवीय मार्ग, डाक एवं थाना बादाम बाजार, कोतवाली, जिला हजारीबाग	बीवीएससीएच/ बीएयू/01	15.8.75
1082	सम्राट खुराना, पुत्र श्री सोहन लाल खुराना	पंजाबएसवीसी /2369/02	म.न. 4826, पं. जय दयाल स्ट्रीट, मुक्तसर- 152026	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	30.11.77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1083	संदीप गुप्ता, पुत्र श्री जीवन लाल गुप्ता	एमपीएसवीसी / 2042 / 2	करेरा जिला, शिवपुरी, म.प्र. - 473660	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 00-01	5.7.75
1084	संदीप कुमार जांगरा, पुत्र श्री बधेवा राम	हरिएसवीसी / 1742	ग्राम एवं डाक- सतरोद कलां, हिसार	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 02	19.12.79
1085	संदीप कुमार, पुत्र श्री हरि सिंह	एचपीएसवीसी / 627 / 02	ग्राम नागन, डाक- खाडनाल पपरोला, तह. बैजनाथ, कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएच / सीएसकेएचपीकेवी / 02	8.8.80
1086	संदीप कुमार, पुत्र स्व. श्री बी. शार	यूपीएसवीसी / 3597 / 02	नई बस्ती, वार्ड न.-3, सुभाष नगर, गुड़सराय, झांसी	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 02	15.7.78
1087	संदीप पाटिल, पुत्र श्री मिल्खी राम	एचपीएसवीसी / 649 / 02	ग्राम लोहाट, डाक- डूमेहार, तह.-गुमारविन, जिला- बिलासपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएच / सीएसकेएचपीकेवी / 02	10.10.74
1088	संदीप पटनायक, पुत्र श्री बी.के. पटनायक	उड़ीसाएसवीसी / 1920 / 03	ग्राम एवं डाक- गामुंडी, वाया- भंजनगर, जिला- गंजम	बीवीएससीएच / ओयूएंडटी / 03	28.2.80
1089	संदीप सिंह, पुत्र श्री बृजलाल सिंह, एवं श्रीमती विद्या सिंगला	पंजाबएसवीसी / 2329 / 02	कोठी न. 2, बसस्टैंड के सामने, मोदी मिल्स, नागा, जिला- पटियाला	बीवीएससीएच / पीएयू / 01	8.1.77
1090	संदीप ठाकुर, पुत्र श्री एम. एस. ठाकुर	एचपीएसवीसी / 624 / 02	ग्राम- बघोर, डाक- सोलन, जिला- सोलन, हि.प्र.	बीवीएससीएच / सीएसकेएचपीकेवी / 01	7.8.75
1091	संदीप कुमार, पुत्र श्री राजिन्दर सिंह	पंजाबएसवीसी / 2395 / 02	म.न. 831-ए, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़	बीवीएससीएच / डा0पी0डी0के0वी0 / 01	16.11.77
1092	संगीत नारायण आर.	केरलएसवीसी / 2748 / 02	गंगोत्री, के.के. माडोम, पारोट्टुकूनम, नलानचिरा, डाक- त्रिवेंद्रम- 695015	बीवीएससीएच / केएयू / 02	28.7.77
1093	संगमेश, पुत्र श्री वैजनाथप्पा	कर्नाएसवीसी / 3354	संगम, औरद तालुक, बिदर जिला	बीवीएससीएच / यूएसधरवाड / 02	17.4.77
1094	संजय के. खुराना, पुत्र श्री राम नारायण	एचपीएसवीसी / 641 / 02	498/2 ए, कृष्णा नगर, हरियाणा	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 92	22.4.70
1095	संजय कुमार महाकर, पुत्र श्री कुंचु महाकर	उड़ीसाएसवीसी / 1904 / 03	एटी: आशीगांव, डाक- सिंदूरपुर, जिला- सुबर्णपुर- 767019	बीवीएससीएच / ओयूएंडटी / 03	5.8.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1096	संजय कुमार मीना	राजएसवीसी / 2897 / 02	म.न. 2-ई-31, महावीर नगर एक्स. स्कीम, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएण्डटी / 02	19.9.79
1097	संजय कुमार, पुत्र श्री मंगत राम एवं श्रीमती संतोष देवी	पंजाबएसवीसी / 2332 / 02	246, डॉ. अम्बेडकर नगर, कॉलेज रोड, संगरूर	बीवीएससीएच / पीएच / 02	22.8.77
1098	संजय पुरोहित	राजएसवीसी / 2965 / 03	सेदुलाई कॉलोनी, लालसोट, दौसा, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएच / 03	1.7.76
1099	संजीव कुमार महा नंदा, पुत्र श्री बिरंची नारायण महानंदा	उड़ीसाएसवीसी / 1889 / 03	एटी-गरियाबहल, डाक- फाशामल, वाया जमनकीरा, जिला-सम्बलपुर- 768107	बीवीएससीएच / ओयूएण्डटी / 03	9.4.79
1100	संजीव चौहान, पुत्र श्री ठाकुर दास	एचपीएसवीसी / 643 / 02	ग्राम एवं डाक-रोहांदा, थाना- सुंदरनगर, जिला-मंडी, हि.प्र.	बीवीएससीएच / सीएसकेएचपीकेवी / 01	22.1.77
1101	संजीव कटोच, पुत्र श्री स्वरूप चंद	एचपीएसवीसी / 625 / 02	ग्राम अइमा, काली बाड़ी मंदिर (के पीछे), डाक पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएच / सीएसकेएचपीकेवी / 02	4.4.78
1102	संजीव कुमार शर्मा, पुत्र श्री राम चंद्र शर्मा	बिहारएसवीसी / 2144 / 01	ग्राम नया बाजार, डाक- लखीसराय, थाना लखीसराय, जिला- लखीसराय	बीवीएससीएच / बीएच / 01	5.11.73
1103	संजीव कुमार, पुत्र श्री जग राम	वीसीआई / 2430 / 03	ग्राम एवं डाक-बछोड़, तह- नारनौल, जिला- मोहिन्दर गढ़, हरियाणा	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएच / 2000	18.6.73
1104	संजुला कुमारी, पुत्री श्री भृगुनाथ सिन्हा	बिहारएसवीसी / 2133 / 01	ग्राम ओरई, डाक-जिग्नामठ, थाना-बडहिया, जिला-सीवन	बीवीएससीएच / बीएच / 01	5.8.73
1105	सनपत सिंह, पुत्र श्री हरफूल सिंह	हरिएसवीसी / 1768	40, मॉडर्न साकेत कॉलोनी, हिसार	बीवीएससीएच / आरएच / 00	31.7.76
1106	संत सिंह	राजएसवीसी / 2996 / 03	ग्राम-मोतियापुरा, डाक- सारमथुरा, धौलपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएच / 03	10.5.77
1107	संतोष वोडेयार डी.एस. , पुत्र श्री डी.एस. आनंदगिरि वोडायर	कर्नाएसवीसी / 3403	माइलर डाक, हडागली तालुक, बेलारी जिला- 583217	बीवीएससीएच / यूएसएसधरवाड / 02	14.7.79
1108	संतोष एम.	केरलएसवीसी / 2739 / 02	मारनचेरी हाउस, वासुपुरम, मट्टाथुकुन्नु, डाक थिसूर- 680684	बीवीएससीएच / केएच / 02	30.1.77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1109	संतोष कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल	बिहारएसवीसी /2156/01	ग्राम-छिपादोहर, थाना बसवाडीह, जिला-लाहेटर	बीवीएससीएएच/ बीएयू/01	3.1.73
1110	संतोष कुमार बंसल	राजएसवीसी/ 2913/03	ग्राम/डाक- राजपुर, शाहबाद सारन, राजस्थान	बीवीएससीएएच/ आएयू/03	2.3.77
1111	संतोष कुमार गुप्ता, पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद	बिहारएसवीसी /2212/02	ग्राम- गरहानी, डाक- गरहानी, थाना -चोरपोखरिम, जिला- भोजपुर	बीवीएससीएएच/ जीबीपीयूएंडटी/ 01	15.12.77
1112	संतोष कुमार, पुत्र श्री जुगेश्वरी राम	बिहारएसवीसी /2145/01	ग्राम-सुधा, डाक- डाल्टनगंज, थाना- सुदना, जिला- पलामू	बीवीएससीएएच/ बीएयू/01	5.1.69
1113	संतोष कुमार, पुत्र श्री तीरन लाल देहरिया	एमपीएसवीसी /2072/02	टैगोर हॉल, कमरा न. 50, पशुचिकित्सा कॉलेज, म्हुऊ- 453456	बीवीएससीएएच/ जेएलएनकेवीबी/ 01-02	19.8.76
1114	संतोष शर्मा, पुत्र श्री बाबू लाल शर्मा	एमपीएसवीसी /2087/02	विद्या मार्केट, डाबरा, जिला- ग्वालियर- 475110	बीवीएससीएएच/ बीवीएससी/01- 02	29.12.76
1115	सरज कुमार, पुत्र श्री बच्चू सिंह	बिहारएसवीसी /2098/01	ग्राम पोखरामा, डाक- पोखरामा, थाना- कजरा, जिला- लखीसराय	बीवीएससीएएच/ एएनजीआरएयू/ 00	18.12.71
1116	सरत चंद्र माहपात्रो, पुत्र स्व. श्री लोक नाथ मोहापात्रो	उड़ीसाएसवीसी /1874/03	एचआईजी-11-63, बीडीए कॉलोनी, कथिलाप्रसाद, भुवनेश्वर-20	बीवीएससीएएच/ उत्कलविवि/60	27.11.36
1117	सरत कुमार पात्रा, पुत्र श्री रामपाल सिंह	उड़ीसाएसवीसी /1901/03	एटी/डाक- इंदुपुर, जिला- केंद्रपाड़ा- 754214	बीवीएससीएएच/ ओधूएएंडटी/03	12.4.77
1118	सर्वजीत सिंह, पुत्र श्री रामपाल सिंह	पंजाबएसवीसी /2433/03	ग्राम एवं डाक- बालानवाली, थाना फुल, जिला- भठिंडा	बीवीएससीएएच/ पीएयू/02	4.4.78
1119	अशोपल्ली ग्लोरी प्रसांती, पुत्री श्री सम्पत राव	एपीएसवीसी/ 3864/02	म.न. 7-14-55, पुराना गाजुवाका, विशाखापटणम- 26 आं.प्र.	बीवीएससीएएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	22.6.77
1120	सरिता मोवा, पुत्री श्री गंधी	एपीएसवीसी/ 3844/02	डी.न.3-28-18-121, ए/1, राजेंद्र नगर, दूसरी लेन, गुटूर- 7 (आं.प्र.)	बीवीएससीएएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	9.8.74
1121	सर्मा देवव्रत, पुत्र श्री कबीन्द्र सर्मा	एएसएमएसवी सी/2018/02	ग्राम मेतापाड़ा, डाक- धोकीपाड़ा, जिला- दारंग, पिन- 7841325	बीवीएससीएएच/ एएयू/01	

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1122	सर्मा पराग, पुत्र श्री हरिहर सर्मा	एएसएमएसवी सी/2032/02	पाठसाला (सांतिपुर), डाक- पाइसाला, जिला-बारपेटा, पिन-781325	बीवीएससीएच/एएयू/02	
1123	सरोज बाला, पुत्री श्री रोशन लाल	एचपीएसवीसी/640/02	12-ए, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, होलता, पालमपुर, जिला-कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएच/जेएनकेवी/86	21.9.56
1124	सरोज कुमार ठाकुर, पुत्र श्री दिनेश कांत ठाकुर	बिहारएसवीसी/2149/01	ग्राम- करीमन, डाक- करीमन, थाना- शिवाजीनगर, रोसरा, जिला- समस्तीपुर	बीवीएससीएच/बीएयू/01	9.12.75
1125	सशिमंगबा, पुत्र श्री एन. इमती आओ	एनएसवीसी/187/03	वेट.असि.सर्जन, राज्य सुअर प्रजनन केंद्र, तुएनसांग, नागालैंड	बीवीएससीएच/एएयू/92	22.2.68
1126	सतेंदर कुमार, पुत्र श्री सुरजा मल	हरिएसवीसी/1740	शीतल नगर, रोहतक	बीवीएससीएच/सीसीएसएचएयू/02	1.6.79
1127	सतीश कु. श्रीवास्तव, पुत्र स्व. श्री अम्बिका प्र. श्रीवास्तव	एमपीएसवीसी/2063/02	म.न. 54, कृष्ण विहार कॉलोनी, वेयर हाउस, गोपालगंज के पीछे, सागर, म.प्र.- 470001	बीवीएससीएच/जेएलएनकेवीवी/01-02	7.6.63
1128	सतीश कुमार जी.सी. पुत्र श्री चंद्रप्पा जी.	कर्नाएसवीसी/3392	न. 1795, संजीवनी नगर, शकारा नगर डाक, बंगलौर 560092	बीवीएससीएच/यूएस, बंगलौर/02	11.4.80
1129	सतीश कुमार शर्मा	राजएसवीसी/2957/03	म.न. 319, बसंत विहार, डाबरी, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएच/आरएयू/03	20.7.75
1130	सतीश कुमार, पुत्र श्री बिंदेश्वरी सिंह	बिहारएसवीसी/2170/01	ग्राम- तुपुदाना, डाक- हटिया, थाना- जगन्नाथपुर, नामकुम, जिला- रांची	बीवीएससीएच/बीएयू/01	9.8.72
1131	सतीश कुमार, पुत्र श्री श्रवण कुमार	बिहारएसवीसी/2204/02	ग्राम- चिश्तीपुर, डाक- चिश्तीपुर, थाना- चंडी, जिला-नालंदा	बीवीएससीएच/एमएयू/01	7.7.75
1132	सतीश कुमार उपाध्याय, पुत्र श्री चंद्रदर्शन उपाध्याय	एमपीएसवीसी/2123/03	श्री लक्ष्मीकांत पांडे, उत्तरी करोन्डिया, संजय गांधी कॉलेज के निकट, सिध्दि	बीवीएससीएच/जेएलएनकेवीवी/98-99	1.7.73
1133	सतनाम सिंह, पुत्र श्री परमजीत सिंह	एचपीएसवीसी/634/02	डॉ. सतनाम सिंह, 3/985, डोगर बस्ती, फरीद कोट, 151203	बीवीएससीएच/पीएयू/02	17.3.72
1134	सतपाल, पुत्र श्री बलवान सिंह	हरिएसवीसी/1729	ग्राम एवं डाक- डांगरा, जिला-फतेहाबाद	बीवीएससीएच/सीसीएसएचएयू/02	8.7.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1135	सतविंदर सिंह, पुत्र श्री प्रीतम सिंह	पंजाबएसवीसी /2396/03	ग्राम एवं डाक-मुल्लनवाल, थाना एवं जिला- गुरदासपुर (पंजाब)	बीवीएससीएच/ जीकेवीवी/02	6.4.78
1136	सत्य प्रकाश सिंह, पुत्र श्री सहदेव प्रकाश सिंह	बिहारएसवीसी /2104/01	ग्राम- बारकी मिशिया, डाक- सिरमेरे, थाना- सिरमेर, जिला- नालंदा- 811104	बीवीएससीएच/ आरएयू/01	23.9.77
1137	सत्येंद्र कुमार, पुत्र श्री वी.एस. यादव	यूपीएसवीसी/ 3544/02	ग्राम एवं डाक- कैथाला, जिला- बुलंदशहर	बीवीएससीएच/ जीपीपीयूएंडटी/ 02	1.12.69
1138	सत्य प्रकाश, पुत्र श्री श्रीकृष्ण अशोक	यूपीएसवीसी/ 3606/02	डी-74, कोडली नगर, संकवार नर्सिंग होम, दिल्ली- 96	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 02	1.7.78
1139	सैयद अमानुल्ला हजमोदीन	महाएसवीसी/ 6704	जी-3/8, ओमकार गार्डन, पुणे पंचशट रोड, मानिक बाग, सिंहगड रोड, पुणे	बीवीएससीएच/ एमएयू/99	15.1.75
1140	सैयद आरिफ रसूल	महाएसवीसी/ 6602	एटी येओल वाडी, डाक/तालुक राहुरी, जिला अहमदनगर- 413705	बीवीएससीएच/ एमएयू/01	11.10.78
1141	सीमा अग्रवाल, पुत्री श्री गोविंद प्रसाद अग्रवाल	बिहारएसवीसी /2134/01	ग्राम- काडरु, डाक- हीनू, थाना- आरगोरा, जिला- संची	बीवीएससीएच/ बीएयू/01	1.10.76
1142	सीमा एस.	केरलएसवीसी /2684/02	सारिका कोट्टामुकल, नालनचीस डाक, त्रिवेंद्रम- 695015	बीवीएससीएच/ केएयू/02	1.1.78
1143	सेल्विन जोस	केरलएसवीसी /2758/02	पी.पी.-1-530, इडयमकोनम, अट्टुकल, पानयामुट्टोम, डाक- त्रिवेंद्रम- 695560	बीवीएससीएच/ टीएनवीएसयू/ 00	21.6.76
1144	सेंसी मैथ्यू	केरलएसवीसी /2761/02	मलायिल हाउस, डाक कांगजा, पाथनाडु, कोट्टायम- 686541	बीवीएससीएच/ एएयू/02	1.12.78
1145	सेथिल मुरुगन एस.	केरलएसवीसी /2762/02	सी-3, केरल फीड्स क्वा., फीड नगर, केरल फीड्स लि., कल्लेट्टुमकारा, इरिजलकुडा, थिसूर- 680683	बीवीएससी/टीएन वीएसयू/93	12.1.70
1146	सेयिविले, पुत्र श्री सतुओ बंगामी	एनएसवीसी/ 183/03	द्वारा सतुओ अंगामी, एनबीसीसी, कोहिमा-797001, नागा बाजार, नागालैंड	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	24.1.76
1147	शेख मौह. अजमत शेख मौलाना	महाएसवीसी/ 6639	देशमुख नगर, बिलोली, तालुक- बिलोली, जिला- नांडेड	बीवीएससीएच/ एमएएफएसयू/02	15.6.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1148	शैली जैन, पुत्री श्री राजकुमार सिंह जैन	एमपीएसवीसी / 2109 / 03	ब्लॉक-4, फ्लैट न. 5, शुभम कॉम्प्लेक्स, शिंदे की छावनी, नौगाला रोड, लश्कर, ग्वालियर, म.प्र.	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	4.5.78
1149	शम्भू सरन, पुत्र श्री रामाशीस राम	बिहारएसवीसी / 2114 / 01	ग्राम- धामना, डाक- भकुरा, थाना- तेराई, जिला- भोजपुर (आराह)	बीवीएससीएच / आरएयू / 00	25.10.75
1150	शंकर सिंह, पुत्र श्री राम सिंह	बिहारएसवीसी / 2109 / 01	ग्राम-कौखर, डाक-गावीरद, थाना- रघुनाथपुर, जिला-सीवन, पिन- 841509	बीवीएससीएच / आरएयू / 00	10.10.75
1151	शंकर ताडु, पुत्र श्री बाबू राम ताडु	बिहारएसवीसी / 2161 / 01	ग्राम भुरकुंडी, डाक पालोजोरी, थाना पालोजोरी, जिला देवगढ़	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	6.1.75
1152	शंकर गौडा ए.जे., पुत्र श्री जगथी गौडा	कर्नाएसवीसी / 3326	डाक अलेसांद्रे, तालुक- नागमंगला, जिला- मांड्या- 5710418	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	13.5.74
1153	शर्मा कमलेश चंद्र संतराम	महाएसवीसी / 6613	आरे दुग्ध कॉलोनी, यूएन-11, एस.क्यू.आई., आरे, गोरेगांव, मुम्बई-65	बीवीएससीएच / जेएनकेवीवी / 84-85	1.7.61
1154	शर्मा प्रांजल ज्योति, पुत्र श्री बिनोद च. शर्मा	एसएमएसवीसी / 2016 / 02	ए.टी.रोड, बोबिजिया, नागांव, असम	बीवीएससीएच / एएयू / 01	
1155	शर्मा (कुमारी) बोनी, पुत्री डॉ. ए. शर्मा	एसएमएसवीसी / 2040 / 02	जू नारेंगी रोड, बाई लेन-8, गुवाहाटी- 21	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
1156	शशि कांत शर्मा	राजएसवीसी / 2877 / 02	बी-3 / 281, सुदर्शन नगर, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 96	25.9.70
1157	शशिधर वाई. एम., पुत्र श्री मारुलप्पा सी.	कर्नाएसवीसी / 3347	येचागोंडानाहल्ली, डाक मडालु, तालुक अरासीकेरे, जिला हसन	बीवीएससीएच / यूएसधारवाड / 02	11.7.79
1158	शेखर यादव, पुत्र श्री बानी सिंह	हरिएसवीसी / 1730	क.न.-2, शिवाजी होस्टल, एचएयू, हिसार	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 02	23.12.80
1159	शैली जैन, पुत्र श्री ओम प्रकाश	हरिएसवीसी / 1771	349-9, अर्बन एस्टेट, करनाल	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	31.3.80
1160	शेम्बेकर दयाराम जोदबाजी	महाएसवीसी / 6677	गावंडी इंजिनियरिंग वर्क शॉप के पीछे, एस.टी. बस स्टैंड के निकट, तालुक- वारुद, जिला- अमरावती	बीवीएससीएच / पीकेवी / 78	18.8.55

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1161	शेमकर श्रमन, पुत्र श्री सुभाष चंद जैन	एमपीएसवीसी / 2103 / 02	254, भव्य भवन, गाड़ीफाटक, जबलपुर- 482002	बीवीएससीएच / जेएलएनकेबीवी / 01-02	5.3.77
1162	शंदे नीलेश गुलाब राव -	महाएसवीसी / 6627	एटी-डाक- पनाज, तालुक अकोट, जिला- अकोला- 444101	बीवीएससीएच / एमएएफएसयू / 02	10.1.80
1163	शंदे विनोद हरिभाऊ	महाएसवीसी / 6690	एटी डाक- येरला (धोले), तालुक कटोल, जिला- नागपुर	बीवीएससीएच / एमएएफएसयू / 02	25.11.75
1164	शंगा एमिला, पुत्री स्व. श्री टी.एन. सेंगा	सिक्किमएसवीसी / 80 / 02	लिंगी, अपर पायोंग, दक्षिणी सिक्किम	बीवीएससीएच / डब्ल्यूबीयूएण्डएफ एसयू / 02	25.10.78
1165	शेट्टी आदिनाथ भाव राव, पुत्र श्री भाव राव सी. शेट्टी	कर्नाएसवीसी / 3324	गौरव अपार्टमेंट, 82, मंगलवार पेठ, तिलकवाड़ी, बेलगाम	बीवीएससीएच / केकेवीपी / 77	6.7.53
1166	शेयना देवइयाह, पुत्र श्री एम.ए. देवइयाह	कर्नाएसवीसी / 3394	स्वाराज भवन, मलाबार रोड, विराजपेट, दक्षिणी कौडागू- 571218	बीवीएससीएच / यूएसएस, बंगलौर / 02	12.3.79
1167	शिवू आर.एस.	केरलएसवीसी / 2768 / 02	श्रीराम सी / घर, अयप्पनकावू नगर, किलीमनूर डाक त्रिवेंद्रम- 695601	बीवीएससीएच / टीएनवीएसयूसी / 03	20.7.77
1168	शिल्पा रानी, पुत्री श्री रमेश एन.	कर्नाएसवीसी / 3379	37, एनएचसीएस लेआउट, III स्टेज, चौथा ब्लॉक, बासवेश्वर नगर, बंगलौर- 79	बीवीएससीएच / यूएसएस, बंगलौर / 02	12.8.80
1169	शिंदे बाबू साहेब परश राम	महाएसवीसी / 6680	प्रतीक्षा निवास, जातप डाक- लाख, तह. राहुरी, जिला- अहमदनगर	बीवीएससीएच / एमएएफएसयू / 02	7.10.79
1170	शिंदे मनोज कुमार ध्यानदेव	महाएसवीसी / 6685	एटी डाक सहर टाकली, तालुक शिगांव, जिला- अहमदनगर	बीवीएससीएच / एमएएफएसयू / 02	1.6. 79
1171	शिंदे मिलिंद व्यास	महाएसवीसी / 6669	प्लॉट न. 6-ए / 144, सेक्टर-1, खांडे कॉलोनी, न्यू प्रेल, जिला- रायगढ़	बीवीएससीएच / केकेवी / 99	24.12.72
1172	शिंदे प्रशांत लक्ष्मण राव	महाएसवीसी / 6676	एटी डाक शिंदे वाड़ी, तालुक मालशिरास, जिला- सोलापुर	बीवीएससीएच / केकेवी / 2000	23.3.78
1173	शिप्रा नायक, पुत्र श्री राजेश्वर नायक	बिहारएसवीसी / 2164 / 01	ग्राम देवी मंडप रोड, रातू रोड, डाक- हेसल, थाना सुखदेव नगर, जिला- रांची	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	8.10.76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1174	शिव कुमार तिवारी, पुत्र स्व. श्री बाबू लाल तिवारी	एमपीएसवीसी /2090/02	ग्राम एवं डाक- रतनपुर, थाना बागली, जिला- देवास 455227	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 00-01	15.10.71
1175	शिव कुमार, पुत्र श्री एम. लाल	यूपीएसवीसी/ 3670/03	ग्राम एवं डाक- कैथा, जिला कानपुर नगर	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएंडटी/ 90	3.7.63
1176	शिवलिंगप्पा मुकरताल यमनप्पा	कर्नाएसवीसी/ 3317	शिवकुंज, चालुक्य नगर, सोलापुर रोड, बीजापुर- 586101	बीवीएससीएच/ यूएसएधरवाड़/ 01	24.5.78
1177	शिवशरणप्पा बिरादर, पुत्र श्री गुरप्पा	कर्नाएसवीसी/ 3346	डाक हिबिनाहल्ली, तालुक सिंदगी, जिला- बीजापुर	बीवीएससीएच/ यूएसएधरवाड़/ 02	21.7.78
1178	शिवेंद्र मनीझा, पुत्र स्व. श्री केदार नाथ झा	यूपीएसवीसी/ 3573/02	ग्राम एवं डाक- कुदराहा, जिला- बस्ती	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएंडटी/ 02	31.5.76
1179	श्याम सिंह डाहिया	महाएसवीसी/ 6697	म.न. सी/8-1, रेलविहार, डी आरएम कॉम्प्लेक्स के निकट, अम्बाला कैंटीन, हरियाणा	बीवीएससीएच/ एमएफएसयू/02	21.1.80
1180	श्याम सुंदर पांडेय पुत्र श्री परमानंद पांडे	उड़ीसाएसवीसी /1919/03	एटी- बुरोमुंडा, डाक- गायसिलात, जिला- बारगढ़- 768037	बीवीएससीएच/ ओयूएंडटी/03	8.7.77
1181	श्याम लाल कांति बानिक, पुत्र श्री अमूल्य चंद्र बानिक	त्रिपुरावीसी/ 143/02	द्वारा अमूल्य चंद्र बानिक, ग्राम रामठाखर पारा, डाक- बिलोनिया, त्रिपुरा (दक्षिण)	बीवीएससीएच/ एएसयू/74	18.3.51
1182	सिद्धार्थ शंकर यादव, पुत्र श्री ब्रह्म देव	बिहारएसवीसी /2211/02	ग्राम फूलिक्या, डाक- फूलिक्या, थाना- गोपालपुर, जिला भागलपुर	बीवीएससीएच/ डब्ल्यूबीयूएंडएफ एसयू/01	31.1.76
1183	सिजू जोसेफ	केरलएसवीसी /2728/02	चोरीकावुमगल हाउस, थोट्टाकाडु डाक, कोट्टायम- 686539	बीवीएससीएच/ केएसयू/02	3.1.76
1184	सिंधी सामोउल्ला खान हुसैन खान	गुजएसवीसी/ 2437/02	राहत अमनपार्क, अहमद सोसायटी के निकट, पालनौर, बनासकंठा- 385001	बीवीएससीएच/ जीएसयू/02	26.11.79
1185	सिंह नवल किशोर, पुत्र श्री अवध नारायण सिंह	एसएसएमएसवी सी/2068/ 02	ग्राम बंधु बारवा, डाक- रामगढ़वा, जिला- मोतीहारी (बिहार)	बीवीएससीएच/ एसएसयू/00	
1186	सिंह (कु.) अन्नपूर्णा, पुत्री श्री बिमान कुमार सिंह	एसएसएमएसवी सी/2031/ 02	बी.टी. रोड, लाला, डाक-लाला, जिला- हैलाकंडी, पिन- 788163	बीवीएससीएच/ एसएसयू/02	

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1187	सिसिर कुमार लेंका, पुत्र श्री नासायण चंद्र लेंका	उड़ीसाएसवीसी /1891/03	एटी- सरीपाल, डाक- अलौती, वाया- बड़ापदा, जिला- भद्रक- 756113	बीवीएससीएच/ ओयूएण्डटी/03	7.1.75
1188	सिसोदिया जयवीर हितेश भाई	गुजएसवीसी/ 2400/02	डी-2/7, सरकारी वसाहत, रामनगर, रानदेर रोड, सूस्त	बीवीएससीएच/ जीएयू/02	26.11.79
1189	सीताराम दूबे, पुत्र श्री नंदकिशोर दूबे	एमपीएसवीसी /2074/02	ग्राम एवं डाक- सताई, थाना- बिजावर, जिला- छतरपुर- 471408	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	10.6.67
1190	सिवा प्रिया के.वी.	केरलएसवीसी /2685/02	कारुकायिल हाउस, कलाकल, आर्यद नार्थ, डाक अलपुजाह- 688542	बीवीएससीएच/ केएयू/02	19.7.78
1191	सिया राम जाटव, पुत्र श्री जगनुराम जाटव	एमपीएसवीसी /2028/02	ग्राम- अचोली, थाना- कैलारस, जिला- मोरैना, मं.प्र.	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 00	10.6.73
1192	स्मिथा जे. ऑगस्टाइन	केरलएसवीसी /2706/02	कंडोथ हाउस, अरूर डाक, अलपुजाह- 688534	बीवीएससीएच/ केएयू/02	25.1.78
1193	स्मिथा कैमल	केरलएसवीसी /2730/02	अलापट्टू हाउस, पनामट्टोम डाक, कुराली, कोट्टायम	बीवीएससीएच/ केएयू/02	1.2.79
1194	सोभा जयराम	केरलएसवीसी /2755/02	चुरुवालिल हाउस, नेल्लाड डाक, मुडावूर (वाया), अर्नाकुलम	बीवीएससीएच/ केएयू/02	4.4.74
1195	सोलंकी नरेश कुमार दूधाभाई	गुजएसवीसी/ 2432/02	एटी एवं डाक- देथाली, सिधपुर, पाटन	बीवीएससीएच/ जीएयू/02	29.3.78
1196	सोमनाथ, पुत्र श्री दर्शन लाल, एवं श्रीमती मोहिंदर कौर	पंजाबएसवीसी /2325/02	ग्राम- मीठापुर, डाक- मीठापुर, जालंधर	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	16.7.74
1197	सोनल ठाकुर	राजएसवीसी/ 2933/03	106/117, विजय पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	1.3.76
1198	सोनेराम धाकड़, पुत्र श्री परिमल सिंह धाकड़	एमपीएसवीसी /2066/02	ग्राम एवं डाक- पारसौरा, थाना- जौरा, जिला- मुरैना- 476224	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	4.6.74
1199	सोनकुसाले वीरेंद्र गनपत राव	महाएसवीसी/ 6574	सोकुसाले भवन, वार्ड न.5, बाजार चौक, खापा, तालुक- साओनार, जिला- नागपुर 441101	बीवीएससीएच/ डॉ.पीडीकेवी/01	17.11.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1200	सोनी कुंजाप्पन	केरलएसवीसी / 2757 / 02	जॉय विला (एच), डाक पुलीचिरा, कोल्लम 691304	बीवीएससीएच / केएयू / 02	13.12.77
1201	सूमी सुक्ला, पुत्र श्री श्यामल सुक्ला	डब्ल्यूबीएसवी सी / 2916	मंकर, बर्दवान, पिन- 713144	बीवीएससीएच / डब्ल्यूबीयूएंडएफ एसयू / 01	1.1.78
1202	सौरभ देओरी, पुत्र श्री यू.सी. देओरी	वीसीआई / 2436 / 04	द्वारा डॉ. जी.सी. दास, पशु अनुवांशिकी विभाग, सीवीएससी, खानापाड़ा, गुवाहाटी, असम	बीवीएससीएच / एएयू / 2000	20.11.77
1203	श्रवण कुमार आचार्य, पुत्र श्री बी. पूर्ण चंद्र आचार्य	उडीसाएसवीसी / 1866 / 02	द्वारा बी.पूर्ण चंद्र आचार्य, ज्योति नगर, तीसरी गली, ए / डाक बरहामपुर, जिला- गंजम	बीवीएससीएच / ओयूएंडटी / 01	3.10.76
1204	श्रीनाथ पी., पुत्र श्री रामा मूर्ति	एपीएसवीसी / 3886 / 02	बिलइयागारीपल्ली, पेड़डागरपडु (डाक), पकाला (वाया), चित्तूर जिला- 517112, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	25.6.77
1205	श्रीनिवास बी.पी., पुत्र स्व. श्री परमेश्वरइयाह	वीसीआई / 2418 / 03	वैज्ञानिक (एसएस), आईवीआर आई, हेब्ल, बंगलौर- 560024, कर्नाटक	बीवीएससी / यूए स, बंगलौर / 90	20.7.66
1206	श्रीराम चेक्कापल्ली, पुत्र श्री वेंकटेश्वरलु	एपीएसवीसी / 3839 / 02	द्वारा: कल्ला टाटारोड, म.न.1-62, लच्चीपलेम, ताल्लारेवू (एम), पू. गोदावरी जिला 533262(आं.प्र.)	बीवीएससीएच / पाण्डीवि / 2002	2.5.79
1207	श्रीनिवास जी.के., पुत्र श्री चिनइयाह	एपीएसवीसी / 3906 / 02	नरसापुर, दिलवारपुर (एमजे), आदिलाबाद जिला, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	2.4.77
1208	श्रीनिवासगौडा एस.वी. पुत्र श्री वेंकटेश गौडा	कर्नाएसवीसी / 3309	सीकल ग्राम, मिलांडकाहल्ली डाक, चिंतामणि तालुक, कोलार जिला	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 01	20.6.78
1209	सुभाष एस., पुत्र श्री सोभानन एस.	कर्नाएसवीसी / 3363	द्वारा शिवन्ना, बी.एस. छठा क्रॉस, चौथा मेन, आरएमवी।। स्टेज, बंगलौर- 94	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	20.5.80
1210	सुभाष चंद्र, पुत्र श्री राधे श्याम मॉडल	बिहारएसवीसी / 2135 / 01	ग्राम- किशनुपर, डाक- बाउंसी, थाना- बाउंसी, जिला- बंका	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	11.7.73
1211	सुभाष पतियाल	एचपीएसवीसी / 644 / 02	ग्राम उत्तरापुर, डाक- भवरना, थाना- पालमपुर, जिला- कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएच / सीएसकेएचपीकेवी / 01	7.12.77
1212	सुबीर दास, पुत्र श्री प्रकाश च दास	त्रिपुरावीसी / 147 / 02	द्वारा प्रकाश च दास, डाक एवं ग्राम-इंद्रनग, सरकारी डेयरी के निकट, अगरतला, त्रिपुरा (प.)	बीवीएससीएच / एएयू / 94	4.1.69

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1213	सुबोध किशोर, पुत्र श्री एस.एस. सक्सेना	कर्नाएसवीसी / 3402	IV / 7, आईवीआरआई, हेब्ल, बंगलौर-24	बीवीएससीएच / यूएसआगरा / 76	28.5.55
1214	सुबोध कुमार, पुत्र डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी / 2193 / 01	ग्राम-डेकपुरा, डाक-मोरातलाओ, थाना- राहुई, जिला- नालंदा	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	3.5.74
1215	सुदर्शन एम. धड़के, पुत्र श्री मारुति एस. धड़के	कर्नाएसवीसी / 3335	केवीएम नगर, बीजापुर रोड, अथानी- 591304, बेलगाम जिला	बीवीएससीएच / यूएसधारवाड़ / 02	22.7.77
1216	सुधा कुमारी, पुत्री श्री अयोधी रजक	बिहारएसवीसी / 2181 / 01	ग्राम- सिमराही बाजार, डाक- राधोपुर, थाना- राधोपुर, जिला- सुपौल	बीवीएससीएच / आरएम / 00	5.6.74
1217	सुधा रानी एस.	केरलएसवीसी / 2718 / 02	सुधालायम, नेर वेट. अस्पताल, पेनुमपुजाह, डाक- कोल्लम- 691504	बीवीएससीएच / केएयू / 02	30.5.79
1218	सुधांशु सामन्तराय, पुत्र श्री धनेश्वर सामन्तराय	उड़ीसाएसवीसी / 1869 / 02	शांति विहार, चोलिया गंज, कटक-4	बीवीएससीएच / ओयूएंडटी / 01	26.6.77
1219	सुधीश एस. नायर	केरलएसवीसी / 2733 / 02	श्रीरुंगम कावूर, डाक चंवायूर, कोजीकोड- 6730107	बीवीएससीएच / केएयू / 02	7.4.78
1220	सुधीर कुमार, पुत्र श्री मुखदेव सिंह	बिहारएसवीसी / 2111 / 01	ग्राम शेरुल्लाहपुर (नंदगांव), डाक शास्त्रीनगर, थाना शास्त्री नगर, जिला-पटना,पिन-800023	बीवीएससीएच / आरएम / 00	12.1.72
1221	सुदीप्त बरियार, पुत्र श्री मानस गंगेश्वर बरियार	बिहारएसवीसी / 2197 / 02	ग्राम बांधपाड़ा, डाक- दूमका, थाना- दुमका, जिला- दुमका	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	12.12.76
1222	सुजाता प्रसाद, पुत्र श्री दयानंद प्रसाद	बिहारएसवीसी / 2173 / 01	सरद बाबू लेन, डाक सरद बाबू लेन, थाना-लोअर बाजार, जिला-रांची	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	24.6.75
1223	सुजीत साहा, पुत्र श्री परिमल साहा	त्रिपुरावीसी / 149 / 03	द्वारा श्री परिमल साहा, पश्चिमी प्रतापगढ़, डाक ए.डी. नगर, अगरतला, त्रिपुरा (प.)	बीवीएससीएच / आरएम / 03	29.3.77
1224	सुखबीर सिंह, पुत्र श्री चमेल सिंह	हरिएसवीसी / 1765	ग्राम- मुन्ना राबरी, डाक- हाबरी, कैथल	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 94	31.5.70
1225	सुखबीर सिंह, पुत्र श्री सुरजा मल	हरिएसवीसी / 1738	ग्राम एवं डाक खरांती, जींद	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 02	20.5.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. स.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1226	सुखदीप कौर, पुत्री श्री जसमेर सिंह	पंजाबएसवीसी /2378/02	108/ए, अगगर नगर, लुधियाना	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	17.3.79
1227	सुखमिंदर सिंह, पुत्र श्री गुरचरन सिंह	पंजाबएसवीसी /2367/02	ग्राम एवं डाक- जस्सोवाल (कुलार), तहसील- जगरांव, लुधियाना	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	11.11.77
1228	सुखविंदर कौर, पुत्री श्री तरलोक सिंह	पंजाबएसवीसी /2370/02	4, विकास नगर, भारुम पुरी, फिरोजपुर सिटी	बीवीएससीएच/ पीएयू/02	26.11.77
1229	सुखविंदर सिंह, पुत्र श्री मोहिंदर पाल सिंह एवं श्रीमती गुरचरन कौर	पंजाबएसवीसी /2328/02	म.न.1136, मली न. 11, गुरबख्शा कॉलोनी, पटियाला	बीवीएससीएच/ पीएयू/01	6.1.78
1230	सूमा एन, पुत्र श्री नरसिम्हा रेड्डी	कर्नाएसवीसी/ 3397	कच्चाहल्ली, मलूर डाक, सिदलाघट्टा तालुक, कोलार जिला- 582102	बीवीएससीएच/ यूएस, बंगलौर/ 02	17.7.79
1231	सुमेर सिंह	राजएसवीसी/ 2987/03	ग्राम/डाक फुल्का, वाया आनंदपुर कलां, थाना जैतराह, पाली, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	25.6.75
1232	सुमित सचदेवा	राजएसवीसी/ 2931/03	1/36, दुर्गा विहार, श्रीगंगा नगर, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	8.7.78
1233	सुमित सक्सेना, पुत्र डॉ. वी.बी. सक्सेना	वीसीआई/ 2450/04	वन मॉडल कॉलोनी, रुद्रपुर (यू. एस. नगर), उत्तरांचल- 263153	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएंडटी/ 03	29.6.80
1234	सुमिता त्रिपाठी, पुत्र डॉ. आशिक कुमार	यूपीएसवीसी/ 3687/03	ग्राम देवडीह, डाक बौर व्यास, जिला- संतकबीर नगर	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 85	21.10.70
1235	सुनीत बिंदलेश, पुत्र श्री एल.एम. बिंदलेश	हरिएसवीसी/ 1749	13, प्रोफेसर कॉलोनी, कैथल	बीवीएससीएच/ सीसीएसएचएयू/ 02	18.7.80
1236	सुनीथा ए., पुत्री श्री अन्नामलई	कर्नाएसवीसी/ 3398	कुमारा निवास, होसामन्ने भद्रावती, शिमोगा जिला 577301	बीवीएससीएच/ यूएस, बंगलौर/ 02	27.7.79
1237	सुनीता दब्बादी, पुत्री श्री थिप्पेस्वामी	एपीएसवीसी/ 3871/02	डी.न. 8-2-272, बेलारी रोड, सायादुर्ग- 515865, अनंतपुर जिला, आंध्र.	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	23.2.78
1238	सुनील के.एन. नागराज के.पी., पुत्र श्री नागराज के.पी.	कर्नाएसवीसी/ 3375	गुंडप्पा स्ट्रीट, चिकमगलूर- 577101	बीवीएससीएच/ यूएस, बंगलौर/ 02	3.10.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1239	सुनील कुमार पुत्र श्री बालेश्वर राम	बिहारएसवीसी /2112/01	ग्राम-मल्कानपुर, डाक- थाना- हिलसा, जिला- नालंदा	योगीपुर, बीवीएससीएच / आरएयू /01	15.8.75
1240	सुनील कुमार, पुत्र श्री राम यतन सिंह	बिहारएसवीसी /2093/01	ग्राम-बलटारा, डाक- फुलबारिया, थाना-गोगरी, जिला-खगारिया, पिन- 851201	बीवीएससीएच / आरएयू /00	1.1.77
1241	सुनील कुमार एम. पुत्र श्री मालन्ना जी.	कर्नाएसवीसी /3318	कलानाकुंडी एवं डाक चामराजनगर तालुक एवं जिला	बीवीएससीएच / यूएएच, बंगलौर /01	20.7.78
1242	सुनील मनोहर कुशवाहा, पुत्र श्री चामारी प्रसाद	बिहारएसवीसी /2230/02	ग्राम छबीलापुर, डाक छैलापुर, थाना मानपुर, जिला नालंदा	बीवीएससीएच / आरएयू /01	15.8.77
1243	सुनील माथुर	राजएसवीसी /2984/03	म.न. 1/325, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नागौर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू /03	8.12.78
1244	सुनील पंवार, पुत्र श्री आर.एस. पवार	यूपीएसवीसी /3712/03	71/10, गणेश चौक, रुड़की, हरिद्वार	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएण्डटी /02	17.7.79
1245	सुनील प्रसाद सिंह, पुत्र श्री सुरेश प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी /2163/01	ग्राम झिकरा, डाक लाकरा, थाना राजौन, जिला बंका	बीवीएससीएच / बीएयू /01	5.4.72
1246	सुनील रंजन बोस, पुत्र श्री हरि पद बोस	बिहारएसवीसी /2208/02	कावेरी अपार्टमेंट, बांदेरबागीच, डाक- डाक बंगला रोड, थाना- कोतवाली, जिला पटना	बीवीएससीएच / एमयू /62	7.9.37
1247	सुनील कुमार भांडेकर, पुत्र श्री जे.एल. भांडेकर	एमपीएसवीसी /2121/02	207, पश्चिमी नीमरगंज, जबलपुर- 482002	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी /00-01	4.4.79
1248	सुनील कुमार शर्मा, पुत्र श्री राम स्नेही शर्मा	एमपीएसवीसी /2037/02	10/1, आर्यनगर, शायत्री मार्ग, लश्कर रोड, भिंड	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी /00-01	1.7.76
1249	सूरज कुमार सिन्हा पुत्र श्री अवधेश किशोर प्रसाद	बिहारएसवीसी /2108/01	मौह. तिलक नगर, डाक एवं थाना- बेगूसराय, जिला- बेगूसराय, पिन- 851101	बीवीएससीएच / आरएयू /00	3.9.74
1250	सुरेंद्र लाट्टेर, पुत्र श्री राम धारी	हरिएसवीसी /1762	ग्राम एवं डाक बुधा खेरा, लोथार (जींद)	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू /02	5.3.78
1251	सुरेंद्र प्रताप सिंह, पुत्र स्व. श्री बख्त बहादुर सिंह	एचपीएसवीसी /645/02	ग्राम पडारिया, डाक- ओरेच- पडारिया, जिला मैनपुरी (उ.प्र.)	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएण्डटी /67	1.7.46

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1252	सुरेंद्र गिरि, पुत्र श्री नाथुनी गिरि	बिहारएसवीसी / 2192 / 01	ग्राम- सिकंदरपुर, डाक- सिकंदरपुर, थाना- जीबी नगर, जिला- सीवन	बीवीएससीएच / एएयू / 00	1.1.76
1253	सुरेंद्र सिंह शेखावत	राजएसवीसी / 2951 / 03	डी-21, आयकर कॉलोनी, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	17.6.79
1254	सुरेंद्र सिंह मोर्या, पुत्र श्री गोपाल सिंह मोर्या	टीएनवीएएसयू / 2097 / 02	ग्राम एवं डाक उदयगढ़ (कनास), थाना- जोबेत, जिला झबुआ, म.प्र.- 457994	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 00-01	21.6.79
1255	सुरेश अरोड़ा, पुत्र श्री संत लाल	हरिएसवीसी / 1770	917 ए / 25, चिरियोत कॉलोनी, रोहतक	बीवीएससीएच / आरएयू / 01	23.8.77
1256	सुरेश चंद्रकारी, पुत्र श्री के.एस.आर. चंद्र राव	एपीएसवीसी / 3899 / 02	एफ-3, साई कृष्ण कॉम्प्लेक्स, श्री कॉलोनी, आर.के. पुरम, सिकन्दराबाद, 500056, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	3.12.77
1257	सुरेश कुमार सरीन	मणिएसवीसी / 379 / 02	डॉंग यूनिट, लाइमाखोंग	बीवीएससीएच / पीएयू / 70	7.8.47
1258	सुरेश सिंह, पुत्र श्री इंद्रजीत सिंह	यूपीएसवीसी / 3548 / 02	VI- इतौई, जिला अम्बेडकरनगर	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 02	7.2.79
1259	सुरेश यादव, पुत्र स्व. श्री आर.एस. यादव	यूपीएसवीसी / 3546 / 02	VI-उचोरी, डाक-शेखनपुर, जिला- सुल्तानपुर	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 02	27.7.65
1260	सुरजीत सिंह, पुत्र श्री अर्जुन सिंह	एमपीएसवीसी / 2117 / 03	क्वा.न. 24, एन-2-सी-सेक्टर, बारखेडा, भेल, भोपाल- 462021	बीवीएससीएच / एमएएफएसयू / 02	7.8.78
1261	सरकार स्मिता हरीश चंद्र	महाएसवीसी / 6650	प्रियदर्शिनी कॉल. के सामने, बी-120, नागपुर रोड, वर्धा	बीवीएससीएच / एमएएफएसयू / 02	23.11.79
1262	सूर्यवंशी राहुल वसंतराव	महाएसवीसी / 6581	रविराज सांगली-कोल्हापुर रोड, अतीग्रे, हटकनंगेल, कोल्हापुर	बीवीएससीएच / एमपीकेवी / 01	1.7.77
1263	सुशांता कुमार नाइक, पुत्र श्री विजय कुमार नाइक	उड़ीसाएसवीसी / 1891 / 03	एटी / डाक- कुलबा, वाया-संकारा, जिला- सुंदरग्राम- 770029	बीवीएससीएच / ओयूएंडटी / 03	28.10.78
1264	सुशील कुमार पंडित, पुत्र श्री इंद्रदेव पंडित	एमपीएसवीसी / 2083 / 02	डॉ. एच.एस. सिंह, सिविल लाइन्स, डिंलाइट, जबलपुर- 482001	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	20.12.76
1265	सुषमा जी., पुत्री श्री ततइया चौधरी	एपीएसवीसी / 3855 / 02	रायपुरम (डाक), अमृतालुर (एम), गुंटूर जिला, 522341, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	15.5.77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1266	सुषमा ललिता बाखला, पुत्र श्री डेविड बाखला	बिहारएसवीसी /2137/01	ग्राम-हाडियो (तोरा), डाक शिला, थाना सिमरिया, जिला- चतरा	बीवीएससीएच/ आरएयू/00	7.12.75
1267	सुश्रुत अरोड़ा, पुत्र श्री केशव अरोड़ा	वीसीआई/ 2455/04	ई-34, शास्त्री नगर, ईटानगर, बरेली, उ.प्र.- 243122	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	23.5.78
1268	सुसील कुमार सिन्हा, पुत्र डॉ. विजय कृष्ण सिन्हा	बिहारएसवीसी /2195/01	ग्राम- मार्च रोड, पटना सिटी, डाक- बैगमपुर, थाना- चौक, जिला- पटना	बीवीएससीएच/ एमयू/01	7.7.38
1269	सुसील कुमार सिन्हा, पुत्र डॉ. प्रफुल्ल कुमार राम	बिहारएसवीसी /2202/02	ग्राम- बाराहाट, डाक- इशीपुर, थाना पीरपैती, जिला-भागलपुर	बीवीएससीएच/ बीएयू/01	5.1.70
1270	सुसमा सारा, पुत्र श्री वाई.के. कंडुलना	बिहारएसवीसी /2151/01	ग्राम जयपुर, डाक जयपुर, थाना रानिया, जिला- रांची	बीवीएससीएच/ बीएयू/01	21.9.75
1271	सुस्मिता राउत, पुत्री श्री डॉ. ए.के. राउत	उड़ीसाएसवीसी /1875/03	पुष्पा क्लिनिक, घोरबांदा रोड, डाक- लोहाबासा, जमशेदपुर- 831008, बिहार	बीवीएससीएच/ ओयूएण्डटी/03	20.1.78
1272	स्वप्न टी.पी., पुत्री श्री टी.पी. भारतन	एण्डएनएसवी सी/86/02	जनरल मर्चेट, मिडल पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान	बीवीएससी/टीएन वीएएसयू/02	10.8.78
1273	स्वर्णजीत सिंह मागो, श्री किरपाल सिंह मागो	एमपीएसवीसी /2055/02	सेक्टर बी.एच. 47, स्कीम न. 74 सी, विजयनगर, इंदौर- 450002	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 76-77	2.9.54
1274	स्वाति प्रकाश	केरलएसवीसी /2694/02	अस्वथी थुरावूर, डाक चेरथला, अलपुज़ाह- 688532	बीवीएससीएच/ केएयू/02	10.5.78
1275	स्वाति देवी पिल्लई, पुत्री श्री सूर्य नारायण राव	एपीएसवीसी/ 3865/02	प्लॉट न. 53, श्रीराम नगर, एन. जी.ओ. कॉलोनी, गुंटूर- 522006 (आ.प्र.)	बीवीएससीएच/ एनजीआरएयू/ 2002	9.6.78
1276	सैयद फेक अली, पुत्र श्री सैयद मुनीर अली	एपीएसवीसी/ 3829/02	म.न. 3-1-790/1, थग्गी जेल मस्जिद के सामने, निम्बोली अड्डा, हैदराबाद 500027(आ.प्र.)	बीवीएससी/एपीए यू/1983	18.11.43
1277	टी. श्री गणेश चंद्र, पुत्र श्री रामकृष्ण राव	एपीएसवीसी/ 3927/03	2-2-64/37, सी.ई. कॉलोनी, बाग अम्बरपेट, हैदराबाद- 500013, आ.प्र.	बीवीएससीएच/ एनजीआरएयू/ 2002	26.4.78
1278	टी.बी. सिंह, पुत्र स्व. श्री सिद्धेश्वर सिंह	बिहारएसवीसी /2225/02	ग्राम चंदाई, डाक- मखदूमपुर, थाना- मखदूमपुर, जिला- जहानाबाद	बीवीएससीएच/ आरएयू/02	26.7.75

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1279	टी. पांडे, पुत्र श्री जे. पांडे	यूपीएसवीसी / 3672/03	म.न. एस-17/ए-3, श्रीकृष्ण नगर कॉलोनी, वाराणसी	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएण्टी / 68	1.2.44
1280	टी. संजय, पुत्र श्री दामोदर रेड्डी	एपीएसवीसी / 3919/03	म.न. 2-54, सरकारी अस्पताल के सामने, विद्यानगर कॉलोनी, डाक कलूर, खम्मम जिला, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	20.3.79
1281	टी. वेकुटो सेमा, पुत्र श्री तोकेहो सेमा	एनएसवीसी / 178/03	द्वारा वी. किशेवी- डैडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डिपा., दीमापुर, (हाफनागरजा)- 797112	बीवीएससीएच / यूएएस, बंगलौर / 02	16.12.74
1282	ताजदार अनवर, पुत्र श्री इजहार अनवर	बिहारएसवीसी / 2231/02	ग्राम पाथल कुडा, डाक- जीपीओ, थाना लोअर बाजार, जिला- रांची	बीवीएससीएच / यूएएसधारवाड़ / 01	5.9.75
1283	तलापनेनी मदनमोहन, पुत्र श्री मलाकोडियाह	एपीएसवीसी / 3901/02	म.न. 25/1-1792, नेताजी नगर, 8वां क्रॉस रोड, पोडलाकुरु रोड, नेल्लोर-4, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	25.4.77
1284	तलितेमजेन लोंगाकुमार, पुत्र स्व. श्री टेकाशिली	एनएसवीसी / 129/00	द्वारा: मोआला एलकेआर, योजना एवं समन्वयन विभाग, सेक्टरेरिएट कॉम्प्लेक्स, कोहिमा	बीवीएससीएच / डॉ. पीडीके वी / 00	10.6.72
1285	तालोककर सुनील सम्पतराव	महाएसवीसी / 6577	विकास वाड़ी, क्वा.न.3, पंचायत समिति क्वा., जलगांव (जामोद), जिला- बुलधाना- 443402	बीवीएससीएच / एमएयू / 01	7.8.77
1286	तालुकदार अनजान, पुत्र श्री उपेंद्र नाथ तालुकदार	एएसएमएसवी सी / 2052/02	रूपनगर, गुवाहाटी-32	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
1287	तालुकदार बोदंगा, पुत्र श्री दसरथ तालुकदार	एएसएमएसवी सी / 2024/02	जवाहर नगर, मंदिर पथ, बाइलेन -3, खानापाड़ा, गुवाहाटी-22	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
1288	तम्बोली रवीन्द्र लक्ष्मीकांत	महाएसवीसी / 6679	रविराज, म.न. 50, भाग्य नगर, नांडेड, जिला- नांडेड	बीवीएससीएच / पीकेवी / 02	1.11.64
1289	तमिलमणि जी., पुत्र श्री एल. गोविन्दन	वीसीआई / 2405/03	सरवना इत्तम, पीलपारुथी डाक, बोम्मिदी (वाया), धर्मापुर जिला, त.ना.- 6345301	बीवीएससी / टीएन वीएएसयू / 97	24.7.73
1290	तमन्ना गुप्ता, पुत्र श्री के.के. गुप्ता	एचपीएसवीसी / 636/02	हंडेती, टेल. कंट्रोल के निकट, सुंदरनगर, मंडी, हि.प्र.	बीवीएससीएच / सीएसकेएचपीकेवी / 02	17.1.79
1291	तामुली शान्तनु, पुत्र श्री भीम कांता तामुली	एएसएमएसवी सी / 2063/02	बामुनगांव, कामाबोंधा अली, गोलाघाट- 785625	बीवीएससीएच / एएयू / 02	

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1292	तन्मन कौर, पुत्र श्री हरमोहिंदर सिंह	पंजाबएसवीसी / 2422 / 03	115-सी, राजगुरु नगर, लुधियाना- 141004	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	4.8.78
1293	तनुजा नदेला, पुत्री श्री रामाकोटेश्वर राव	एपीएसवीसी / 3846 / 02	द्वारा मोहन राव याडला, 13-16 -43, श्री निकेतन, पिनापाडु, तेनाली, गुंटूर जिला, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	4.4.78
1294	तरम शीतल सीताराम	महाएसवीसी / 6649	रामनगर वार्ड न. 9, गढ़चिरोली जिला गढ़चिरोली	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	8.9.78
1295	तरुणा भाटी	राजएसवीसी / 2883 / 02	द्वारा कैप्टन ए.एस. राठौड़, वी. ओ. 61, कैवेलरी, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 02	27.9.76
1296	तायादे, चंद्रकांत पंडितराव	महाएसवीसी / 6597	31, विलास कॉलोनी, वीएमवी रोड, अमरावती- 444604	बीवीएससीएच / डॉ.पीडीके वी / 95	1.12.73
1297	टेकडे सचिन हरिभाऊ	महाएसवीसी / 6835	एटी डाक धाज खुर्द, तालुक- करंजा, जिला-वाशिम-444110	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	2.7.79
1298	थोपीरेड्डी नागेंद्र रेड्डी, पुत्र श्री औबुल रेड्डी	एपीएसवीसी / 3889 / 02	वीरांगीरेड्डी गरीपल्ली, बी. येरागुड्डी, लक्कीरेडियापल्ली(एम), कुडप्पा जिला-516257, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	1.6.77
1299	थोराट राहुल अनंतराव	महाएसवीसी / 6699	पितलई निवाला, करड, तास गांव रोड, ए/डाका कारे, करड, जिला- सतारा	बीवीएससीएच / एमपीकेवी / 01	22.7.37
1300	थुलीमल्ली सुस्मिता, पुत्री श्री अलंकार राव	एपीएसवीसी / 3859 / 02	डी.न. 59ए-21 / 3-2 / 6, डॉन बोस्को स्कूल रोड, विजय नगर कॉलोनी, ऑटो नगर, विजयवाड़ा - 520007	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2002	22.4.78
1301	तिवारी संतोष कुमार, पुत्र श्री पी.एन. तिवारी	एएसएमएसवी सी / 2048 / 02	ग्राम एवं डाक- चिट्टाखल, जिला- सीवन, बिहार	बीवीएससीएच / एएयू / 02	
1302	तोल्तो मेधा, पुत्र श्री जाकिरतो मेधा	एनएसवीसी / 182 / 03	पी.ओ. बॉक्स- 469, कोहिमा- 797001, नागालैंड	बीवीएससीएच / एएयू / 03	6.1.76
1303	यू.सी. अग्रवाल, पुत्र श्री गौरी शंकर	यूपीएसवीसी / 3664 / 03	गौरी भवन, धामपुर, जिला- बिजनौर	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 68	18.8.48
1304	यू.के. सिंह, पुत्र श्री आर.के. सिंह	यूपीएसवीसी / 3876 / 03	ग्राम एवं डाक- बहियारी बाघेल, जिला- देवरिया, उ.प्र.	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 65	5.1.45

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1305	यू.एम. राव जोनाला गड्डा, पुत्र श्री सत्यनारायण	एपीएसवीसी/ 3832/02	द्वारा: एम.वी. श्री निवास राव, विजेता वेरायटी कॉर्नर, मेनरोड, वीनूकॉंडा, गुंटूर जिला- 522647 (आं.प्र.)	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2001	1.8.76
1306	उदय भूषण महतो, पुत्र श्री हरि कांत प्रसाद महतो	बिहारएसवीसी /2184/01	ग्राम रत्नापुर, डाक- रतनपुर, थाना एचक, जिला हजारीबाग	बीवीएससीएच/ बीएयू/01	29.3.76
1307	उदय प्रसाद यादव, पुत्र श्री राम सुरेश यादव	बिहारएसवीसी /2183/01	ग्राम- गोनाई, डाक- सुपौर जमुवा, थाना- संग्रामपुर, जिला- मुंगेर	बीवीएससीएच/ बीएयू/01	16.2.71
1308	उदय श्री वी.जे.	केरलएसवीसी /2722/02	मुथाडुथु, कुरीपुज़ाह डाक, पेरिनाड, कोल्लम- 691604	बीवीएससीएच/ केएयू/02	3.2.77
1309	उदय नाथ महालिक	उड़ीसाएसवीसी /1915/03	एटी: तालमुल नुआसाही, डाक- तालमुल, जिला- अंगुल- 759040	बीवीएससीएच/ ओयूएंडटी/03	20.4.77
1310	उदगीरे शंकर पीराजी	महाएसवीसी/ 6701	द्वारा सागरोली, गोरेगांव, तालुक- बिलोई, जिला- नांडेड	बीवीएससीएच/ एमएफएसयू/02	5.3.78
1311	उधरवार संजय कुमार विठल राव	महाएसवीसी/ 6638	एटी डाक पलाज, तालुक भोकर, जिला- नांडेड	बीवीएससीएच/ एमएफएसयू/02	10.6.80
1312	उमा संकरी कुपुस्वामी	महाएसवीसी/ 6585	अभिनंदन रेजीडेंसी, बी-14, जगताप नगर, वानावाडी, जिला- पुणे	बीवीएससी/टीएन वीएंडएएसयू/96	22.4.71
1313	उमासंकरी के.	वीसीआई/ 2435/03	बी-14, अभिनंदन रेजीडेंसी, जगताप नगर, वानावाडी, पुणे- 411040	बीवीएससी/टीएन वीएंडएएसयू/94	22.4.71
1314	उमेंद्र कुमार चौधरी, पुत्र श्री राम बृक्ष चौधरी	बिहारएसवीसी /2115/01	ग्राम- इछोश, डाक- इछोश, थाना रसूलपुर, जिला छपरा	बीवीएससीएच/ आरएयू/00	12.12.76
1315	उमेश चंद्र कटियार, पुत्र श्री गजराज सिंह	यूपीएसवीसी/ 3542/02	ग्राम एवं डाक- सरी प्राया, जिला- कन्नौज	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएंडटी/ 72	6.7.47
1316	उमेश किरन बी.एन., पुत्र श्री नाजुनदब	कर्नाएसवीसी/ 3252	न.5, मेस स्कूल के साथ, नागाशेट्टीहल्ली, आरएमवी।। स्टेज, बंगलौर- 94	बीवीएससीएच/ यूएस, बंगलौर/ 02	1.4.79
1317	उमेश कुमार पासवान, पुत्र श्री राम प्रीत पासवान	बिहारएसवीसी /2233/03	ग्राम-अख्तियारपुर, डाक- अख्तियारपुर, थाना सरायरंजन, जिला- समस्तीपुर	बीवीएससीएच/ डब्ल्यूबीयूएंडएफ एसयू/01	10.12.74

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1318	उमेश कुमार, पुत्र श्री प्रेम चंद	पंजाबएसवीसी / 2372 / 02	मैसर्स रामजीदास प्रेमचंद, पशु चारा विक्रेता, सिरकी बाजार, म.न.1103, भठिंडा- 151005	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	11.7.77
1319	ऊसामाली तम्बाली, पुत्र श्री जमालसाहेब तम्बानी	कर्नाएसवीसी / 3414	डाकघर के पीछे, साईनगर, बादामी, बगनलकोट जिला	बीवीएससीएच / यूएसधरवाड / 02	20.7.78
1320	उसैदी एकनाथ शंकर	महाएसवीसी / 6666	एटी- कांहलगांव, डाक पोटेगांव, तालुक एवं जिला- गढ़चिरोली	बीवीएससीएच / डॉ.पीडीके वी / 01	14.7.75
1321	वछानी कपिल कुमार वी.	गुजएसवीसी / 2402 / 02	'गोपीकुंज', वनियावाडी, मेन रोड, सब-स्टेशन के सामने, राजकोट- 360002	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	5.12.79
1322	बडेर परेशकुमार नारनभाई	गुजएसवीसी / 2418 / 02	टोला नकारा, मानवादर, जूनागढ़- 362625	बीवीएससीएच / जीएयू / 02	19.7.79
1323	वागीश चवन, पुत्र श्री मेघा नायरे	कर्नाएसवीसी / 3371	बेविनाहल्ली भरमसागरा, चित्रदुर्गा तालुक एवं जिला- 577519	बीवीएससीएच / यूएसधरवाड / 02	23.2.80
1324	वामसीधर बत्तूला, पुत्र श्री वैकटेश्वरलु	एपीएसवीसी / 3885 / 02	रसायन विभागाध्यक्ष, सिद्धार्थ लेक्चरर्स कॉलोनी, अमरावती, गुंटूर जिला- 522020, आं.प्र.	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2 002	1.7.77
1325	वानी एस., पुत्र श्री सुंदर राज ए.वी.	कर्नाएसवीसी / 3380	48, एसवीके लेआउट, III स्टेज, डब्ल्यूओसी रोड, बासवेश्वर नगर, बंगलौर- 79	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	16.4.80
1326	वनलालमुआका, पुत्र श्री लालजुइथंगा	मिजएसवीसी / 139 / 03	द्वारा वी.एल. रुआता, चांदमारी, आइजवाल, मिजोरम	बीवीएससीएच / आरएयू / 02	16.12.76
1327	वरदा पांडुरंग राव, पुत्र श्री सत्यनारायण	एपीएसवीसी / 3916 / 03	4 / 223, नवाबपेट, मेन रोड, गर्ल्स हाई स्कूल के सामने, नेल्लोर- 524002, आं.प्र.	बीवीएससी / एपीए यू / 84	11.2.63
1328	वरिन्दर सिंह गिंडरा, पुत्र श्री गुरमुख सिंह गिंडरा	पंजाबएसवीसी / 2337 / 02	25, साउथ मॉडल ग्राम, गुरु अर्जुन देव पार्क के सामने, लुधियाना- 141001	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	27.2.77
1329	वर्षा गर्ग, पुत्री श्री जय पॉल गर्ग	पंजाबएसवीसी / 2409 / 03	म.न. 649 / 2, गली न. 14, नई आबादी, अबोहर- 152116	बीवीएससीएच / पीएयू / 01	23.9.78
1330	वासुदेव सुरेंद्र पई, पुत्र श्री जी. सुरेंद्र पई	कर्नाएसवीसी / 3383	गोरेटे, तालुक भटकल, यू.के. जिला, 581320	बीवीएससीएच / यूएसधरवाड / 02	2.7.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1331	वीर विक्रम मल्होत्रा एस., पुत्र श्री ओ.पी. मल्होत्रा	पंजाबएसवीसी /2366/02	म.न. 24, गली न. 6, फिरोजपुर कैंट- 152001	बीवीएससी/टीएन वीएसएसयू/02	29.12.78
1332	वेंकट राव के.वी., पुत्र श्री के.वी. सुब्बा राव	एपीएसवीसी/ 3878/02	18-9-2, सदाशिव बिल्डिंग, केदारेश्वरपेट, 11 लाइन, विजयवाड़ा- 520003, आं.प्र.	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	27.4.78
1333	वेंकटाचलपति जे.एन., पुत्र श्री नारायण स्वमी एन.	कर्नाएसवीसी/ 3384	नम्बीहल्ली, श्रीनिवासपुरा तालुक, कोलार जिला- 563126	बीवीएससीएच/ यूएस, बंगलौर/ 02	30.4.79
1334	वेंकटेशन आर., पुत्र श्री टी. रामासामी	वीसीआई/ 2439/04	प्राइमेट रिस. सेंटर, नेशनल इंस्टी. ऑफ इम्यूनोलॉजी, अरुणा आसफ अलीमार्ग, जेएनयू कैम्पस, नईदिल्ली	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/ 97	6.5.74
1335	वेंकोबापा जे. टिकारे, पुत्र श्री जीवप्पा	कर्नाएसवीसी/ 3320	डाक अलावंडी, तालुक एवं जिला कोप्पल	बीवीएससीएच/ यूएसधरवाड़/ 01	19.4.77
1336	विक्टर पॉल डिसूजा, पुत्र श्री पॉल डिसूजा	एपीएसवीसी/ 3831/02	'विकशील' बी-137, सैनिकपुरी, दूसरा मेन रोड, सैनिकपुरी, सिकंदराबाद- 500094	बीवीएससी/ बम्बई विवि/ 1974	23.7.47
1337	विधि मोदी, पुत्री श्री मधुसूदन मोदी	एमपीएसवीसी /2106/03	4 शिला कम्पाउंड, दक्षिणी सिविल लाइंस, जबलपुर, म.प्र.- 482001	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	20.6.79
1338	विद्या अविनाश गोविंदराव	कर्नाएसवीसी/ 6571	मांगलया, प्लॉट न. 7, श्री देवनाथ नगर, सुरजी, तैसील अंजनगांव के निकट, सुरजी, जिला अमरावती	बीवीएससीएच/ पीकेवी/75	10.1.49
1339	विद्या रानी के.	केरलएसवीसी /2740/02	श्रीनिवास के.सी, 71306, कैराली नगर, मुलनकडाकोम वार्ड, कोल्लन-12-691012	बीवीएससीएच/ केएयू/02	19.4.77
1340	विद्या शंकर सिन्हा, पुत्र श्री अर्जुन प्रसाद	बिहारएसवीसी /2217/02	ग्राम गुरू, डाक- सांदा, थाना- इशलामनपुर, जिला- नालंदा	बीवीएससीएच/ आरएयू/01	1.3.77
1341	विजय कुमार अग्रवाल	राजएसवीसी/ 2908/03	बस स्टैंड रोड, बेहरोड़, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएच/ आरएयू/03	15.7.76
1342	विजय कुमार एम., पुत्र श्री शरनइयाह	एपीएसवीसी/ 3840/02	म.न. 8-8-21, मोमिनगल्ली, पुराना तंदूर, आर.आर. जिला (आं.प्र.)	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2000	15.8.78
1343	विजय कुमार साक्या, पुत्र श्री बाबूलाल साक्या	एमपीएसवीसी /2068/02	एम.एस. राडे, अंतारी कैलारस डाक बंगला, मुरैना, म.प्र.- 476224	बीवीएससीएच/ जेएलएनकेवीवी/ 01-02	8.6.77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1344	विजय मुंडा, पुत्र स्व. श्री सरहुल मुंडा	बिहारएसवीसी /2189/01	ग्राम- पतरातु, डाक- बोडेया, थाना कनके, जिला- रांची	बीवीएससीएच / बीएयू/01	15.1.73
1345	विजय सिंह शेखावत	राजएसवीसी /2939/03	52, नवजीवन कॉलोनी, खाटीपुरा, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू/03	25.4.75
1346	विजय सिंह यादव, पुत्र श्री ज्ञान चंद यादव	हरिएसवीसी /1 726	132, पुलिस कॉलोनी, आईआई टी चौक, हॉस खास, नई दिल्ली-16	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू/01	30.3.77
1347	विजय सिंह यादव, पुत्र श्री ज्ञान चंद यादव	हरिएसवीसी /1 726	132, पुलिस कॉलोनी, आईआईटी चौक, हॉस खास, नई दिल्ली-16	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू/01	30.3.77
1348	विजया तिवारी, पुत्री श्री पी.एम. तिवारी	एमपीएसवीसी /2041/02	सिंधी कॉलोनी, गांधी वार्ड, बीना सागर- 470113	बीवीएससीएच / जेएलएनकेबीवी/87-88	1.7.62
1349	विजयपाल सिंह जादों, पुत्र श्री छोटे सिंह जादों	एमपीएसवीसी /2048/02	8/1072, महेंद्र नगर, गडईपुरा, बिरला नगर, ग्वालियर- 474002	बीवीएससीएच / जेएलएनकेबीवी/00-01	30.10.73
1350	विजेंदर सिंह, पुत्र श्री धरमपाल सिंह	हरिएसवीसी /1 759	1487/7, मेहम, रोहतक	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू/02	14.11.78
1351	विकास गालव	राजएसवीसी /2945/03	77-बी, टीअएल टाउनशिप, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू/03	10.8.76
1352	विकास गालव, पुत्र श्री आर.एस. गालव	वीसीआई /2421/03	4-एल-18, रंगबाड़ी, योजना, कोटा, राजस्थान- 324005	बीवीएससीएच / आरएयू/01	21.4.77
1353	विकास सैनी, पुत्र श्री पूरन सिंह	हरिएसवीसी /1 743	6 टाइप- 5, विद्युत नगर, हिसार	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू/02	3.11.77
1354	विकास सक्सेना, पुत्र श्री कैलाश चंद्र	यूपीएसवीसी /2549/02	म.न. 16, शिवपुरी	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी/02	23.1.79
1355	विकास शर्मा, पुत्र श्री वरिन्दर कुमार	पंजाबएसवीसी /2354/02	गली न. 5, हीरा बाग, जगरांव, लुधियाना	बीवीएससीएच / पीएयू/02	18.1.79
1356	विकाश चंद्र, पुत्र श्री सिया राम	यूपीएसवीसी /3569/02	ग्राम-कखानीपुर, डाक बुधवान (अमौली), जिला- फतेहपुर	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी/02	15.5.76
1357	विक्रम सिंह	राजएसवीसी /2938/03	947/46, आदर्श नगर, अजमेर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू/03	11.3.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1358	विक्रान्त सिंह चौहान	राजएसवीसी / 2989 / 03	पी.एंडटी. कॉलोनी, क्वा.न.-18, टाइप III, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	25.9.78
1359	विनय गौर मीना	राजएसवीसी / 2943 / 03	राम द्वारा गली, घोड़ों का चौक, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	6.9.76
1360	विनय कुमार यादव	राजएसवीसी / 2901 / 03	ग्राम- मूहपुर, डाक- भोकर, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएच / एएयू / 02	28.12.77
1361	विनय लोमेश, पुत्र श्री संतोष कुमार लोमेश	एमपीएसवीसी / 2112 / 03	337, तानसेन नगर, ग्वालियर, म.प्र.	बीवीएससीएच / एमएफएसयू / 02	24.8.77
1362	विनय मोहन खत्री	राजएसवीसी / 2906 / 03	सरदार पटेल मार्ग, म्यूनिसिपैलिटी के पीछे, बाड़मेर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	5.9.78
1363	विनोद कुमार मेहता, पुत्र श्री बलदेव मेहता	बिहारएसवीसी / 2222 / 02	ग्राम- बौराहा, डाक- बौराहा, थाना- फरजाइन, जिला- सुपौल	बीवीएससीएच / डब्ल्यूबीयूएंडएफ एसयू / 01	5.1.77
1364	विनोद कुमार, पुत्र श्री शेरिंग तंडप	एचपीएसवीसी / 635 / 02	ग्राम एवं डाक- शानसे, तह. एवं जिला- ला. एवं स्पिति, हि.प्र.	बीवीएससीएच / सीएसकेएचपीकेवी / 02	18.1.77
1365	वीरेंद्र, पुत्र श्री लखी राम	हरिएसवीसी / 1 751	ग्राम एवं डाक- खेरकारा, रोहतक	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 02	10.12.75
1366	वीरेंद्र शर्मा	राजएसवीसी / 2994 / 03	वसंत विहार, सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	13.7.76
1367	विश्वनाथ विट्टल बंती, पुत्र श्री विट्टल आर. बंती	उड़ीसाएसवीसी / 3342	डाक हारुगेरी, तालुक रायबाग, जिला बेलगाम	बीवीएससीएच / यूएसधारवाड़ / 02	20.7.77
1368	विश्वनाथ टोपो, पुत्र श्री अंतु टोपो	बिहारएसवीसी / 2162 / 01	ग्राम- गोपालगंज, चादरी, डाक- जीपीओ, रांची, थाना लोअर बाजार, जिला- रांची	बीवीएससीएच / बीएयू / 01	2.12.76
1369	विवेकानंद, पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता	वीसीआई / 2447 / 04	फुलवारी शरीफ, चौराहा, पटना- 801505	बीवीएससीएच / डब्ल्यूबीयूएंडएफ एसयू / 02	26.11.78
1370	वोड्डेपल्ली रमेश, पुत्र श्री इलइयाह	एपीएसवीसी / 3 836 / 02	नाचिनापल्ली, डुग्गोन्डी (एम), वारंगल जिला- 606331 (आं. प्र.)	बीवीएससीएच / एएनजीआरएयू / 2 001	1.6.73

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1371	वाघये जीतेंद्र योगेश	महाएसवीसी/6 594	सामर्थ नगर (पश्चिम), लखानी, तालुक- लखानी, जिला- भंडारा- 441804	बीवीएससीएच/ डॉ.पीडीके वी/96	9.4.73
1372	वालमबोक एम. लिंगडोह, पुत्र श्री के. के. मरबनियांग	मैधएसवीसी/ 202/03	मौलाई, मौरोह, शिलोंग- 793008	बीवीएससीएच/ एएयू/03	10.1.79
1373	वंजारी भागचंद वासुदेव	महाएसवीसी/6 622	द्वारा डॉ. किशोर बनसोड, सरकारी क्वा. न. सी-12/3, रवि नगर, नागपुर	बीवीएससीएच/ एमएएफएसयू/02	7.4.80
1374	वानखेडे योगेश रामाराव	महाएसवीसी/6 673	ढांगरगल्ली, म्हासेवाड, तालुक जलगांव, जिला- जलगांव	बीवीएससीएच/ केकेवी/01	12.3.77
1375	वरदे सचिन कुमार दिगम्बर	महाएसवीसी/6 618	एटी डाक- ताकरखेड, तालुक - नंदूरा, जिला- बुलधाना- 443103	बीवीएससीएच/ एमएएफएसयू/02	26.1.80
1376	वासे मिलिंद प्रभाकर, पुत्र श्री प्रभाकर अमदास्त	वीसीआई/ 2414/03	कमांडेंट (वेट.), टाइप- IV /11, आईटीबीपी कैम्प, टिगरी नई दिल्ली	बीवीएससीएच/ पीआरकेवीपी/86	23.11.82
1377	वाई. मनोज अरुण कुमार, पुत्र श्री सत्यराजू	एपीएसवीसी/3 880/02	म.न. 16-4, किशन सिंह स्ट्रीट, अत्माकुर, जिला- कुर्नूल- 518422, आं. प्र.	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	11.6.77
1378	वाई कृष्णा रेड्डी, पुत्र श्री राम रेड्डी	एपीएसवीसी/3 830/02	म.न. 16-11-511/डी/26, शालिवाहन नगर, दिलसुख नगर, हैदराबाद (आं.प्र.)	बीवीएससी/एपीए यू/1968	15.1.45
1379	वाई.पी. सिंह पवार, पुत्र श्री टीका राम पवार	यूपीएसवीसी/ 3640/03	डी-125, फेस-1, लल्लुपुरम, मोदीपुरम, मेरठ	बीवीएससीएच/ जीबीपीयूएण्डटी/ 71	8.8.47
1380	वाई. वेनुगोपाल राव, पुत्र श्री सत्यम	एपीएसवीसी/3 909/03	म.न. 4-129/2, नया नगर, कोडाड- 508206, नालगोंडा जिला, आं.प्र.	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/2 002	13.11.74
1381	यादला प्रदीप चंद्रा, पुत्र श्री चंनइयाह	एपीएसवीसी/3 895/02	आर.के. हाई स्कूल, चकालाकोडा, विन्जामूर (एम), नेल्लोर जिला- 527221, आं.प्र.	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	9.6.79
1382	यमनी सुरेश, पुत्र श्री रामा मूर्ति	एपीएसवीसी/3 862/02	गुंडेपल्ली, मारीपेडा (एम), वारंगल जिला- 506315 (आं. प्र.)	बीवीएससीएच/ एएनजीआरएयू/ 2002	25.4.78
1383	यशोदा पी, पुत्र श्री पुट्टाबियाटप्पा बी.	कर्नाएसवीसी/ 3316	14, बी.ए.जी.एस. लेआउट, न्यू बेल लेआउट, बंगलौर-94	बीवीएससीएच/ यूएस, बंगलौर/ 01	3.2.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1384	यशपाल सिंह, पुत्र श्री बानी माधव	यूपीएसवीसी / 3688 / 03	ग्राम एवं डाक- सादेवपुर, जिला- हरदोई, उ.प्र.	बीवीएससीएच / जीबीपीयूएंडटी / 92	7.7.64
1385	यशपाल सिंह, पुत्र श्री सुजान सिंह	पंजाबएसवीसी / 2396 / 03	1912, महाराज नगर, गली न.4, लुधियाना	बीवीएससीएच / सीसीएसएचएयू / 98	20.7.75
1386	योगानंद एन.एस., पुत्र श्री सिद्दगौड़ा एन.	कर्नाएसवीसी / 3407	डाक नयावारा, तालुक चन्नापाटन, ग्रामीण बंगलौर-562108	बीवीएससीएच / यूएस, बंगलौर / 02	20.7.78
1387	योगेंद्र कुमार घोड़ेश्वर, पुत्र श्री राम दास घोड़ेश्वर	एमपीएसवीसी / 2039 / 02	डाक- बिरसा, थाना- बैहर, जिला- बालाघाट- 481051	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 00-01	14.9.75
1388	योगेश गुप्ता	राजएसवीसी / 2934 / 03	चौबुर्जा के निकट, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	1.3.76
1389	योगेश गुप्ता, पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता	वीसीआई / 2445 / 04	152, तीसरी मंजिल, राजा गार्डन, नई दिल्ली- 110015	बीवीएससीएच / एचएयू / 85	13.9.64
1390	योगेश कुमार गुप्ता	राजएसवीसी / 2974 / 03	द्वारा राजीव मशीन स्टोर, इन्द्रा सर्कल नगर के निकट, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	3.2.75
1391	योगेश कुमार सिंघल	राजएसवीसी / 2917 / 03	सी-35, मोहन नगर, हिण्डौन सिटी, राजस्थान	बीवीएससीएच / आरएयू / 03	8.10.77
1392	योगेश कुमार, पुत्र श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा	एमपीएसवीसी / 2093 / 02	ए-5, सूर्यनगर, शब्दारप्रताप आश्रम, ग्वालियर	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	5.9.74
1393	योगेश सिंह सेंगर, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सेंगर	एमपीएसवीसी / 2095 / 02	उप्पल मोटर वर्कशॉप के निकट, बारासामान, रीवा-486001	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	1.6.78
1394	योगेश कुमार, पुत्र श्री पूनम चंद पहाड़िया	एमपीएसवीसी / 2122 / 03	म.न. 813, कोतपाली वार्ड, मिलोनीगंज पहाड़िया मार्ग, जबलपुर- 482002	बीवीएससीएच / जेएलएनकेवीवी / 01-02	29.11.72
1395	योगी मिश्रा, पुत्र श्री नरिन्दर सिंह मिश्रा	पंजाबएसवीसी / 2357 / 02	म.न. 1390, गली न. 1, लाजपत राय रोड, जगरांव, लुधियाना	बीवीएससीएच / पीएयू / 02	11.11.80
1396	युवराज हेगडे एम.एन. पुत्र श्री के. नागप्पा	कर्नाएसवीसी / 3390	डाक हिरियूर, तालुक भद्रावती, जिला- शिमोगा	बीवीएससीएच / यूएसधारवाड़ / 02	7.8.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1397	जकिया टी.	केरलएसवीसी /2743/02	मलायिल, सिवापुरम, वटओली बाजार डाक, बालूसैरी, कोजीकोड- 673623	बीवीएससीएच/ केएयू/02	10.5.78
1398	जम्बारे विजय गोविंद राव	महाएसवीसी/6 686	गावंडे प्लॉटस, फुल्सावांगी रोड, महागांव, तालुक महागांव, जिला- यवतमाल	बीवीएससीएच/ एमएएफएसयू/02	18.2.77
1399	जेटेवे लेकरो, पुत्र श्री केवेत्सु लेकरो	एनएसवीसी/ 03	द्वारा मॉडर्न बुक स्टॉल, फुल्सेरो, जिला- फेक, नागालैंड	बीवीएससीएच/ एएयू/03	11.2.74

भारत के अतिसाधारण गजट जीएसआर सं. 644 (ई) के भाग- II, धारा-3, उप-धारा (1) में प्रकाशित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिसूचना सं. 439, दिनांक 11.11.97 के अनुसार, भारतीय पशुचिकित्सा रजिस्टर, 1996 में निम्नलिखित क्रम संख्याओं के पतों में परिवर्तन हो गया है, अतः पुराने पतों के स्थान प्रयोग किए जाने वाले नए पते इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	नया पता
2681	डॉ. उमाकांत चतुर्वेदी	0369/95	पुत्र स्व. श्री मथुरा प्रसाद चतुर्वेदी, डाक करेला, जिला- कटनी
1006	डॉ. कैलाश सिंह राजपूत	0028/95	पुत्र श्री जे.एस. राजपूत, माला फाटक, बेगम गंज, जिला-रायसेन-464881
1672	डॉ. प्रशांत महादिक	0534/95	एम.जी. रोड, पशुचिकित्सा अस्पताल परिसर, जिला-शाजापुर-465333
2203	डॉ. संगीता धमीजा	297/95	पुत्री श्री एस.एल. सचदेव, 200 बी सेक्टर, इन्द्रापुरी, भोपाल-462023
2908	डॉ. वानी अग्निहोत्री	232/95	पुत्री स्व. श्री बी.बी. अग्निहोत्री, एफ-90/15, दूसरा बस स्टॉप, तुलसीनगर, भोपाल- 462003

भारत के अतिसाधारण गजट जीएसआर सं. 269 (ई) के भाग- II, धारा-3, उप-धारा (1) में प्रकाशित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिसूचना सं. 183, दिनांक 15.4.99 के अनुसार, भारतीय पशुचिकित्सा रजिस्टर, 1997 में निम्नलिखित क्रम संख्याओं के पतों में परिवर्तन हो गया है, अतः पुराने पतों के स्थान प्रयोग किए जाने वाले नए पते इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	नया पता
11	डॉ. अभिलाष सिंह परमार	0699/96	पुत्र श्री पी.एस. परिहार, इमलीखेडा, जिला- छिंदवाड़ा- 480001
1061	डॉ. विजय कुमार मोरे	0849/97	पुत्र श्री रामाकृष्ण मोरे, 78, दयानंद मार्ग, धाड़- 454001
760	डॉ. कमलेश कुमार शर्मा	0611/96	पुत्र श्री शिव नारायण शर्मा, एकता विहार कॉलोनी, ग्वालियर
1419	डॉ. राकेश कुमार शर्मा	0896/97	पुत्र श्री के.पी. शर्मा, डी-2, श्री रामनगर कॉलोनी, भदोरिया मार्केट, दर्पण कॉलोनी, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर

1424	डॉ. राकेश सिंह	0876/97	पुत्र श्री शिरोमणि सिंह, खेरमाई मंदिर के निकट, खजूरी टोला, सतना- 485001
1060	डॉ. मनोहर लाल शर्मा	0750/96	पुत्र श्री सदाशिव शर्मा, एफ-8, सिविल लाइंस, देवास- 455001
2161	डॉ. विनोद कुमार	0737/96	पुत्र श्री सीताराम पटेल, ग्राम फतेहपुर, डाक एवं थाना-बेगमगंज, जिला-रायसेन
400	डॉ. देवकृष्ण परसाई	0706/96	पुत्र श्री राधाकृष्ण परसाई, विहवास्वरूप कॉलोनी, गोपाल होटल के सामने, विस्तान रोड, खरगोन- 451001
764	डॉ. कंचन कुमार सक्सेना	0743/96	श्री वी.पी. सक्सेना, 13/217, नेहरू नगर, रीवा- 486001

भारत के अतिसाधारण गजट जीएसआर सं. 600 (ई) के भाग-11, धारा-3, उप-धारा (1) में प्रकाशित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिसूचना सं. 420, दिनांक 23.8.01 के अनुसार, भारतीय पशुचिकित्सा रजिस्टर, 1998 में निम्नलिखित क्रम संख्याओं के पतों में परिवर्तन हो गया है, अतः पुराने पतों के स्थान प्रयोग किए जाने वाले नए पते इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	नया पता
554	डॉ. बसंत कुमार	0984/97	पुत्र श्री भूपाल सिंह, एफ-3, कालीमाई मंदिर, झांसी रोड, शिवपुरी- 473551
1441	डॉ. राम कुमार त्यागी	0608/96	पुत्र श्री सीता राम त्यागी, जवाहरगंज, डाबरा, जिला- ग्वालियर- 475110
827	डॉ. भुवनेश कुमार साहू	1337/98	पुत्र श्री जे.एल. चौधरी, आफिसर्स कॉलोनी, बदनावर, धाड़- 454660
5180	डॉ. कुमारी पम्पा राय	1071/97	पुत्री स्व. श्री ए.के. राय, 16, आशीर्वाद होम्स, बेदीनगर, जबलपुर- 482001
5216	डॉ. प्रदीप कुमार पांड्या	1117/97	सरकारी क्वा. ब्लॉक कॉलोनी, जिरनिया, जिला- खार 451332
4489	डॉ. कु. नीना त्रिपाठी	1149/98	278, रचना नगर, भोपाल- 462023
28	डॉ. अभिजीत शुक्ला	1158/98	ई-6 एमआईजी, 124, अरेरा कॉलोनी, भोपाल- 462016
1341	डॉ. कु. दीपाली पात्रे	1205/98	द्वारा एम.एस. पित्रे, ई-8/23, शिवकुंज, अरेरा कॉलोनी, भोपाल- 462016
322	डॉ. अरविंद महाजन	1182/98	पुत्र श्री एस.जी. महाजन, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पीडब्ल्यूडी क्वा., भीखनगांव, खारगांव
2618	डॉ. जीतेंद्र कुमार अग्रवाल	1380/98	पुत्र श्री हरिबाबू अग्रवाल, वीएस, पशु चिकित्सा अस्पताल, सिगांव, जिला- खारगांव
6995	डॉ. उमेश दात्रे	1480/98	एमआईजी 8, ड्यूलेक्स, न्यू दर्पण कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर

3998	डॉ. मेघसिंह बाघेल ग्राम	1460/98	तुर्कपुरा, डाक- गोपालपुर, मिड- 477001
5732	डॉ. कु. ऋतु बहादुर सिंह जैन	1379/98	ई.डी.एक्स.-18, मीनल रेजिडेन्सी, भोपाल
3890	डॉ. कु. संगीता शर्मा	1179/98	146/3, हमीदिया हॉस्पिटल कैम्पस, भोपाल- 462001

भारत के अतिसाधारण गजट जीएसआर सं. 792 (ई) के भाग-11, धारा-3, उप-धारा (1) में प्रकाशित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिसूचना सं. 535, दिनांक 22.10.01 के अनुसार, भारतीय पशुचिकित्सा रजिस्टर, 1999 में निम्नलिखित क्रम संख्याओं के पतों में परिवर्तन हो गया है, अतः पुराने पतों के स्थान प्रयोग किए जाने वाले नए पते इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	नया पता
388	डॉ. चिंतामणि पाल सदरा	1643/98	इटारसी रोड, हनुमान मंदिर के निकट, बेतुल- 460001

डा० अनुप भौमिक, सचिव

[विज्ञापन/III/IV/141/2004-असा.]

VETERINARY COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2004

F. No. 10-7/2003-VCI.— Whereas the Veterinary Council of India in pursuance of sub-section (1) of Section 23 of Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) is required to maintain a register known as Indian Veterinary Practitioners Register which shall contain the names of all persons who possess the recognised veterinary qualification and who are for the time being enrolled on State/UT Veterinary Council of the State to which this Act extends.

Now, in exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 23 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) the Secretary, Veterinary Council of India directs that supplement to Indian Veterinary Practitioners Register, 2003 shall be published in the Gazette of India for general information.

SNOM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1	A.K.Singh,S/o Sh R.P.Singh	UPSVC/3 704/03	Hathaora Road,Teacher's Colony,Wazir Ganj,Dt-Budrun	BVSc&AH/GB PUA&T/82	10.9.60
2	A.K.Srivastava,S/o Sh H.K.Srivastava	UPSVC/3 595/02	1559 KHA/161 Shrinagar,Lucknow	BVSc&AH/GB PUA&T/02	30.11.75
3	A.K.Srivastava,S/o Sh Kailash Srivastava	UPSVC/3 571/02	Vill-Kausar,Po-Kheodei,Dt- Deoria UP	BVSc&AH/GB PUA&T/02	30.4.76
4	A.Panindra Reddy S/o Lakshmi Narayana Reddy	APSVc/38 90/02	Arakatavemula, Rajupalem (M), Cuddapah Dt. A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	10.6.78
5	A.U. Chaitanya S/o Prasada Rao	APSVc/39 13/03	C/o G. Pattabhirani Reddy, Devalalamitta, Varigonda (V), T.P. Gudur (M), Nellore Dt. A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	15.8.77
6	A.Venugopal,S/o Sh.Rajaiah	APSVc/38 41/02	H.No.1-4-69/2,Street NO.8,Habsiguda,Hyderabad- 7(A.P)	BVSc.&AH/AP AU/1985	03.06.62
7	Abdul Gafoor P.A	KeralaSV C/2698/02	Puthiya Veetil House, Thalikulam P.O Thrissur- 680569	BVSc&AH/KA U/02	21.5.79
8	Abdul Mazid,S/o Sh Wali Mohammd	Pb.SVC/2 418/03	Vill-Binjoki Khurd,P/o Hyder Ng, The-Malerkotla	BVSc&AH/PA U/03	17.5.76
9	Abhimanyu Kumar,S/o Late Sh Narayan	BiharSVC/ 2119/01	Vill-Nayasabajpura Near Khagaul,PO-Khagaul,Thane- Danapur,Dt-Patna	BVSc&AH/Bih ar Uni/60	10.9.38
10	Abilash P.S.	KeralaSV C/2696/02	Poikkadan House, K.K. Padam, Kuttichira P.O, Chalaky, Thrissur-680721	BVSc&AH/KA U/02	02.5.77
11	Adeline Emerald Passah,D/o Sh.J.S.Khonglah	MeghSVC /195/02	Mynthong,Jowai,Jaintia Hills, Dt- 793150	BVSc&AH/AN GRAU/01	16.7.78
12	Aditya Kumar Misra,S/o Sh Lakshpat Rai Mishra	VCI/2419/ 03	Professor(Argco)Coll of Vety & Animal Sci,GBPUA&T,Pant Nagar,U.S.Ng,Uttaranchal	BVSc&AH/CS AKEPVV/79	6.1.57
13	Aftab Aadil, S/o Late Md Alihuddin	BiharSVC/ 2150/01	Vill-Adhinbad Semar Toli,PO- Kanke,Thane-Kane,Dt-Ranchi	BVSc&AH/BA U/01	19.11.74
14	Agawane Sachin Bharat	MahaSVC /6592	Shri Datta Shoe Mart, Vijay Chowk, Akuj, Tal Malshiras, Dist, Solapur-413101	B.V.Sc&AH/M PKV/01	30.8.78
15	Ahire Sunil Jagannath	MahaSVC /6607	28 A, Navjivan Society, Ekata Colony Market Yard, Nakane Road, A/p Nakane, Tal-Dist- Dhule	B.V.Sc&AH/M PKV/01	25.1.79

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
16	Ahmed Md. Shahaj Uddin, S/o Shaher Ali	ASMSVC/2029/02	Vill-Behbari, PO-Thamna, Dt-Nalbari	BVSc&AH/AA U/02	
17	Ajay Kumar Dubey, S/o Dr. K. N. Dubet	UPSVC/3559/02	Vill-Arjunpur, PO-Bhisempur Via-Sevapuri, Varanasi	BVSc&AH/GB PUA&T/02	3.1.78
18	Ajay Kumar Singh, S/o Shri Wakilprasad Singh	MPSVC/2116/03	123-B Rajendra Nagar, Indore-452012	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	5.2.74
19	Ajay Kumar, S/o Sh Som Nath	HarSVC/1747	Panjabi Colony, Julana Jind	BVSc&AH/CC SHAU/02	3.10.78
20	Ajay Kumar, S/o Sh Yugeswar Ravidas	BiharSVC/2103/01	Vill-Neruth, PO-Neruth, Thane-Sarey, Dt-Nalanda, Pin-803107	BVSc&AH/RA U/00	21.8.77
21	Ajay Nath Goswami	RajSVC/2904/03	Near I.B. Office, Sardarpura Barmer, Raj	BVSc&AH/RA U/03	29.4.77
22	Ajayvir Singh Sirohi, S/o Sh Surajmal Sirohi	Pb. SVC/2394/02	H.No. 1912, St. No. 4, Maharaj Nagar, Ludhiana-141001	BVSc&AH/CS AKEPVV/98	1.11.72
23	Ajeet Kumar	Pb. SVC/2381/02	HJ-366, BRS Nagar, Ludhiana	BVSc&AH/RA U/99	4.5.75
24	Ajeet Kumar Gupta, S/o Late Sh K.P. Gupta	UPSVC/3580/02	VI&PO-Bishunpur, Gorakhpur	BVSc&AH/GB PUA&T/94	1.1.70
25	Ajit Kumar, S/o Sh Gobind Prasad	BiharSVC/2100/01	Vill-Chandashi, PO-Noorsarai, Thane-Noorsarai, Dt-Nalanda, Pin-803113	BVSc&AH/RA U/00	2.10.76
26	Ajit Kumar, S/o Sri Ram Charitra Singh	BiharSVC/2179/01	Vill-Korma, PO-Warsiliganj, Thane-Warsiliganj, Dt-Nawada	BVSc&AH/DR. BSKKVP/01	20.2.77
27	Ajith Kumar C.B	KeralaSV C/2754/02	Chakkalakkal House, Perichery P. O, Trissur-680306	BVSc&AH/KA U/02	16.1.73
28	Akarte Ahish Anilpant	MahaSVC /6656	Irrigation Colony, Gorakshan Rd, Akola	BVSc&AH/MA FSU/02	22.7.77
29	Akavi Sema, S/o Kahuto Sema	NSVC/0144/00	C/o Kiyeshe Achumi Arms & Judicial Branch, D.C. Office, Zunheboto, Nagaland	BVSc&AH/Dr. PDKVP/00	24.12.75
30	Akhil Choudhary, S/o V.S. Choudhary	HarSVC/1727	I/c HCBC, Anchera Kalan Jind	BVSc&AH/CC SHAU/97	23.6.75
31	Akhilesh Pandey, S/o Sri NarSingh Pandey	BiharSVC/2171/01	Vill-Jasa, Po-Chitvisran, Thane-Nagar Utari, Dt- Garwa	BVSc&AH/BA U/01	23.1.73

SNOM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
32	Akhileshwar Thakur, S/o Sri Kaplu Thakur	BiharSVC/2201/01	Vill-Hatni PO- Hatni, Thane-Ghoghardiha, Dt-Madhubani	BVSc&AH/MA U/01	6.10.72
33	Akotkar Nandkishor Sukhdeorao	MahaSVC/6629	Sahara Poultry Farm, Anjangaon Rd, A/P Panaj, Tal-Akot, Dt-Akola	BVSc&AH/MA FSU/02	28.6.79
34	Akshpreet Singh, S/o Sh Harnek Singh & Smt Surjeet Singh	Pb.SVC/2333/02	H.No.2286, Phase-II, Urban Estate, Dugri, Ludhiana	BVSc&AH/PA U/02	9.10.78
35	Alexander G, S/o M.Govindaraj	VCI/2416/03	Adambai South(PO), Pattukottai(TK), Thanjavur, T.N	BVSc/TNV&AS U/97	25.5.74
36	Alka Singh, D/o Sh Dwarika Prasad	UPSVC/3565/02	Pilibhit Bypass Road, Opp-Panchheel Colony, Bareilly UP	BVSc&AH/GB PUA&T/02	1.6.79
37	Alka, D/o Sh Krishan Gopal	Pb.SVC/2411/03	Dhir Street, Near Bus Stand Mansa-151505	BVSc&AH/PA U/01	20.6.79
38	Alka, D/o Sh L.B.Prasad	VCI/2420/03	H-62 Dharampura, Najafgarh, New Delhi-43	BVSc&AH/RA U/01	26.8.77
39	Allan Raj Kullu, S/o Sh T.R. Kullu	OrissaSV C/1908/03	Qr.No.IB-313, HAL Township Sunabad-2, Dt-Koraput	BVSc&AH/OU A&T/03	27.12.77
40	Alok Sharma S/o Shiv Kumar	HPSVC/639/02	Vill. & P.O Paragpur, Distt. Kangra, HP	BVSc & AH/Udai Uni/80	13.5.58
41	Alone Deepak Bapurao	MahaSVC/6572	Panchayat Samiti Quarter, Bombay Highway No.6, Nandura, Tal-Nandura, Dt-Buldhana	B.V.Sc&AH/PK V/81	27.8.55
42	Alone Subas Dadarao	MahaSVC/6665	C/o Alone Shopping Complex, Golibar Chowk, Darwa, Dist Yeotmal	B.V.Sc&AH/Dr. PDKV/01	11.11.68
43	Alpha Raj Mekapogu, S/o Sh.M.Devarajulu	APSVC/3847/02	Plot No.135, Ganesh Nagar, Near C.Camp, Kurnool-518002(A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	31.05.78
44	Amal Majumdar, S/o Sh Joy Kumar Majumdar	TripuraVC/138/02	PO&Vill-Santir Bazar, Hospital Road, Dt-Tripura South	BVSc&AH/AA U/95	15.1.69
45	Amandeep Kaur Mohi, D/o Sh Harnek Singh	Pb.SVC/2361/02	169-A Focal Point, Rajpura-140401	BVSc&AH/PA U/02	1.01.78
46	Amandeep Singh Toor, S/o Sh Zora Singh & Smt Paramjeet Kaur	Pb.SVC/2330/02	VPO. Sowaddi Kalan. Dt-Ludhiana	BVSc&AH/PA U/01	18.10.78
47	Amandeep Singh, S/o Sh Nachhatter Singh	Pb.SVC/2426/03	St.No.4, K.C.Road, Barnala-148101	BVSc&AH/PA U/03	18.9.75
48	Amar Singh, S/o Shri Ram Swaroop Diwakar	MPSVC/2081/02	Gram-Bagiapura, PO-Bounapura, Dt-Bhind-477001	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	25.5.77

SNO	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
49	Ambaray Kamanamani S/o Malakanna Kamanaman	KarnaSVC /3345	Aralaguindagi Post Jewargi TQ. Gulbarga Dist.	BVSc&AH/UA S,Dharwad/02	01.06.78
50	Ambili V. S.	KeralaSV C/2720/02	Valiya Parambil House, Kallippadam, Kulapully P.O., Shomur-2 Palakkad-679122	BVSc&AH/KA U/02	30.5.79
51	Ambily Gopinathan	KeralaSV C/2689/02	Anaswara, Prayar North Prayer, P.O. Oachira, Alappuzha-690547	BVSc&AH/KA U/02	28.5.77
52	Amit Gaba	RajSVC/2 899/02	H.No. 6/11 I.G.N.P. Colony Bikaner Raj.	BVSc&AH/RA U/02	23.10.78
53	Amit Kumar	RajSVC/2 875/03	I.I.P.Colony, Mokhampur, Dehradun, Uttranchal	BVSc&AH/GB PUA&T/89	28.3.66
54	Amit Kumar Gupta, S/o Sh Rajendra Pd Gupta	VCI/2412/03	Aashiyana College Rd, Ramgarh Cant, Dt-Hazaribag, Jharkhand	BVSc&AH/GB PUA&T/2000	2.6.72
55	Amit Kumar Mittal	RajSVC/2 926/03	Ward No. 15 Sector No. 1 House No 139A, Sangarta, Raj	BVSc&AH/RA U/03	01.2.78
56	Amit Kumar Pareek	RajSVC/2 950/03	Ratan Deep Bohra Colony Kekri Ajmer, Raj	BVSc&AH/RA U/03	31.5.78
57	Amit Kumar, S/o Hem Raj Singla	Pb.SVC/2 416/03	B-IV/367, Bakhshi Pansari Street, Nabha-147201, Patiala	BVSc&AH/PA U/01	17.8.78
58	Amit Kumar, S/o Sh Rajinder Sharma	HPSVC/6 19/02	VPO-Bhatoli-Fakorian, The-Dehra, Distt-Kangra, HP	BVSc&AH/CS KHPKV/01	13.12.77
59	Amit Pal Kour, D/o Sh Gurcharan Singh	Pb.SVC/2 430/03	H.NO.903-D, Dashmesh Ng, Naya Gaon, Chandigarh-160001	BVSc&AH/PA U/01	10.6.76
60	Amit Tiwari, S/o Late Sh M.S. Tiwari	UPSVC/3 598/02	312 Hindnagar, Dt-Lucknow	BVSc&AH/GB PUA&T/02	16.12.78
61	Amitash Sharma, S/o Shri Rambharose Sharma	MPSVC/2 100/02	Shri SY Aurangabadkar 40-E Rajendrang Indore-452001	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	5.1.75
62	Amitha Reena Gomes S/o Frascis Gomes	KarnaSVC /3400	Triniti Mansion, R.P. Mutt Road & Post Balehonnur, N.R. Pura Cmagalur Dist 577112	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	25.8.79
63	Amresh Naidu, S/o Sh Madangopal Naidu	MPSVC/2 031/02	M-119, 3-B, Saket Nagar, Bhopal, M.P.	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	3.7.77
64	Amrinder Singh Brar, S/o Sh Karam Singh Brar & Smt, Pardeep Kau	Pb.SVC/2 331/02	#1064 Phase-V SAS Nagar, Mohali Dt, Ropar-160059	BVSc&AH/PA U/02	22.12.77

SR. NO.	NAME	RECM. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	AGE
65	Amritha Aravind	KeralaSV C/2705/02	Kandathiparambil House, Udayagiri, Mullakkara, Mannuthy P.O. Thrissur-680651	BVSc&AH/KA U/02	21.2.79
66	Anand Kumar, S/o Sh Guro Deo Das	VCI/2422/ 03	Qtr. No. G-8TOC Ng. Site- 2, Sector-55, Noida(UP)- 201301	BVSc&AH/WB UA&FS/2000	15.8.76
67	Anand Kumar, S/o Sh Gurudev Das	UPSVC/3 509/02	QTR. No. G-8IOC Nagar Site- 2 Sector-55, Nodia UP	BVSc&AH/WB UAFSc/00	15.8.76
68	Anantwar Laxman Govindrao	MahaSVC /6616	C/o Yadavrao Tapsalkar, Shivaji Scoeity, Udog Bhavan, Udgir, Latur-413517	B.V.Sc&AH/PK V/72	06.2.84
69	Angad, S/o Late Sh Kamla Upadhyay	UPSVC/3 682/03	VI&PO-Qniya Dt-Santkabil Nagar	BVSc&AH/Agr a Uni/78	26.12.54
70	Anil Guleria S/o Sh Desh Raj	HPSVC/6 29/02	Vill. & P.O Khalet, (Doulatur Chowk) Teh. Amb Distt. Una. HP	BVSc & AH/CSKHPKV/ 02	13.11.77
71	Anil Kr. Murmu, S/o Late Bharat Ch. Murmu	WBSVC/2 917	Vill-Gayapahari, P.O.- Nutangram, Dt-Purulia, Pin- 723121	BVSc&AH/WB UAFS/02	1.3.71
72	Anil Kumar Giri, S/o Late Shri Ramawatar Giri	MPSVC/2 104/02	Opp. U.S.A. Hotel Pateri, PO- Mahdewa Dt-Satna, MP- 485001	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	5.8.76
73	Anil Kumar Jangid	GujSVC/2 405/02	Birla Colony Qr. No. S-22, Porbandar-360576	BVSc&AH/GA U/02	13.05.80
74	Anil Kumar K.H. S/o Hanumanthappa K.G.	KarnaSVC /3357	Kanehorahalli 583218 Kudligi TQ, Bellary Dist	BVSc&AH/JA S, Dharwad/02	02.2.78
75	Anil Kumar Lugun, S/o Sri Amush Lugun	BiharSVC/ 2200/01	Vill-Khakhagarha, PO- Jaldega, Thane-Jaldega, Dt- Simdega	BVSc&AH/BA U/01	8.8.75
76	Anil Kumar Meher, S/o Sh Premaraj Meher	OrissaSV C/1863/02	At-Bandupali, P.M. Srigida, Via- Bijepur, Dt-Bargarh-768032	BVSc&AH/OU A&T/01	15.6.77
77	Anil Kumar Rawat, S/o Sh B.S. Rawat	UPSVC/3 555/02	H.NO. H-13 Old Haldi, Pantnagar	BVSc&AH/GB PUA&T/02	8.7.79
78	Anil Kumar Shrivastava, S/o Shri Madan Mohan Shrivastava	MPSVC/2 058/02	205/M-1 Rajat Nagar Sonagiri, Bhopal-462021	BVSc&AH/JLN KVV/75-76	26.1.52
79	Anil Kumar Singh, S/o Sh Rampal Singh	UPSVC/3 601/02	VI&PO-Chandai, Dt-Hathrus	BVSc&AH/GB PUA&T/84	1.6.63
80	Anil Kumar, S/o Sri Moti Lal Prasad	BiharSVC/ 2155/01	Vill-Sohagra, PO- Sohagra, Thane-Guttni, Dt- Siwan	BVSc&AH/BA U/01	26.6.75
81	Anju Bala, D/o Sh Beg Chand	Pb. SVC/2 324/02	H.No. 1279, Haibowal Khurd, Ludhiana	BVSc&AH/PA U/01	27.12.77

SERIAL NO.	NAME	REF. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
82	Anju Singh, D/o Dr. M.P. Singh	UPSVC/3 561/02	1/43 A-21 Lalbagh, Pantnagar	BVSc&AH/GB PUA&T/02	2.12.79
83	Anjum Zafar, S/o Zafaruddin	UPSVC/3 557/02	6/1121, JHA Colony, Pantnagar	BVSc&AH/GB PUA&T/02	10.1.79
84	Ankush Chauhan S/o Sh Gobind Ram	HPSVC/6 28/02	Vill. Chamrota, P.O. Pudag, Teh. Kotkhai, Distt. Shimla, HP	BVSc & AH/CSKHPKV/ 02	27.9.78
85	Anshu Jain, D/o Shri Anand Jain	MPSVC/2 110/03	Behind S.S. Kachoriwala Naya Bazar Campus, Gwalior, M.P.	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	26.9.78
86	Anshul Sood, S/o Sh Milap Chand	HPSVC/6 22/02	S/o Er. M.C. Sood, Executive Engineer B&P Division, HPPWD Bajinath, Kangra	BVSc&AH/CS KHPKV/01	25.2.77
87	Anukul Pathak, S/o Shri Rajendra Prasad Pathak	MPSVC/2 084/02	451 Kotwali Ward Melouniganj, Jabalpur-482001	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	11.4.77
88	Anup Kollanoor J	KeralaSV C/2719/02	XV-490, Kollanoor Thrissur Road, Kunriamkulam, P.O. Thrissur-680503	BVSc&AH/KA U/02	16.3.77
89	Anup William Lakra, S/o Late Sh Heydel Ward William Lakra	BiharSVC/ 2127/01	Vill-Albert Compound, PO- GPO(Pathal Kutuwa), Thana Lower Bazar, Dt-Ranchi	BVSc&AH/RA U/00	30.4.76
90	Aparajeeta Tarai, D/o Sh Niranajn Tarai	OrissaSV C/1899/03	Kapilprasad Housing Board, H.No. M/143 Phase- 2, Bhubaneswar-751002	BVSc&AH/OU A&T/03	30.4.76
91	Arbind Kumar, S/o Sri Ram Bali Singh	BiharSVC/ 2186/01	Vill-Phepubigha, PO- Jalpura, Thane-Arwal, Dt-Arwal	BVSc&AH/MA U/01	28.2.77
92	Archana Kumari, S/o Sh Ram Prakash Das	BiharSVC/ 2136/01	Vill- Dogachhiya, PO- Phatepur, Thane- Nathnagar, Dt-Bhagalpur	BVSc&AH/RA U/00	13.3.77
93	Archana Sathyan	KeralaSV C/2738/02	"Devi" Near Vellamanal H.S. Mayyanand P.O. Kollan- 691303	BVSc&AH/KA U/02	31.5.78
94	Archana. P. S/o D.M. Pradyumna	KarnaSVC /3408/	No. 555 II Block, 3rd Main Rajajinagar Bangalore-10	BVSc&AH/GB PUAS&T/99	03.9.74
95	Arjun Singh, S/o Late Sh Dori Lal	UPSVC/3 649/03	Vill-Chubhana Khera, PO- Akrapur, Dt-Urnao	BVSc&AH/GB PUA&T/67	28.1.45
96	Arumbaka Sudheer Babu S/o Babu Rao	APSVC/38 97/02	LIG-807, BHEL Ramachandrapuram, Hyderabad-502032	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	14.9.78
97	Arun Deb Roy, S/o Sh Manindra Ch Deb Roy	TripuraVC /144/02	C/o Bishnupada Deb Roy, Opp of Meher Kalibari Pragati Rd, Krishnang, Agartala Tripura (W)	BVSc&AH/BC KVV/78	25.4.54

SERIAL NO.	NAME	DEPT. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	AGE
98	Arun K.P. S/o Parameswarappa	KarnaSVC/3348	No. 3201/3, 10th Main, 4th Cross M.C.Colony 'B' Block Davanagere	BVSc&AH/UA S B'LORE/02	17.4.77
99	Arun Kumar	RajSVC/2 930/03	Arun Lila Near-Kiryana Bhawan Hanumangarh Town. Raj.	BVSc&AH/RA U/03	03.3.77
100	Arun Kumar Khatri	RajSVC/2 976/03	Near Hinglaj Temple Suthar Vas, Sirchi, Raj	BVSc&AH/RA U/03	21.1.79
101	Arun Kumar, S/o Srib Gobind Mahto	BiharSVC/2188/01	VIII-Alna jamtoal, PO-Relfadih, Thane-Bundu, Dt-Ranchi	BVSc&AH/BA U/01	22.4.76
102	Arun Kurian	KeralaSV C/2731/02	Chailazhikathu Veedu, Mangad P.O. Kollam-691015	BVSc&AH/KA U/02	16.1.79
103	Arun Lukose	KeralaSV C/2745/02	Mangalacheril House, Kidangoor South P.O. Kottayam-686538	BVSc&AH/KA U/02	21.12.77
104	Aruna. B.E.S/o Eswarappa M.H	KarnaSVC/3370	Bisalare Post, Kadur TQ. Chickmagalure Dist. 577116	BVSc&AH/UA S.B'lore/02	22.7.80
105	Arvind Kumar	RajSVC/2 887/02	1/C. Govt. Veterinary Hospital Raniwara Jalore, Raj.	BVSc&AH/PK V/89	17.6.60
106	Asamukul Jana, S/o Shri Adhirchandra Jain	MPSVC/2 131/03	67/3, Raksha Vihar, Gwalior-2	BVSc&AH/JLN KVV/69	26.7.45
107	Aseem Kumar Pandey, S/o Sh D.S.Pandey	UPSVC/3 520/02	VI-Koni PO-Lahasari, Dt-Gorakhpur UP	BVSc&AH/AN GRAU/00	19.9.75
108	Ashabaree Samal, D/o Bichitrananda Samal	OrissaSV C/1862/02	t-Champatipatwa, PO-Kendupatna, Via-Salipur, Dt-Cuttack	BVSc&AH/OU A&T/01	10.6.78
109	Ashalata Gurugubilli, D/o Satyanarayana	APSVC/38 45/02	H.No.2-3-1/1(1)(old), 2-5-188/4(New), Illisipuram Jn, One way traffic Rd, Sirkakulam-1(AP)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	20.06.78
110	Ashish Chander Sood, S/o Sh Avinash Chander Sood	Pb.SVC/2 419/03	B-14/571, Committee Bazar, Hoshiarpur-146001	BVSc&AH/PA U/01	24.7.78
111	Ashish Chopra	RajSVC/2 928/03	C-83, Indra Colony Bikaner Raj.	BVSc&AH/RA U/03	07.11.75
112	Ashish Kumar Chakrabarti, S/o Late Dr S.C.Chakrabarti	VCI/2457/04	D-28, 2nd MS Hostel, (7th Floor), Nizam Palace"234/4AJC Bose Rd, Kolkata-700 020	BVSc&AH/BC KVV/76	18.7.50
113	Ashish Kumar Jain, S/o Shri Rameshchand jain	MPSVC/2 108/02	Khirkmohalla, Gyaraspur, Dt-Vidisha-464331	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	29.8.78

SERIAL	NAME	DECN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
114	Ashish Tiwari, S/o Sh S.S. Tiwari	UPSVC/3 581/02	Vill-Murarmau PO- Baragaon, Raibareilly UP	BVSc&AH/JNK VV/02	12.4.77
115	Ashok Kuma M.R. S/o C.M. Ranga Swamy	KarnaSVC /3341	Madakaripura (VIA) D.S. Hally Chitradurga TQ and Dist.	BVSc&AH/UA S, Dharwad/02	21.5.80
116	Ashok Kumar	RajSVC/2 924/03	5/72 Ware House Road, Anupgarh, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	09.8.78
117	Ashok Kumar Das, S/o Sh Nitai Chandra Das	BiharSVC/ 2152/01	Vill-Jamni Paharpur, PO- Jamni Paharpur, Thane- Godda, Dt-Godda	BVSc&AH/BA U/01	23.9.75
118	Ashok Kumar Dhaka	RajSVC/2 960/03	V/P-Ladusar Jhunjhunu, Raj	BVSc&AH/RA U/03	07.4.75
119	Ashok Kumar Singh, S/o Late Sh L.S. Srivastava	UPSVC/3 706/03	Vill-Chandord Joiti PO- Hatiyagarh, Dt-Gonda	BVSc&AH/GB PUA&T/82	1.1.61
120	Ashok S Dhelij S/o Shivappa	KarnaSVC /3343	Gurtapura, Gokak TQ. Belgaum Dist.	BVSc&AH/UA S, Dharwad/02	22.7.79
121	Ashok Sain	RajSVC/2 979/03	Bus Stand Deoli, Tonk, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	16.02.74
122	Ashwani Kumar Tambi	RajSVC/2 998/03	V/P-Badakhhera P.S.- Keshoraipatan VIA-Lakheri Bundi, Raj	BVSc&AH/RA U/03	18.6.77
123	Ashwani Kumar, S/o Sh Girdhari Lal	Pb.SVC/2 340/02	BXXI, H.No.9018, St.No.10, Kot Mangal Singh, Ludhiana- 141003	BVSc&AH/PA U/02	22.7.77
124	Asish Pattnaik, S/o Sh Nabakishor Pattnaik	OrissaSV C/1902/03	At: Ucha Sahi, PO- Buxibazar, Cuttack-753001	BVSc&AH/OU A&T/03	20.6.79
125	Athar Ahmad Khan, S/o Mr. Nisar Ahmad Khan	MPSVC/2 038/02	B-23, Dt-Magistrate Residence Hill, Bungalow, Balaghat	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	19.1.77
126	Atma Singh Sandhu, S/o Shri Mukhtyar Singh Sandhui	MPSVC/2 056/02	26. Panchwati Janki Nagar, Indore-453001	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	12.10.73
127	Atmaram Soni, S/o Shri Ramadhin Soni	MPSVC/2 067/02	Gram-Manavara, PO- Pahara, Dt- Chhatarpur, MP_471001	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	2.7.63
128	Attar Singh, S/o Sh Ram Chander	HarSVC/1 728	Hari Chaya Sunder Nagar, Hisar	BVSc&AH/PA U/67	18.1.44
129	Auradkar Suresh Kishanrao	MahaSVC /6580	60, Ramdas Nagar, Karegaon Road, Parbhani, Dist. Parbhani	B.V.Sc&AH/M PKV/73	09.3.49
130	Auwais Ahmed Khan, S/o Sri Abdus Sukar	BiharSVC/ 2182/01	Vill-Nauhatta, PO- Nauhatta, Thane-Nauhatta, Dt- Saharanpur	BVSc&AH/BA U/1	11.6.75

SERIAL NO.	NAME	REG. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
131	Avdesh K. Sharma S/o Sh. Shyam Lal	HPSVC/6 47/02	VPO & The. Bangana, Distt. UNA, HP	BVSc & AH/CSKHPKV/02	14.4.79
132	Avdhesh Kumar Shrivastava, S/o Shri Shyam Swaroop Shrivastava	MPSVC/2 080/02	15, Sharma Gali Purani Basti, Bhind-477001	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	22.2.77
133	Avinash Patel	RajSVC/2 977/03	Neharu Colony Ward No. 26 Balotra Barmer, Raj	BVSc&AH/RA U/03	07.08.75
134	Avni Rathoo	RajSVC/2 922/0	P.No. 3 Himmat Nagar, Tonk Phatak, Jaipur Raj.	BVSc&AH/RA U/03	25.7.76
135	Awatade Sharad Dattatraya	MahaSVC /6611	A/p Phclavani, Taq- Matshiras, Dist-Solapur	B.V.Sc&AH/M PKV/01	02.6.79
136	B.D.Misra, S/o B.P.Misra	UPSVC/3 648/03	Vill-Barhya Khurd, PO- Murarpur, Dt-Gorakhpur	BVSc&AH/GB, PUA&T/69	1.12.47
137	B.G.Pandey, S/o Sh M.P.Pandey	UPSVC/3 701/03	241 L.I.G.Govindpur, Dt- Allahabad	BVSc&AH/Agr a Uni/68	2.1.45
138	B.Soma Sekhar Reddy S/o Mallikarjuna Reddy	APSVC/38 76/02	7-263, Holmespet, Proddatur, d Cuddapah 516 361 Da.p.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	14.06.78
139	B.Yugendar Reddy S/o Sammi Reddy	APSVC/39 20/03	2-4-1586, Adhoka Colony, Hanamkonda, Warangal-506001 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	21.8.79
140	Babajan Kurahatti S/o Saiyadaasab	KarnaSVC /3308	Koujageri Post, Ron TQ Gadag Dist. 582202	BVSc&AH/UA S,Dharwad/01	01.6.77
141	Babarjit Singh, S/o Sh Baldev Singh	Pb.SVC/2 390/02	Bunglow No.1A, Nestle India Ltd., Moga.	BVSc&AH/PA U/02	3.5.60
142	Babitha B.S.	KeralaSV C/2723/02	Syamandakam, TC 30/932, Sasthamangalam P.O., Edappazhinji, Trivandrum-695010	BVSc&AH/KA U/02	25.5.78
143	Babrule Umesh Ramehs	MahaSVC /6646	Pallavi Vivekanand Nagar, Lonar, Dist-Buldhana	BVSc&AH/MA FSU/02	14.3.78
144	Babu Jagannadham S/o Venkatappa	APSVC/38 74/02	Nadimpaller(V), Peddamallela(P), Rompicherla(M), Chittor Dt.-517 192, A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	04.03.77
145	Bachacha Singh, S/o Late Sh R.N.Singh	UPSVC/3 695/03	VI&PO-Sonbarsa, Dt-Ballia, UP	BVSc&AH/Agr a Uni/73	10.12.48
146	Badai Das, S/o Sh Dwijendra Ch Das	TripuraVC /137/02	C/o R.K.Das, 40- C.R.Road, Shibnagar, Agartala, Tripura (West)	BVSc&AH/AA U/01	10.4.72

SERIAL	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
147	Badaruddin S/o Bsbeeruddin S/o Basheeruddin	KarnaSVC /3406	Mohella Mominpura Gurmitkal Post, Yadgir TQ. Gulbarga Dist.	BVSc&AH/UA S.Dharwar/02	1.06.78
148	Bade Ganesh Gopinath	MahaSVC /6583	At post Nimbe, Nandur, Tal Shergaon, Dist. Ahmednaar	B.V.Sc&AH/M PKV/01	01.6.79
149	Badkas Jayant Krishnarao	MahaSVC /6599	Plot No. 11 Laxmi Nagar Nagpur, LDOVD At Post Adyal, Tal-Pouni, Dt-Bhandra	B.V.Sc&AH/PK V/75	11.2.51
150	Badrinarayan Chand, S/o Sh Umesh Ch Chand	OrissaSV C/1896/03	At: Koilo, PO-Asureswar, Dt- Cuttack-754209	BVSc&AH/OU A&T/03	17.6.78
151	Baishya (Ms) Dipannita, D/o Mr. Debeswar Baishya	ASMSVC/ 2050/02	Sixmile, Lechubaggn, Near Ganesh Mandir Path, Guwahati-22	BVSc&AH/AA U/02	
152	Baishya (Ms) Dirsikha, D/o Sh Promod Ch Baishya	ASMSVC/ 2043/02	C/o Promod Ch Baishya Public Health, Hongrabari, Guwahati- 6	BVSc&AH/AA U/02	
153	Bal Gangadhar Rai, S/o Sh Arun Kumar Rai	BiharSVC/ 2232/02	Vill-Taraon, PO- Taraon, Thane-Nashriganj, Dt- Rohtas	BVSc&AH/WB UA&FS/01	1.3.77
154	Balakrishna Neeraja D/o O. Balakrishna	APSVC/38 77/02	4-316/1, Balaji Nagar Colony, Greampet, Chittor-517002 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	13.02.77
155	Balari Mary Blah, D/o Dr. E. Pyrbot	MeghSVC /196/02	Laitumkrah, Shillong-793003	BVSc&AH/AA U/02	9.2.78
156	Balasaheb Bhandi S/o Yallappa Bhandi	KarnaSVC /3377	Kananur Post, Bijapur TQ. And Dist. 586119	BVSc&AH/UA S.B'lore/02	22.7.79
157	Baljit Singh, S/o Sh Vasakha Singh	Pb. SVC/2 417/03	W.No. 2/39, Dashmesh Nagar, Mullianpur- 141101, Ludhiana	BVSc&AH/PA U/03	17.3.76
158	Balwant Singh, S/o Sh Sat Pal	Pb. SVC/2 368/02	VPO Chankoya The- Balachaur, Dt-Nawan Shahr	BVSc&AH/PA U/02	10.6.73
159	Balwinder Singh Gill, S/o Sh Ajit Singh Gill	Pb. SVC/2 429/03	H.NO. 26-D, Kitchlu Ng. Ludhiana	BVSc&AH/PA U/03	5.7.77
160	Balwinder Singh, S/o Sh Samsher Singh	Pb. SVC/2 343/02	W.No. 1, Preet Nagar, N.M. College Road, Mansa-151505	BVSc&AH/PA U/02	16.6.78
161	Bandhnu Oraon, S/o Sri Bhairav Oraon	BiharSVC/ 2199/01	Vill-Pokta, PO- Kumhari, Thane-Basiya, Dt- Gumla	BVSc&AH/BA U/01	4.5.75
162	Bankar Rahul Maruti	MahaSVC /6694	Sankalp Bungalow, Trimurti Rd, Kurduwadi, Tal-Madha Dt- Solapur	BVSc&AH/MA FSU/02	12.2.80
163	Banshi Dhar	RajSVC/2 990/03	V/P Udawas Jhunjhunu, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	05.7.76

SERIAL	NAME	REG. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
164	Banshi Lal Verma	RajSVC/2 890/02	Khanda Falsa Chhipawadid Pital Dhebi Ki Haweli Jodhpur, Raj.	BVSc&AH/UNI UDAIPUR/73	20.8.44
165	Bansod Atul Bhaurao	MahaSVC /6573	Near Sanjay Gandhi School, At-Hinganghat, Tal- Hinganghat Dt-Wardha	B.V.Sc&AH/PK V/87	17.5.66
166	Barkha Gupta	RajSVC/2 982/03	Nagina Wale Near Town Hall Alwar, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	09.10.77
167	Barkha Sharma, S/o Sh V.K. Sharma	UPSVC/3 560/02	V/1319 TG Colony, Pantnagar	BVSc&AH/GB PUA&T/02	8.8.78
168	Barman Champak, S/o Sri Kalindra Barman	ASMSVC/ 2082/03	C/o Sri Kalindra Barman Vill&PO-Mugdi, Dt-Nalbari, Pin- 781312	BVSc&AH/AA U/03	
169	Barua Pankaj Jyoti, S/o Dr. Lakhi Nath Barua	ASMSVC/ 2020/02	Tribeni Path, Dwarka Ng, Chachal Path, Khanapara, Guwahati-22	BVSc&AH/AA U/02	
170	Barua (Ms) Jyoti Shree, D/o Mr. Paresh Kumar Barua	ASMSVC/ 2089/03	Near Assam Shfangha Hall Dhubri, Pin-783301	BVSc&AH/AA U/03	
171	Barua (Ms) Kabori, D/o Dr. Kamlesh Barua	ASMSVC/ 2055/02	C/o Dr. K. Barua, Pragati Path Next to down hospital, Guwahati-6	BVSc&AH/AA U/02	
172	Baruah Krishna Kanta, S/o Late Kamla Kanta Baruah	ASMSVC/ 2054/02	Vill-Khar Khowa Para, PO- Doomornoi, Dt-Darrang	BVSc&AH/AA U/02	
173	Baruah Prodyot Protim, S/o Late Pradip Kr Baruah	ASMSVC/ 2034/02	C/o Dilip Kr Baruah (Advocate) PO- Chaliha Rd, Amolapatty, Sibsag ar	BVSc&AH/AA U/02	
174	Basappa Hosure S/o Krishnappa Hosur	KarnaSVC /3411/	Sidrameswar Colony Mudhol, Bellary 587313	BVSc&AH/UA S, Dharwar/02	13.11.78
175	Basavaaraju. S. S/o Siddappa B.S.	KarnaSVC /3356	Annehal-577555 Chitradurga TQ. & Dist	BVSc&AH/UA S, Dharwad/02	17.4.79
176	Basavanta Kumar S/o Channabasappa R.	KarnaSVC /3386	Tavarekere Post. Channagirir TQ. Davanagere Dist.	BVSc&AH/UA S, B'lore/02	17.1.80
177	Basavaraj S/o Annappa	KarnaSVC /3344	Ladha Post, Aurad TQ Bidar Dist. 585401	BVSc&AH/UA S, Dharwad/02	01.03.79
178	Basipanga Arun S/o Bixam	APSVC/39 15/03	Pedanemila (P&V), Nothankal (M), Nalgonda Dt - 508221 A.P.	BVSc. &AH/AN GRAU/2002	04.2.79
179	Basunathe Vijay Kisanrao	MahaSVC /6652	RamNagar, Amaravati, Dt- Amaravati	BVSc&AH/MA FSU/02	10.3.80
180	Battepati Madhavi, D/o Sh. Ramana Reddy	APSVC/38 50/02	Thurmala, Sydapuram (P), Nell ore Dt., (A.P)	BVSc. &AH/AN GRAU/2002	24.05.77

SERIAL	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
181	Beena JN	KeralaSV C/2704/02	Pranayam, Sreepuram Lane, Punkunnam P.O. Thrissur- 680002	BVSc&AH/KA U/02	09.11.78
182	Behl Chittaranjan Rameshkumar	MahaSVC /6661	Plot No.7, Vrindawan Housing Complex, Bldg. No D. S.No.52, House No. 27/1, 28A&b-29,31, Kothrud, Pune	B.V.Sc&AH/PK V/81	29.9.58
183	Bejoy John	KeralaSV C/2725/02	Vazhayil Villa, Chungathara P.O. Malappuram-679334	BVSc&AH/KA U/02	06.8.77
184	Beni Prasad Gore,S/o Shri Goverdhanlal Gore	MPSVC/2 070/02	Gram-Kotra,PO- Kolukheddi,The-Bersia,Dt- Bhopal,MP	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	8.8.76
185	Benjamin Mathew	KeralaSV C/2765/02	Ebenezer, Theepany, Tiruvalla. Pathanamthitta- 689101	BVSc&AH/KA U/02	27.10.77
186	Bhadane Rehulkumar Bhalchandra	MahaSVC /6608	Yogesh Nivas 37th Samta Nagar Sakri, Tal-Sakri. Dist- Dhule-424304	B.V.Sc&AH/M PKV/01	07.7.78
187	Bhadja Jayantilal Ramji	GujSVC/2 406/02	At. & P.O. Neshdha (Khanpar) Tankara, Rajkot- 363641	BVSc&AH/GA U/02	06.2.78
188	Bhagat Jyotsna Sudam	MahaSVC /6637	Vithal Vishka Complex.Plot No.256.Nandanwan Colony.Aurangabad	BVSc&AH/MA FSU/02	29.11.77
189	Bhagat Pitamber Bhaskar	MahaSVC /6675	13. Dinanath Wadi, Ring Road, Jalgaon Near Sangam Housing Society, Dist Jalgaon	B.V.Sc&AH/KK V/82	02.4.55
190	Bhagat Singh Saini	RajSVC/2 903/03	Vill Adarsh Nagar, Post Bagar, Jhunjhnu, Raj	BVSc&AH/RA U/03	15.7.78
191	Bhagawati Nilotpal,S/o Sri C.Bhagawati	ASMSVC/ 2071/02	C/o Dr.C.Bhagawati Biswanath Chariali,Vill- Dagaon.Pin-784176	BVSc&AH/AA U/02	
192	Bhagvandas Mukati,S/o Shri Govind Prasad Mukati	MPSVC/2 071/03	Tagore Hall Veterinary College Campus,Mhow- 453446	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	13.8.76
193	Bhagwan Sahai Jaitav	RajSVC/2 983/03	V-Chorotiest Murar P- Khunteta Kala The-Ramgarh Alwar, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	08.01.75
194	Bhajantri Shankarappa S/o Balappa Bhajantri	KarnaSVC /3337	Sangal Post Ramdurg TQ. Belgaum Dist.	BVSc&AH/UA S.Dharwad/02	05.05.77
195	Bhakta Charan Dalai,S/o Sh Baishnab Charan Dalai	OrissaSV C./1923/0 3	At/PO-Rahania,P.S.- Bhandaripokhari,Dt-Bhadrak	BVSc&AH/OU A&T/03	21.6.77
196	Bhalerao Madhmanjiri Purushottam(Mrs.)	MahaSVC /6615	Parijat, A-73,Krishanchandra Marg Reclamation, Bandra (W), Mumbai-400050	B.V.Sc&AH/KK V/84	26.01.64
197	Bhanwer Lal	RajSVC/2 956/03	V/P-Deikhera Via-Lakheri Bundi, Raj	BVSc&AH/RA U/03	05.10.75

SERIAL	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	AGE
198	Bharat Bhushan Sunja, S/o Madan Lal	HarSVC/1 736	113, Gali No.2, Grewal Colony, Sirsa	BVSc&AH/CC SHAU/02	19.1.78
199	Bharat Joshi	RajSVC/2 905/03	Govt. Fruit Farm Near Police Line Abohar Road, Sri Ganga Nagar, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	25.12.77
200	Bharat Mahto, S/o Sri Hare Krishan Mahto	BiharSVC/ 2159/01	Vill-Lowahatu, PO-Lowahatu, Thane-Sonahatu, Dt-Ranchi	BVSc&AH/BA U/01	21.12.74
201	Bharatlal Patel, S/o Shri Raghoram Patel	MPSVC/2 078/02	Gram-Neelkanth, Po-Mulgaon, The-Badvaha, Dt-Khargone-451113	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	18.3.76
202	Bhatia Hareshkumar Thakarshi	GujSVC/2 409/02	At. & Po. Zinkiyali, Morbi Rajkot-363641	BVSc&AH/GA U/02	08.06.78
203	Bhattacharjee (Ms)Kanta, D/o Mr. Dilip Kr Bhattacharjee	ASMSVC/ 2019/02	Kannachal Silpukhuri, Guwahati-781003	BVSc&AH/AA U/02	
204	Bhimashankar S Biradar S/o Siddappa D Biradar	KarnaSVC /3360	Devar, NimBargi Post, Indl TQ. Bijapur Dist.	BVSc&AH/UA S, Dharwad/02	18.2.79
205	Bhise Gopal Rajaram	MahaSVC /6630	Tasgaon Road Vita, Khanapur, Sangali-415311	BVSc&AH/MA FSU/02	6.4.79
206	Bhokre Sainath Manikrao	MahaSVC /6632	A/P Golegaon, Tal-Umri, Dt-Nanded-431807	BVSc&AH/MA FSU/02	5.5.79
207	Bhokre Suwarna Arun	MahaSVC /6576	Dr. Digloe's Residence Shahu Colony, Degloor Rd, Udgir, Dt-Latur-413517	B.V.Sc&AH/M AU/01	31.8.79
208	Bhongale Sagar Ganpat	MahaSVC /6603	1) A/p Khunte, Taq-Phaltan, Dist-Satara-4115523	B.V.Sc&AH/M AU/01	19.4.79
209	Bhoraniya Vijaykumar Premjibhai	GujSVC/2 421/02	At. & Po Junadevaliya Halvad, Surendranagar-363330	BVSc&AH/GA U/02	31.12.79
210	Bhupendra Kumar, S/o Sh I.B.Pathak	UPSVC/3 684/03	Vill-Udhapur Pali, Gyanpur Dt-Santravidasnagar	BVSc&AH/GB PUA&T/93	15.8.67
211	Bhupinder Singh, S/o Sh Joginder Singh	Pb.SVC/2 341/02	Vill-Rasulpur Khurd, P/O Kot Khehra Via- Tarsikka Dt-Amritsarq	BVSc&AH/PA U/02	15.7.77
212	Bhushankumar Charpe, S/o Mr. M.M. Charpe	MPSVC/2 029/02	Sharm Safalya Kutir Badban, Chhindwara-480001	BVSc&AH/JLN KVV/02	11.9.77
213	Bhutia Zeruah, D/o Sri S.C. Bhutia	SikkimSV C/79/02	Hephzibah House, Below Old Primary Namchi, South Sikkim	BVSc&AH/MA U/00	2.12.77
214	Bhuyan (Ms) Jypoti, D/o Mr Madhab Ch Bhuyan	ASMSVC/ 2074/03	C/o Madhab Ch Bhuyan Madhab Lal Barua path Silpukhuri, Guwahati-3	BVSc&AH/AA U/03	

SERIAL	NAME	REGD. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
215	Bibhu Ranjan Das, S/o Sh Balaram Das	OrissaSV C/1897/03	C/o Nabakishore Das(Adhikari), At- Bamphi Sahi, PO-Talatgelenga Bazar, Dt-Cuttack	BVSc&AH/OU A&T/03	4.4.79
216	Bidhan Ch Das, S/o Sh Jadu Gopal Das	TripuraVC /146/02	C/o Jadu Gopal Das, Dhaleswar Rd- I, Agratala, Tripura(W)	BVSc&AH/AN GRAU/02	2.11.75
217	Bigyan Mohan Pothal, S/o Sh Udayanath Pothal	OrissaSV C/1905/03	At/PO-Gaudagan, Via- Kaptipada, Dt-Mayurbhanj	BVSc&AH/OJ A&T/03	26.1.79
218	Bijender Ruhit, S/o Sh Hari Singh	HarSVC/1 735	533/34 Janta Colony, Rhotak	BVSc&AH/CC SHAU/02	21.10.76
219	Biju V	KeralaSV C/2756/02	Thekkudukkathu Veedu, Adinadu North P.O, Karunagappally, Kollam- 690542	BVSc&AH/KA U/02	19.5.75
220	Bijwal Dilipkumar Laxmanrao	MahaSVC /6596	Plot No. 37 Harish Colony Post office Gandhi Nagar, Gorakshan Road, Akola- 444001	B.V.Sc&AH/PK V/73	17.11.51
221	Bikas Ch Debnath, S/o Sh Sunil Ch Debnath	TripuraVC /142/02	Po&Vill-Khayerpur, Dt- Tripura(W)	BVSc&AH/KK VP/97	8.01.74
222	Bikas Chandra Nag, S/o Sh Diaabandhu Nag	OrissaSV C/1906/03	At/PO-Dinagar, Via- Begunia, dt- Khurda-752062	BVSc&AH/OU A&T/03	18.5.77
223	Bikram Keshari Das, S/o Late Sh Nirakar Prasad Das	OrissaSV C/1873/03	B/03, Krishna Garden Complex, Barabari Jagamara, Bhubaneswar- 751030	BVSc&AH/OU A&T/79	4.1.56
224	Bikram Singh Sohi, S/o Sh Karam Singh Sohi	Pb.SVC/2 375/02	43 Guru Amar Das Nagar, Bye-Pass, Jalandhar City	BVSc&AH/PA U/02	10.9.78
225	Binary Prasad, S/o Sri Yadunandan Prasad	BiharSVC/ 2147/01	Vill-Nivakundrahi, PO- Arthua, Thane-Kashma Rafiganj, Dt-Aurangabad	BVSc&AH/RA U/00	20.1.70
226	Bindu Mathew	KeralaSV C/2701/02	House No. 18/278, Anugraha, Near Civil Station, Palakkad-678001	BVSc&AH/KA U/02	24.4.78
227	Binoj C. Nair	KeralaSV C/2708/02	Changethekkethil, Elangamangalam, Enathu P.O, Pathanamthitta, Pin- 691526	BVSc&AH/KA U/02	19.11.77
228	Bipin Kumar, S/o Sri Binda Pradas	BiharSVC/ 2224/02	Vill-Utarthu, PO- Utarthu, Thane-Bind, Dt- Nalanda	BVSc&AH/RA U/02	10.3.76
229	Birendra Prasad Yadav, S/o Sh Sadhu Saran Yadav	BiharSVC/ 2132/01	Vill-Bhullo, PO- Sabalbhiga, Thane-Shikandra, Dt-Jamui	BVSc&AH/RA U/00	23.2.76
230	Blawajit Behera, S/o Sh Brahmananda Behera	OrissaSV C/1910/03	At: New Colony, Bhadudibandha, Po- Bhanjapur, Baripada-757002	BVSc&AH/OU A&T/03	6.7.77

SNO	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	MRK
231	Biswanath Pusti, S/o Sh Laxmikanta Pusti	OrissaSV C/1884/03	At: Nayabazar, PO- Jaleswar, Dt-Balasore, - 7160323	BVSc&AH/OU A&T/03	12.6.79
232	Bobade Manish Deoraaji	MahaSVC /6593	Shobha A/p Loni (Takali) Tal- Nandgaon (Kh.) Dist- Amravati-444724 Krishi Vigyan Kendra Ghatkhed, Dist Amravati	B. V. Sc&AH/PK V/93	16.9.70
233	Boiwar Gangadhar Dhondiba	MahaSVC /6634	At-Post Moghali, Tal- Karanja, Dt-Nanded-431801	BVSc&AH/MA FSU/02	7.5.76
234	Bonda Satyanarayana S/o Venkataramana	APSVC/38 83/02	Chintada (P), Jami (M). Viziangaram Dt- 535250 A.P.	BVSc. &AH/AN GRAU/2002	26.01.78
235	Bongarde Shekhar Reghunath,	MahaSVC /6609	A/p Banage, Taq-Kgal, Dist- Kolhapur.	B. V. Sc&AH/ MPKV/01	12.12.76
236	Boppuri Sreenivasulu, S/o Sh. B. Pullaiah	APSVC/38 61/02	28-1011, Sai Baba Nagar, Noonepalli, Nandyal, Ku rnool Dt. 518 503(A.P)	BVSc. &AH/AN GRAU/2002	30.03.78
237	Bora Binod Kr Dutta, S/o Sh Nabin Dutta Bora	ASMSVC/ 2023/02	C/o Nabin Dutta Bora, Vill&PO- Gobindapur, Dhakuakhana, La khimpur	BVSc&AH/AA U/02	
238	Bora Devajit, S/o Sri Kamal Bora	ASMSVC/ 2090/03	C/o Sri Kamal Bora, PO&Vill- Kaki NO.1, Dt-Nagaon, Pin- 782446	BVSc&AH/AA U/03	
239	Bora Durlav Prasad, S/o Sri Parama Prasad Bora	ASMSVC/ 2072/03	C/o Sri paramn Pd Bora Vill&Po-Lahalial (Bihpuria) Dt- Lakhimpur-784161	BVSc&AH/AA U/03	
240	Bora Himangsu Kousik, S/o Sh Ramani Kanta Bora	ASMSVC/ 2080/03	C/o Mr. Ramani Kanta Bora, Vill-Singia Majgaon, PO- Singia, Dt-Nagaon	BVSc&AH/AA U/03	
241	Bora Kabya Jyoti, S/o Late Sh Jogeswar Bora	ASMSVC/ 2067/02	Sonduri Ali Path, Zoo Road, Guwahati-781024	BVSc&AH/AA U/99	
242	Bora Kallul, S/o Sri Kalira-m Bora	ASMSVC/ 2030/02	Vill-Chakarigaon, Po- Dimoruguri, Dt-Nagaon, Pin- 782002	BVSc&AH/AA U/02	
243	Bora Manajit, S/o Late Sh Mohi Chandra Bora	ASMSVC/ 2066/02	C/o Late Mohi Ch Bora Vill- Madhupur, PO-Chota Haibar, Dt-Nagaon-782002	BVSc&AH/AA U/02	
244	Bora (Ms) Sarbani, D/o Dr. Mukul Ch Bora	ASMSVC/ 2083/03	Ananoa Nagar, Sixmile Khanapara, Guwahati-22	BVSc&AH/AA U/03	
245	Borah Jimmy, S/o Sh M.N. Borah	ASMSVC/ 2013/03	C/o MN Borah, Netabari Gatetinali, Po-Jorhat Air field, Jorhat-785005	BVSc&AH/AA U/01	
246	Borah Sanjib, S/o Mr. Chandra Kanta Borah	ASMSVC/ 2079/03	C/o Mr. Chandra Kanta Borah, Vill&PO-Majuli Bongaon, P. S. Bongaon, Dt- Jorhat	BVSc&AH/AA U/03	

SERIAL	NAME	REG. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
247	Borah (Ms) Minasri, D/o Mr. Khagon Ch Borah	ASMSVC/2084/03	Barika chuburi Jyoti Nagar, Pin-782446	BVSc&AH/AA U/03	
248	Borkar Sonali Deepak	MahaSVC/8648	85 Vidyang, Near Dyaneshwar Mandir, Bhandara	BVSc&AH/MA FSU/02	6.12.79
249	Brahmbhatt Parixitkumar Hiralal	GujSVC/2395/03	18, Jayvir Nagar Society, Near Bus Stand, Patan	BVSc&AH/GA U/02	25.11.78
250	Braj Bhushan Bachchoo, S/o Sri Gunsagar Prasad Yadav	BihSVC/2165/01	Vill-Harpur, PO-Harpur, Thane-Harpur, Dt-Munger	BVSc&AH/BA U/01	2.11.73
251	Brajesh Kumar, S/o Sh Surya Kumar Yadav	BiharSVC/2166/01	Vill-English, PO-Farka, Thane-Sabour, Dt-Bhagalpur	BVSc&AH/BA U/01	26.12.74
252	Bramrn Kumar Pandey	RajSVC/2895/02	VPO- Bhadariya Vidhyadhar Nagar Jaisalmer RAJ.	BVSc&AH/CS AKEPV/98	24.7.72
253	Brijesh Singh, S/o Sh M.P. Singh	UPSVC/3590/02	VI- Kaluwapur, PO-Udihin Bujurj, Dt-Kausambi, UP	BVSc&AH/GB PUA&T/02	8.2.76
254	Bulbul Kamal Hashan, S/o Sh Ali Azgar	ASMSVC/2062/02	Vill-Dhakatia Para, PO-Jashihatt Para, Via-Howly, Dt-Barpeta, Pin-781316	BVSc&AH/AA U/02	
255	C.B. Vineetha	KeralaSV C/2715/02	Changarath House, Thiruvazhiyode, d Mangalamkunnu, P.O., Palakkad	BVSc&AH/KA U/02	26.7.78
256	C. Vivekanaanda Reddy S/o Govinda Reddy	APSVC/3887/02	III-239-a6, Rajaji Street, Gollapalli Colony, Madanpalli, Chittoor Dt. A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	13.08.79
257	Calcutta Ranganathan Shridhar, S/o Sh S. Ranganathan	KarnaSVC/3306	P.20, Sector-13, LIC Colony, J.B.Ng, Bangalore-75	BVSc/Uni of Madras/66	29.11.43
258	CH.B. Vijaya Durga D/o Mallikarjuna Rao	APSVC/3900/02	Mum Elementardy School, Rangannapalem, Chilkaluripet, Guntur Dt-522616 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	15.7.79
259	Chandraprakash Malhani, S/o Sh Mr Kimat Malhani	MPSVC/2049/02	269/2-C Sector Saketnagar, Bhopal	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	14.8.76
260	Chamuah Jayanta Kr, S/o Sh Prafulla Chamuah	ASMSVC/2022/02	Vill-Buma Ahom, PO-Jugisati, Dhakuakhanna, Lakhipur, Pin-787055	BVSc&AH/AA U/02	
261	Chanam Shashikanta Singh, S/o Ch Kunjakishore Singh	ManiSVC/378/02	Khongman Mangjil, Imphal	BVSc&AH/BA U/00	1.2.69
262	Chanchal Chauhan, D/o Shri Tarachand Chauhan	MPSVC/2127/03	Dahate Medical Stores, Gram&PO-Katori Teh-Khairlanji (Varaseoni), Dt-Balaghat, MP	BVSc&AH/IGK VV/01-02	7.7.78

SERIAL	NAME	REG. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
263	Chandewar Shrirang Pakhaduji	MahaSVC/6570	Netaji Ward, Pauni Tal- Pauni, Dt-Bhandara	B.V.Sc&AH/PK V/72	28.8.44
264	Chandra Sekhar Panda, S/o Sh Bhabagrahi Panda	OirssaSV C/1878/03	At/PO-Baijamunda Dt-Sambalpur, Via-Reamal-768101	BVSc&AH/OU A&T/03	24.1.77
265	Chandra Sekhar Reddy M., S/o Sh.M.Narasimha Reddy	APSVC/38 35/02	H.No.8-247/1, Aleru, Nalgonda, Dt.508 101(A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2001	07.09.76
266	Chandra Shekhar	RajSVC/2 909/03	Qwarter No. 252 General Hospital Campus Alwar, Raj	BVSc&AH/RA U/03	08.7.77
267	Chandrabhan Singh, S/o Mr. Bahadur Singh	MPSVC/2 032/02	Mr. R. S. Patel, Sultanpur, Raise n-464986	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	1.2.74
268	Chandras, S/o Sh Sudheshwar Prajapati	Pb. SVC/2 393/02	42. New Rajguru Nagar, Ludhiana-141004	BVSc&AH/Birsa Agri Uni/99	18.12.72
269	Chandramani Prasad Singh, S/o Sri Surendra Prasad Singh	BiharSVC/ 2227/02	Vill-Choti Art, PO-Bari Art, Thane-Nalanda, Dt-Nalanda	BVSc&AH/MP KV/01	1.12.74
270	Chaneey Prashant Purushottam	MahaSVC /6671	Ghatroad, Gandhi Chowk, Tumsar, Dt-Bhandara	BVSc&AH/MA FSU/02	26.9.77
271	Changan Arfila Lowang, S/o Sh Panwang Lowang	VCI/2411/ 03	C/o District Vety Officer, Papun Pore, Dt-Yupia, Arunachal Pradesh	BVSc&AH/AA U/97	4.10.69
272	Chaudhari Chandrakant Fuljibhai	GujSVC/2 438/02	At& Po-Khandosan Near Dairy Visngarar Mehsana-384310	BVSc&AH/GA U/02	18.09.78
273	Chaudhari Manesh Gorakh	MahaSVC /6605	A/p Waka, Taq-Nazar, Dist-Surat (Gujrat)-394370 A/P Vadfali, Tal. Navapur, Dist. Nandurbar	B.V.Sc&AH/M PKV/01	01.6.78
274	Chaudhari Yashpalsinh Umaji	GujSVC/2 442/02	28. Sunrise Park, Deesa, Banaskantha-385535	BVSc&AH/GA U/02	11.06.80
275	Chaudhary Ishwarji Devaji	GujSVC/2 431/02	At. Sherpura, P.O. Kansari, Deesa, Banaskantha-385535	BVSc&AH/GA U/02	31.08.79
276	Chaudhary Uday Kumar Bhagwanbhai	RajSVC/2 872/02	At/P-Gong Raniwara Jalore, Rajasthan	BVSc&AH/GA U/94	20.9.70
277	Chennakeshava Reddy T.C. S/o T.C. Chikkanna Reddy	KarnaSVC /3329	Thammanahally Chikkabanavara PO Bangalore North Bangalore-90	BVSc& AH/UAS/B'LO RE/01	05.7.78
278	Chetia Sulav, S/o Sh Jiba Kanta Chetia	ASMSVC/ 2014/02	C/o Sri J.K.Chetia, Air Force Station, Mohanbari, PO-Mohanbari, Dibrugarh	BVSc&AH/AA U/01	

SERIAL NO.	NAME	REG. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	AGE
279	Chhabil Kumar Majhi, S/o Sh Sakri Majhi	OrissaSV C/1882/03	At-Kadel PO-Turchi, Via- M.Rampur, Dt-Kalahandi- 766102	BVSc&AH/OU A&T/03	18.3.78
280	Chigurupati Sravan Kumar S/o Subba Rao	APSVC/38 84/02	Dr.No.10-15-44 D/3, Santhing, (Near Jayausha Sch) Ramanurthypet, Nellore Dt, A.P.	BVSc&AH/AN GRAU/2002	15.8.78
281	Chinmaya Kumar Das, S/o Sh Raghunath Das	OrissaSV C/1865/02	C/o Raghunath Das, AT- Chauliasahi PO-Motigan, Dt- Balasore	BVSc&AH/OU A&T/01	30.8.77
282	Chithra C.S.	KeralaSV C/2700/02	Chembil House, Karnattukara P.O. Thrissur-680011	BVSc&AH/KA U/02	15.7.77
283	Chittithotid Anil Kumar S/o Subharatnam	APSVC/38 73/02	No. P/13 Postal & Telecom Colony, Opp. Pragathi Bhavan, South Bypass Road, Ongole, Prakasam Dt. A.P.	BVSc&AH/AN GRAU/2002	02.08.77
284	Chopde Prashankumar Tejrao	MahaSVC /6654	A/Pdeori, Tal-Akot, Dt-Akola	BVSc&AH/MA FSU/02	26.6.79
285	Christiana Swarupa Rani S/o P. Devadanam	APSVC/39 03/02	13/682, Ramachandra Nagar, Anantapur-515001 A.P.	BVSc.&AH/AP AU/85	09.12.61
286	Cijo K Joseph	KeralaSV C/2753/02	C30/1225, Kottapuram House, Safdar Hashmy Lane, Vyttila P.O., Kochi-682019	BVSc&AH/KA U/02	05.6.78
287	Col. Viresh Kumar	ManiSVC/ 383/02	Dog Unit Leimakhong	BVSc&AH/UP AU/67	27.9.44
288	Constanding Thongni, S/o Sh P. Tusnia	MeghSVC /193/02	Umsning Ribhoi, Dist- 793105	BVSc&AH/AA U/89	4.6.69
289	D. Padmaja S/o Partha Sarathi	APSVC/39 23/03	7-1-302/45/3, B.K. Guda, S.R. Nagar Hyderabad A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	17.6.77
290	D.K.Gautam, S/o Munish Lal	UPSVC/3 578/02	VI-Baghur, PO-Bhensol, Dt- Auraiya	BVSc&AH/JNK VV/02	15.2.72
291	Dabhi Dineshkumar Mafatlal	GujSVC/2 430/02	Selection Tailors, Shree Ram Shopping Centre, Station Road, Dhanera, Banaskantha-385310	BVSc&AH/GA U/02	31.10.79
292	Dadhaniya Pareshkumar Kishorbhai, S/o Sh K.N.Dadhaniya	VCI/2453/ 04	704 Royal Nirman Shyamal Char Rasta, 100 Feet Road, Statelite, Ahmedabad	BVSc&AH/GU A/94	14.9.69
293	Dalal Sunita Kumari	RajSVC/2 893/02	Vidhyadhar Nagar, Jaipur Raj.	BVSc&AH/CC SHAU/94	06.7.70
294	Daleep Kumar Pandita, S/o Sh Makhan Lal Pandita	Pb.SVC/2 339/02	# 1602(FF) Sector 22-B Chandigarh/New India Assurance Co., Ltd.SCO 36- 37/17-A Chandigarh	BVSc&AH/RA U/82	19.10.60

SNOM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
295	Dalvinder Singh, S/o Sh Balbir Singh	Pb.SVC/2 386/02	Vill-Chahal Khurd, P/o Kamam, The&Dt-Nawan Shahr	BVSc&AH/PA U/01	7.7.72
296	Das Chandralekha, S/o Mr. Anil Ch Das	ASMSVC/ 2037/02	C/o Mr. A.C. Das Ganeshguri Nursery, Laxming, Ghy-6	BVSc&AH/AA U/02	
297	Das Chitralekha, D/o Mr. Anil Ch Das	ASMSVC/ 2039/02	C/o Mr. A.C. Das, Ganeshguri Nursery, Laxminagar, Ghy-6	BVSc&AH/AA U/02	
298	Das Debajani, D/o Mr. Umeswar Das	ASMSVC/ 2064/02	Milanur, Ward NO.3, PO-Dergaon, Dt-Golaghat, Assam	BVSc&AH/AA U/02	
299	Das Hemen, S/o Sri Kumud Das	ASMSVC/ 2069/03	Vill-Halhinapur, PO-Bongaigaon, Dt-Barpeta, Pin-781375	BVSc&AH/AA U/02	
300	Das Jitu Moni, S/o Mr. Rajen Ch Das	ASMSVC/ 2057/02	Vill&PO-Sualkuchi(N.Para), Dt-Kamrup	BVSc&AH/AA U/02	
301	Das Joy Prakash, S/o Mr Krishna Das	ASMSVC/ 2047/02	Vill-Bachagaon, PO-Panigaon, Dt-Lakhimpur	BVSc&AH/AA U/02	
302	Das Rajib Kumar, S/o Mr. Mamat Ch Das	ASMSVC/ 2076/03	Vill-Balasiddhi, PO&P. S-Chygaon, Dt-Kamrup	BVSc&AH/AA U/03	
303	Das (Ms) Hiramoni, D/o Mr. Ahindra Nath Das	ASMSVC/ 2045/02	C/o Mr. A.N. Das, Pragati Path, PO&Dt-Bongaigaon	BVSc&AH/AA U/02	
304	Dasappa. M. S/o Murugeppa	KarnaSVC /3409/	Subashnagar Ajjampur Chickmagalur District	BVSc/UAS, B'lo re/80	05.7.47
305	Dasharath B. Madabhavi S/o Basappa S. Madabhavi	KarnaSVC /3355	Ingalgaon Post. Athani TQ Belgalum Dist. 591220	BVSc&AH/UA S.Dharwad/02	01.12.76
306	Debashish Biswal, S/o Sh Amulya Kumar Biswal	OrissaSV C/1887/03	At/PO-Janikuada, Via-Baliapal, Dt-Balasore	BVSc&AH/OU A&T/03	13.5.78
307	Deepak Kumar Prasad, S/o Late Sh Kapil Deo Prasad	BiharSVC/ 2223/02	Vill-Lodhipur, PO-Nalanda, Thane-Nalanda, Dt-Nalanda	BVSc&AH/RA U/01	20.11.75
308	Deepak Kumar Senapati, S/o Sh Purna Chandra Senapati	OrissaSV C/1900/03	At: Siipi Kumbhar, PO-Buxibazar, Cuttack-753001	BVSc&AH/OU A&T/03	1.7.79
309	Deepak Minhas, S/o Sh Shakti Singh Minhas	Pb.SVC/2 377/02	Vill-Sadulpur Kalota, The-Harsa Kalota, Mukerian, Dt-Hosharpur	BVSc&AH/PA U/01	20.2.75
310	Deepak Subarn, S/o Sri Birendra Kumar	BiharSVC/ 2187/01	Vill-Ward No.2, Po-Bhabua, Thane-Bhabua, Dt-Kaimur	BVSc&AH/BA U/01	31.12.76
311	Deepali Chadda, D/o Sh Karanti Chadda	HPSVC/6 21/02	C/o Manish Kapurr, Madiroma, 40-Inds. Area, Shamshi Kullu, HP	BVSc&AH/HP KVV/99	15.10.76

SNOM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
312	Deivanai.M. S/o Diraviam D.	KarnaSVC/3418	135, Sai Nilaya, Poorna Pragathi Road, Havanur Extension, Nagasandra Post, T.Dasarahalli, B'lore-73	BVSc/TNVAAS UNI CH/06	25.3.73
313	Deka (Ms)Karahi,D/o Sh Joy Ch Deka	ASMSVC/2035/02	C/o Mr. Joy Ch Deka, Naharani Path, Last Gate, Dispur	BVSc&AH/AA U/02	
314	Dekate Avinash Heramb	MahaSVC/6566	At-Post Kurkheda, Dt- Gadchiroli	B.V.Sc&AH/PK V/79	7.8.52
315	Dekoo Animesh, S/o Late Sh Dhurani Dhar Deka	ASMSVC/2051/02	Vill&Po-Jagara, P. S. Belsor, Dt- Naibari, Pin-781310	BVSc&AH/AA U/02	
316	Desai Rajendrakumar Somabhai	GujSVC/2425/02	At. & Po. Amodh, Rabarivas, Unjha, Mehsana-384170	BVSc&AH/GA U/02	01.01.80
317	Deshattiwari Jagannath Janardhan	MahaSVC/6644	At-Marathwakadi, PO-Dhoki, Tal-Pandharkawada, Dt-Yavatmal-445305	BVSc&AH/MA FSU/02	16.1.80
318	Deshpande Girish Kalidas	MahaSVC/6696	Yoganand Niwas, Vrindawan Colony, Karegaon Rd, Parbhani, Dt-Parbhani	BVSc&AH/MA FSU/02	24.9.79
319	Desy Rani S/o Sh. Joginder Pal	HPSVC/651/02	H.I.G-71 H.B. Colony, Holta, Palampur Distt. Kangra, HP	BVSc & AH/P. Agri. Uni/90	24.3.64
320	Dev Sankar, S/o Sadhan Ranjan Dev	ASMSVC/2012/02	C/o Mr. Sadhan Ranjan Dev, Udayan Path, Rukminigaon, Guwahati -22	BVSc&AH/AA U/01	
321	Devender Panwar	RajSVC/2949/03	Sader Bazar Degana (JNC), Raj	BVSc&AH/RA U/03	08.7.76
322	Devendra Kumar Gupta, S/o Shri Moharial Gupta	MPSVC/2076/02	New Colony, G.C.M. Convent School Rd, Nowgaon, Dt- Chattarpur-471201	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	7.6.78
323	Devendrakumar Gautam, S/o Shri Munshilal Gautam	MPSVC/2126/03	E-6 Indramaninnagar Behind Mela Ground Gwalior MP-474005	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	15.2.72
324	Dhanalakshmi.S. S/o Late Sharanappa.B.	KarnaSVC/3310	Shruti Nilaya, VI MainMunicipal Colony Kelagote, Chitradurga 577501	BVSc&AH/JA S.Dharwad/01	13.3.79
325	Dhanya Menon	KeralaSV C/2690/02	Ananda Bhavanam, Kadavath Road, North Paravur, Ernakulam-683513	BVSc&AH/KA U/02	02.2.78
326	Dharmendra Kumar Gupta	RajSVC/2936/03	Dwarka Prasad Prakash Chand New Mandi, Toda Bhim, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	15.1.76
327	Dharmendra Kumar Verma, S/o Sri Harihar Mahto	BiharSVC/2143/01	Vill-Darudih, Po- Lasliganj, Dt- Palamu	BVSc&AH/BA U/01	9.1.75

SRNO	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	AGE
328	Dharmendra Suryawanshi, S/o Shri Bajilal Suryawanshi	MPSVC/2 128/03	Ganjibazar, Abdul Samad Marg, Khandwa Dt- Khandwa, MP-450001	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	10.3.74
329	Dhummun Singh	RajSVC/2 885/02	Vijay Nagar Colony Bassi Jaipur, Raj.	BVSc&AH/G.B PKEPV/76	01.1.54
330	Dijesh Unnikrishanan	KeralaSV C/2750/02	1/3845, Divyasree Bilathikulam, West Hill P.O. Kozhikode-673005	BVSc&AH/KA U/02	08.6.78
331	Dilip Kumar Das, S/o Sh Damodar Das	OrissaSV C/1872/02	Vill-Basudevapur, Po-Gobra, Dt- Ganjam-761124	BVSc&AH/JA S, Dharwad/00	22.9.77
332	Dilip Reddy Gunturu S/o VENKATACHALAMA Reddy	APSVC/38 91/02	G-3, Lakshmi Durga Apartments, Jayaprakash Nagar, Tenali, Guntur Dt, A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	25.8.79
333	Dillip Kumar Sethy, S/o Sh Gobinda Sethy	OrissaSV C/1913/03	At: Jayabada, Po/Dt Jagatsinghpur	BVSc&AH/OU A&T/03	15.7.77
334	Dimple Goyal, D/o Sh Ashok Kumar Goyal	Pb.SVC/2 423/03	Goel Diagnostic Lab., Dhurigate Sangrur	BVSc&AH/PA U/02	2.10.78
335	Dinesh Chandra Bamaniya	RajSVC/2 894/02	C/o Rup Lal Bamaniya (Teacher) Govt Sec. School Delwara Ghatol Banswara, Raj	BVSc&AH/TN V&ASU/02	10.1.78
336	Dinesh Dadarwal, S/o Sh K.R. Dadarwal	Pb.SVC/2 384/00	H.NO.32 Satguru Nagar, Ludhiana	BVSc&AH/HA U/99	17.9.75
337	Dinesh Kumar Bairma	RajSVC/2 962/03	V-Barkhera P-Khatwal, Dausa, Raj	BVSc&AH/RA U/03	01.7.77
338	Dinesh Kumar Dwivedi, S/o Sh Ambika Prasad Dwivedi	BiharSVC/ 2140/01	Vill-Barka Dhakaich, PO- Barka Dhakaich, Thane: Krishna Braham, Dt-Baxar	BVSc&AH/RA U/01	25.10.76
339	Dinesh Kumar, S/o Shri Ramkrishna Dohre	MPSVC/2 129/03	Pasaiya Samera post- Nayasmad Teh-Bersia Dt- Bhopal	BVSc&AH/JLN KVV/98-99	4.11.72
340	Dinesh Mahto, S/o Sri Deolal Mahto	BiharSVC/ 2176/01	Vill-Gora, PO-Gondek, Thane- Ramgarh, Dt-Hazaribagh	BVSc&AH/BA U/01	25.8.75
341	Dinesh Nagar, S/o Late Sh B.L. Nagar	MPSVC/2 107/02	E-4/391 Arera Colony, Bhopal- 462016	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	7.7.77
342	Dinesh Singh, S/o Sh Rajpal Singh	UPSVC/3 713/03	76 Kamlanagar Collector Ganj, Dt-Fatehpur	BVSc&AH/GB PUA&T/60	1.11.60
343	Dineshkumar H.S. /O Shanthappa	KarnaSVC /3395	Hirenallur, Kadur Taluk Chickmagalur Dist	BVSc&AH/JA S, B'lore/02	16.3.80

SERIAL NO.	NAME	REG. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	AGE
343	Dipakanti Saha, S/o Sh Lt Hari, Charan Saha	TripuraVC /148/03	Subhashi Rd, PO R.K.Pur, South Tripura	BVSc&AH/UNI of Calcutta/73	20.1.49
345	Dipan Kisan, S/o Sh Krushna Kisan	OrissaSV C/1916/03	At-Mantrimunda PO-T.T.Mal, Via-Kuchinda, Dt-Sambalpur-768222	BVSc&AH/OU A&T/03	1.7.79
346	Dipu M.T.	KeralaSV G/2734/02	Murickum Moodu, Kalavoor P.O Alappuzha-688522	BVSc&AH/KA U/02	27.5.79
347	Disale Kiran Sadashiv	MahaSVC /6620	At Paratwadi, Post-Reliadi, Tal-Koregaon, Dt-Satara-415011	BVSc&AH/MA FSU/02	19.3.80
348	Divendu Nandi, S/o Shri J.N.Nandi	MPSVC/2 /124/03	1463 Bangali Colony, Ranzhi Jabalpur-482005	BVSc&AH/WB UA&FSU/02	24.6.79
349	Diwakar Baburao Sarode, S/o Sh Sarode Baburao	VCI/2446/04	185 Friends Colony, Katol Road, Negrpur-440013 (M.S.)	BVSc&AH/PR KVP/73	2.10.52
350	Doddappa Hugar, S/o Sh Hanumantaraya Hugar	KarnaSVC /3307	Yalawar Post, B. Bagewadi, Tq-Bijapur, Dt-586201	BVSc&AH/UA S.Dharwad/01	20.7.78
351	Doley Ghana Kanta, S/o Laye Sh Prasad Doley	ASMSVC/ /2053/02	Patiri Vill&PO-Kulajan, Dt-Dharmaji, Pin-786110	BVSc&AH/AA U/02	3.8.53
352	Dushyant Preet, S/o Sh Om Parkash Sharma	Pb.SVC/2 /365/02	Aqarsh Nagar Nai Basti Mansa -151505	BVSc&AH/PA U/02	14.10.78
353	Dutta (Ms) Lakshya Jyoti, D/o Sjt. Kanta Nath Dutta	ASMSVC/ /2085/03	C/o Kanta Nath Dutta Mitong Nakalaji Vill&PO-Gaurisagar, Dt-Sibsagar	BVSc&AH/AA U/03	7.3.73
354	Dutta Dr Gitartha, S/o Late Anil Dutta	ASMSVC/ /2087/03	Training Centre, Sixmile Campus, Guwahati-22	BVSc&AH/AA U/03	10.10.78
355	Dutta Kaveri, D/o Mr. P.K. Dutta	ASMSVC/ /2026/02	Near Bishnu Nagar, L.P. School, PO&Dt-Dibrugarh, Pin-786001	BVSc&AH/AA U/02	1.12.73
356	Dutta Pankaj, S/o Sjt. Dharmeswar Dutta	ASMSVC/ /2065/02	Jhaji Bora gaon, Jorhat	BVSc&AH/AA U/02	28.8.78
357	Dutta (Ms) Ajanta, D/o Dr. U.C. Dutta	ASMSVC/ /2038/02	C/o Dr. U.C. Dutta, Kumarpara, Bhar alumukh, Ghy-9	BVSc&AH/AA U/02	7.7.77
358	Fayaz Ahmed G. Mulla S/o Bhouse Mohammad M. Mulla	KarnaSVC /3350	Near Railway Station Behind Hanuman Temple Bagalkote	BVSc&AH/UA S.Dharwad/02	05.4.77
359	Febi Thomas	KeralaSV C/2759/02	Thirumangalathu Veedu, Channapetta P.O. Kollan-691311	BVSc&AH/MA &FSU/02	09.3.80
360	Fiske Amole Vishweshwar	MahaSVC /6655	A/P Hatla, Tal-Katol, Dt-Nagpur	BVSc&AH/MA FSU/02	11.1.79

SR. NO.	NAME	RECN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DATE
361	G. RamKishore, S/o Sh. G.V. Srinivasa Murthy	APSVC/38 56/02	H.No. 16-3-892, Second Street, Haranadhapuram, Nellore-524003(A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	14.07.77
362	Gabhane Girish Kashinath	MahaSVC /6565	6-A Forest Colony, Near M.L.A. Hostel, Civil Lines, Nagpur	BVSc&AH/Dr. PDKV/01	15.6.79
363	Gadhvi Shukhdevsinh Pabudan	GujSVC/2 441/02	C/o S. G. Gadhvi Sukhbag Road, Arbudanagar, Dhundhiyawadi, Palanpur Banaskantha	BVSc&AH/GA U/02	16.06.76
364	Gagan Gaudi, S/o Sh Suresh Chander	HarSVC/1 731	558/4, Jawahar Nagar, Hisar	BVSc&AH/CC SHAU/02	6.7.78
365	Gagandeep Singh Dhillon, S/o Sh Manohar Singh	Pb. SVC/2 415/03	107, Prem Nagar, Batala Road, Amritsar	BVSc&AH/GA U/02	5.8.74
366	Gajendra Rajpurohit	RajSVC/2 948/03	Near Ganga Gaushala Hokha Bikaner- RAJ	BVSc&AH/RA U/03	20.7.78
367	Ganesh Chandra Mohanty, S/o Sh Gokuli Mohanty	OrissaSV C/1868/02	At. Kandisahi, PO Baniapat, Via- Arei, Dt-Jajpur-755027	BVSc&AH/OU A&T/01	10.6.77
368	Ganesh G Krishan Kumar, S/o Sh Mohan Prasad Verma	BiharSVC/ 2096/01	Vill Laxmanpur, Koin Tola, PO- Gutzarbagh, Thane- Alamganj, Dt- Patna, Pin-800 007	BVSc&AH/AN GRAU/00	10.7.78
369	Ganesh Kumar Garg	RajSVC/2 929/03	24- Bank Colony Mahesh Nagar Ext. 8 Jaipur Raj.	BVSc&AH/RA U/03	28.12.75
370	Ganesh Ram Mahali, S/o Sri Mangru Ram	BiharSVC/ 2177/01	Vill- Chanchi, PO- Gamharia, Thane- Ghagra, Dt- Gumla	BVSc&AH/BA U/01	10.7.75
371	Gangadhara B.S. S/o Late Siddaiah	KarnaSVC /3417	No. 2, Class, Quarters Bangalore Dairy Colony D.R. College Post. Biloc -29	BVSc/UAS, B'lo re/72	23.6.47
372	Gatti Yogish S/o Gatti Sadashiva	KarnaSVC /3368	Behind Govt. Hospital Kortagere, Tumkur Dist.- 572129	BVSc&AH/UA S, B'lore/02	20.4.79
373	Gavit Dineshkumar Sattasing	MahaSVC /6610	India Security Press Staff Quarter, No. D-27, Nasik Road, Nasik-4222101	B.V. Sc&AH/M PKV/01	27.4.77
374	Gaya Prasad Jatav, S/o Shri Ramdash Jatav	MPSVC/2 073/02	Room No. 4, Tagore Hall Veterinary College, Mhow- 453446	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	19.11.76
375	Geeta Rani Jena, D/o Sh Narayan Chandra Jena	OrissaSV C/1871/02	A.P. Q. Asurali, Dist- Bhadrak	BVSc&AH/UA S, B'lore/02	8.2.77
376	George (MS)Shinoy, D/o Mr George Malhai	ASMSVC/ 2028/02	Vill&PO- Chabu (Bogdungi) Dt-Dibrugarh	BVSc&AH/AA U/02	

SNO	NAME	REEL NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
377	George Sherin.K.	KeralaSV C/2687/02	Kuttickattu House Rubber Board, P.O. Kottayam, Pin- 686009	BVSc&AH/KA U/02	22.11.77
378	Ghanbahadur Vidyadhar Samadhan	MahaSVC /6628	At Po-Kawsa, Tal-Akot, Dist- Akola-444101	BVSc&AH/MA FSU/02	1.10.78
379	Ghanwat Dhananjay Vithalrao	MahaSVC /6670	At Wadjal, Post-Nimbhore, Tal- Phaltan, Dt-Satara	BVSc&AH/MA FSU/02	22.2.80
380	Gian Singh, S/o Sh Bhopal Singh	HarSVC/1 739	V. Tejpur, P.O.-Mandi Narnaul	BVSc&AH/CC SHAU/02	25.8.75
381	Gireesh Kumar Goyal	RajSVC/2 941/03	Radhe Shyam Ram Avtar New Mandi Hindaun City, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	10.1.77
382	Giriraj.N. S/o Honnana Gowdar N.	KarnaSVC /3369	Srishila Nilaya, Vohangidurga Post Harapanahalli TQ Davanagere 58325	BVSc&AH/UA S,Dharwad/02	13.3.80
383	Girish Kant Verma	RajSVC/2 964/03	Geetanjali Mayo, Link Road OL Saraswati Nagar, Ajmer Raj	BVSc&AH/RA U/03	18.7.74
384	Girish L S/o S.Lakshmana Gowda	KarnaSVC /3374	Alallukuppe, Chakrabhavi Post Magadi TQ, Bangalore Rural 562120	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	20.7.78
385	Gogoi Chandan, S/o Sh M.N.Gogoi	ASMSVC/ 2015/02	C/o Sri MNGogoi, Ward NO.3, PG Hostel, C. V. Sc AAU PO-Jorhat Lakhimpur	BVSc&AH/AA U/01	
386	Gogoi Digonoto, S/o Shri N.K. Gogoi	ASMSVC/ 2061/02	Basistha Borpathar, PO- Bellola, Guwahati-2	BVSc&AH/AA U/02	
387	Gohil Pradhyumansinh Varsinhbhai	GujSVC/2 417/02	To Kodinar Vijay Sales Agency, Madhav Complex Madhav Complex, Junagadh- 362720	BVSc&AH/GA U/02	20.09.79
388	Gopal Rai Bansal, S/o Mr.U.R.Bansal	MPSVC/2 045/02	Nehru Bazar, Vijaypur Dt- Sheopur-476332	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	25.6.73
389	Goriya Harshad Vaghaji	GujSVC/2 404/02	To Gor-Khijadiya, Po. Shardanagar, Morbi Rajkot- 363636	BVSc&AH/GA U/02	07.12.78
390	Goswami Anjan, S/o Mr Sarat Ch Goswami	ASMSVC/ 2046/02	VIII-Bhotaigaon, PO- Urigaon, Dt-Nagaon	BVSc&AH/AA U/02	
391	Gour Ritesh Bajrangsingh	MahaSVC /6643	Durga Bhavan, B-152 Shobha Nagar, Tal&Dt-Nanded	BVSc&AH/MA FSU/02	30.6.79
392	Govindkumar Bansal, S/o Shri R.P.Bansal	MPSVC/2 113/03	36, Nemanagar, Kesharbag Rd, Indore-452012	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	7.10.78

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
393	Gowda Sudhir Ninge S/o S. Lingegowda	KarnaSVC/3328	G.B. Anil, Vidyanagar Near Canara Bank, Shimoga	BVSc&AH/MAU/98	27.3.76
394	Gulshan Kumar, S/o Sh Ramesh Chand	HarSVC/1737	VPO Siwan Kaithal	BVSc&AH/CC SHAU/02	19.2.80
395	Gurjan Gakhar, D/o Sh Anil Kumar	Pb. SVC/2387/02	2336/B, Johinagar, Haibowal Ludhiana	BVSc&AH/PA U/02	23.12.79
396	Gurbinder Singh, S/o Sh Darshan Singh	Pb. SVC/2412/03	VPO Bhallaiana, Dt-Muktsar-152101	BVSc&AH/PA U/02	24.4.80
397	Gurvinder Pal Singh, S/o Sh Mangat Singh	Pb. SVC/2373/02	Vill-Panjdhara Rayya, P/o Mansoor Pur, The-Mukerian, Dt-Hoshiarpur	BVSc&AH/PA U/01	30.11.76
398	Gyanu Laxman Deepke	RajSVC/2888/02	1/C Govt. Veterinary Hosptial Babara, Pali Marwar Raj.	BVSc&AHMAU/94	17.6.60
399	H.C. Lal, S/o Late Sh S.P. Srivastava	UPSVC/3637/02	Swami Vivekanand Nagar, Deokali Faizabad	BVSc&AH/Agra Uni/75	15.8.50
400	H.P. Dwivadi, S/o Sh M.L. Dwivadi	UPSVC/3615/02	Shuklana Mohalla, Mahoba UP	BVSc&AH/JNK VV/02	10.7.78
401	H. Somanath, S/o Sh. Muneppa	APSVC/3838/02	Brahman Street, Chilamattur, Anantapur, Dt. 515341 (A.P)	BVSc. & AH/AP AU/1996	05.04.72
402	Hafiz Abdul, S/o Sh Abdul Halim	ASMSVC/2077/03	C/o Shumoz Uddin Ahmed, PO-Sonkuchi North Barpota Town, Dongarkuchi, Barpeta	BVSc&AH/AA U/02	
403	Hakke Prakash Pandhari, S/o Sh. Hakke Pandhari	APSVC/3843/02	H.No.5-96, Degaon (P), Bhainsa (M), Adilabad Dt., (A.P)	BVSc. & AH/MA U/2001	04.02.78
404	Haloi Bichitra, S/o Sri Dharmeshwar Haloi	ASMSVC/2056/02	Vill-Kathalmura, PO-Jalkhanan, Dt-Nalbari	BVSc&AH/AA U/02	
405	Handram Meena	RajSVC/2953/03	V/p-Torikhohara Todabhim Karauli, Raj	BVSc&AH/RA U/03	20.7.77
406	Hange Kaustubh Dilip	MahaSVC/6647	Hange wada, H.NO.730, Shukleshwar Rd, Rahuri Tal Rahuri Dt-Ahmednagar	BVSc&AH/MA FSU/02	17.2.80
407	Hannurkar Pratra Bharmu	MahaSVC/6702	A/P-Kini, Tal-Chandgad, Dt-Kolhapur	BVSc&AH/MA FSU/02	28.5.79
408	Hare Lal Mahto, S/o Sh Durlabh Mahto	BiharSVC/2160/01	Vill- Pedaidih, PO-Janumpiri, Thane-Tamar, Dt-Ranchi	BVSc&AH/BA U/01	7.1.74

Sl. No.	Name of Candidate	Regn. No.	Address	Qualification	Age
409	Hari Ram Soni	RajSVC/2 968/03	MPO-Arjun SAR Bikaner Raj	BVSc&AH/RA U/03	03.9.75
410	Harish Kumar Sharma, S/o Sh Charanjit Lal Sharma	Pb.SVC/2 371/02	225/11, Shankar Nagar, Tibri Road, Gurdaspur	BVSc&AH/PA U/02	28.10.78
411	Harish Kumar, S/o Sri Bidya Prasad Rai	BiharSVC/ 2102/01	VII-Andarkilla, Ward No. 7, PO- Hajipur, Thane-Hajipur, Dt- Vaishali, Pin-844101	BVSc&AH/RA U/00	1.12.68
412	Harmanpreet Singh Dhalwal	RajSVC/2 923/0	A.S. Dhalwal, Indra Colony Opposite UTI Quarters FCI Road Bikaner, Raj	BVSc&AH/RA U/03	27.7.75
413	Harpreet Singh	RajSVC/2 954/03	ST. No. 7-8 Sunderi Nagri Abdhar, Raj	BVSc&AH/RA U/01	15.10.74
414	Harsha K.S. S/o Mallikarjuna	KarnaSVC/ 73389	C/o K.S. Sadashiva Nerlige Post Javaga Hobli, Arasikere TQ. Hassan Dist	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	16.12.78
415	Harvinder Singh, S/o Sh Bhupinder Singh & Smt Tej Kaur	Pb.SVC/2 335/02	H.NO.821, Moh-Saidan Nakodar, Jalandhar	BVSc&AH/PA U/02	16.7.78
416	Haseena K.M.	KeralaSV C/2736/02	Kalikkunni House, Edavetty P.O. Thodupuzha Idukki- 685588	BVSc&AH/KA U/02	16.3.78
417	Hashmi Syed Zulfegar Ali	MahaSVC/ 6660	Blue Star Apartment, Plot No.7, Jubile Park, Bhadkar Gate, Aurangabad, Dt- Aurangabad	BVSc&AH/Uni of Bombay/68	5.5.46
418	Hazarika Prasanta Kumar, S/o Sh Chandra Kanta Hazarika	ASMSVC/ 2025/02	P.O. Dhalpur, Vite Dhalpur, Lakhimpur, Pin- 7841365	BVSc&AH/AA U/02	
419	Hazarika Rupam Chandra, S/o Mr. Phatik Ch Hazarika	ASMSVC/ 2059/02	C/o Phatik Ch Hazarika, Bakkalighat, Karbi- Anglong, Balijan, Assam	BVSc&AH/AA U/02	
420	Heramaba Prasad Satapathym, S/o Sh Kambupani Satapathy	OrissaSV C/1914/03	At/PO-Bijay Lakmi Saranpur, Dt-Ganjam-761119	BVSc&AH/OU A&T/03	7.5.77
421	Himanshu Kumar, S/o Satwan Singh	BiharSVC/ 2158/01	VII-Karma, PO-Karma, Thane- Karakot, Dt-Rohas	BVSc&AH/BA U/01	5.7.75
422	Hiralal S. Janagi S/o Shivappa S. Janagi	KarnaSVC/ 73391	Lingadhal Post, Gadag TQ. & Dist	BVSc&AH/UA S,Dharwad/02	10.7.75
423	Hiron M. Harshan	KeralaSV C/2692/02	Sanjeerani, Ayathil Elavumthitta P.O. Pathanamthitta Pin-689625	BVSc&AH/KA U/02	10.8.79
424	Hokato K. Yeptho, S/o Kheshto Yeptho	NSVC/180 /03	New Minister's Hill, Kohima Nagaland	BVSc&AH/AA U/03	25.9.78
425	Hoke Arjun Suryakantrao	MahaSVC /6672	Zenda Chowk, Patil Gali, Majalgaon, Dist-Beed	BVSc&AH/MA FSU/02	9.5.80

Sl. No.	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
426	Housekar Shivaji Harish Chandra	RajSVC/2 871/02	A/P- Bambori, Chittorgarh, Rajasthan	BVSc&AH/MA U/94	21.7.71
427	Hushangabade Pravin Sahebrao	MahaSVC /6692	Renuka Niwas, Birla Road, Tapadia Nagar, Akola Dt-Akola	BVSc&AH/MA FSU/02	15.5.77
428	Hussain Md. Liakot, S/o Sh Abdul Hussain Sarkar	ASMSVC/ 2086/03	C/o Abdul Hussain Sarkar, VIII-Pocharkandi, PO-Fokamari, Dt-Dhubri, Pin-783135	BVSc&AH/AA U/03	
429	I.D. Bharti, S/o Sh S.Y. Bharti	UPSVC/3 709/03	C/o Shiv Ratan Bharti Advocate Colletrate Court Gorakhpur	BVSc&AH/GB PUA&T/84	5.5.62
430	Indera Kachhawa	RajSVC/2 880/02	Near Mathusar Well Bikaner, Raj	BVSc&AH/RA U/01	24.1.69
431	Indra Prakash Vagoria	RajSVC/2 912/03	42-B, Rajkiyas House Opposited LIC Building Pali, Raj	BVSc&AH/RA U/03	28.7.73
432	Indradev Prasad, S/o Sri Mahabir Yadav	BiharSVC/ 2203/02	Vill-Madhpur PO- Karmegh, Thane-Saukha, Dt-Madhubani	BVSc&AH/RA U/00	1.6.73
433	Indu M. Namboodiri	KeralaSV C/2714/02	Madassery Viyyur P.O. Thrissur-680010	BVSc&AH/KA U/02	19.12.77
434	Islam Md Mobinur, S/o Md Nasir Uddin	ASMSVC/ 2078/03	Vill-Bopariparam, PO-Kakripara, Dt-Dhubri, Pin-783135	BVSc&AH/AA U/03	
435	J.K. Sexena, S/o Sh S.B. Sexena	UPSVC/3 680/03	264 Defence Estate Phase-2, Bundu Katra Dt-Agra	BVSc&AH/JNK VV/78	9.7.55
436	J.P. Agrawal, S/o Sh R.K. Agrawal	UPSVC/3 710/03	Sira, Allahbad-UP	BVSc&AH/GB PUA&T/71	15.7.50
437	J.P. Srivastava, S/o Sh S.R. Srivastava	UPSVC/3 665/03	C-1-39 Indra Nagar, Kanpur	BVSc&AH/GB PUA&T/78	3.11.54
438	J. Sambasiva Rao, S/o Bangaru	APSVC/38 92/02	Venkatapuram, Addank (M), Prakasam Dt. 523 201 A.P.	BVSc & AH/AN GRAU/2002	07.6.76
439	Jadhay Padma Dasharath	MahaSVC /6617	D-51, House No. 496, M.I.G. Colony Bandra (Eas), Mumbai	B.V. Sc&AH/KK V/87	03.3.65
440	Jadhaya Rupali Namdeo	MahaSVC /6612	228-B, Chimangaon, Tap Koregaon, Dist. Solapur	B.V. Sc&AH/M PKV/01	23.4.78
441	Jagdeep Singh, S/o Sh Sukhminder Singh	Ph. SVC/2 383/02	VPO Nathu, Wajadid, The&Dt-Moga	BVSc&AH/PA U/02	11.9.73
442	Jagdish Chandra Mahanand, S/o Sh Antaram Mahanand	OrissaSV C/1922/03	A/P-O Kaintara, Via-Balishankara, Dt-Sundargarh-770015	BVSc&AH/OU A&T/03	27.3.79

S/N	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
443	Jagpal Singh	RajSVC/2 961/03	V-Fatehsara Bakra Jhunjhunu Raj	BVSc&AH/RA U/03	01.7.76
444	Jagsir Singh Gill, S/o Sh Joginder Singh Gill	Pb. SVC/2 352/02	Vill-Noor Pur, Hachiman P/O Dharamkot-142042 Moga	BVSc&AH/PA U/02	30.8.79
445	Jai Narain, S/o Sh Dharam Singh	HarSVC/1 764	New India Public Sch, Near S.K. School, Bhiwani Rd, Jind	BVSc&AH/MA FSU/02 /02	30.10.77
446	Jainednrakumar Suryawanshi, S/o Sh Jawaharlal Suryawanshi	MPSVC/2 105/03	Subhash Hostel, Veterinary College, Jabalpur	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	1.1.76
447	Jaipal-Dhaiya	RajSVC/2 881/02	1/C. Govt. Veterianry Hospital Uttaradbas Hanumangarh, Rajasthan	BVSc&AH/CC SHAU/98	10.8.74
448	Jaiprakash, S/o Sh Anandi Prakash	BiharSVC/ 2099/01	Vill-Rana Bighna, PO-Rana Bigha, Thana-Deepnagar, Dt- Nalanda	BVSc&AH/RA U/00	11.4.75
449	Jamil Ahmed Khan Maqubool Ahmed Khan	MahaSVC /6579	Khan Building, 1-8- 671, Visava Ng, Nanded, Dt- Nanded	B.V.Sc&AH/M AU/00	25.1.76
450	Janapatla Nataraj Kumar S/o Rajaram	APSVC/39 14/03	H.No. 3/79, Madikonda, Warangal Dt-506 142 A.P.	BVSc&AH/AN GRAU/2002	22.8.78
451	Janardhana, A.M. s/O Muninarayanappa, M.	KarnaSVC /3381	No. 1300/2, College Road, P.W.D. Colony Hassan 573201	BVSc&AH/JA S,B'lore/02	04.8.79
452	Jangsher Ali Khan	RajSVC/2 967/03	Nr Medda Mill (Rajratan Palace Bhagwanpura Basti Ind. Area Ranibaza Bikaner, Raj	BVSc&AH/RA U/03	18.4.74
453	Jarnail Singh, S/o Sh Joginder Singh	Pb. SVC/2 342/02	H.No. 2833 Chopra Colony, Ropar Road, Machhiwara- 141115, Ludhiana	BVSc&AH/PA U/02	13.10.75
454	Jasmine Kaur, D/o Sh Kuldip Singh	Pb. SVC/2 401/03	53, New Tej Nagar, St.No.2, Sultanwind Road, Amritsar	BVSc&AH/PA U/02	16.12.79
455	Jaspinder Pal Kaur, D/o Sh Shamsher Singh Dhada	Pb. SVC/2 379/02	H.No.851/Sec-11, Panchkulai	BVSc&AH/PA U/02	7.2.78
456	Jaspreet Singh, S/o Sh Amarjit Singh	Pb. SVC/2 405/03	H.No.864/10, Master Colony, Bathwala Road, Gurdaspur	BVSc&AH/PA U/02	14.3.79
457	Jaspreet Singh, S/o Sh Balbir Singh	Pb. SVC/2 358/02	# Kothi 225, Phase-2, Mohali	BVSc&AH/PA U/02	7.11.78
458	Jaspreet Singh, S/o Sh Chander Mohan Singh	Pb. SVC/2 376/02	10-1 Sarabha Nagar, Opp Lakme, Lalooh, Ludhiana- 141001	BVSc&AH/PA U/02	11.3.79
459	Jaswinder Singh, S/o Sh Gurnam Singh	Pb. SVC/2 363/02	Malout Road, Near Rajpal Theatre, St. No.3, Muktsar	BVSc&AH/PA U/02	9.11.77

SRNO	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	AGE
460	Jatinder Jyoti, S/o Sh Lekh Raj	Pb.SVC/2 380/02	104, Shankar Nagar, Gurdaspur-143521	BVSc&AH/PA U/02	13.12.79
461	Jatindra Mohan Panda, S/o Sh Judhishtira Paada	OrissaSV C/1861/02	A/p Chakarkead, Via&Dt- Bargarh-768028	BVSc&AH/OU A&T/01	18.3.77
462	Javeri Freya Phiroze	GujSVC/2 444/03	The Habitat, D-12, Shree Krishna Complex, Nr. Mithakhali Six Roads, Ahmedabad-380009	BVSc&AH/GA U/02	01.05.75
463	Jaya K. Vijayan	KeralaSV C/2707/02	XXI/142, Santhi Hospital (R), West Nada, Kodungallur Pin- 680 664	BVSc&AH/KA U/02	05.7.77
464	Jayamala J. S/o Jayaramappa.N	KarnaSVC /3332	Nadipinayakana Hally Nagamangala Post, Sidlathatta TQ Kolar Dist	BVSc&AH/UA S,Dharwad/02	18.7.79
465	Jayashankar K.C. s/O D. Chandranna	KarnaSVC /3359	C/o N.Gurumurthy No.969 Raghavendra Nilaya, IInd Main MC Layout, Vijayang, B'lore	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	09.5.77
466	Jayasree K.V	KeralaSV C/2747/02	Pinakkattu House, Kodencherry P.O, Kozhikoda- 673580	BVSc&AH/KA U/02	08.2.77
467	Jayeshkumar Laxmanbhai	GujSVC/2 393/02	Block No.F-18/2,GAUSK Nagar,Datiwada,Dhanerai, Ba naskantha-385506	BVSc&AH/GA U/02	15.01.78
468	Jayram Seepana S/o Venkanna	APSVC/38 75/02	D.No.39-22- 55,Kalinganagal,Industrial Estate, Madhavadhara Visakhapatna m-530007 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	23.08.79
469	Jeebanjit Mishra, S/o Sh Damodar Mishra	OrissaSV C/1903/03	At:Gautam Nagar,PO/Dt- Koraput-764020	BVSc&AH/OU A&T/03	4.7.79
470	Jeralad Mahesh Kumar, M. S/o Sh Maria Savarimuthu	VCI/2441/ 04	Technical Officer, Small Animal Facility, National Institute of Immonology, ND- 67	BVSc/TNV&AS U/98	16.7.73
471	Jerin T.George	KeralaSV C/2751/02	Thunduvila Veedu, Mylom P.O. Kalayapuram (Via). Kottarakkara, Kollam-691560	BVSc&AH/KA U/02	31.5.76
472	Jeya Bharath Shanmugam	MahaSVC /6586	Abhinandan Residency, B-14 Jagtap Nagar, Wanawadi, Dist Pune	BVSc/TNV&AS U/96	26.11.70
473	Jeya Bharath, S. S/o Sh Shnmugam Jeya	VCI/2431/ 03	Abhinandhan, Residency, B- 14 Jagtap Nagar, Wanawadi, Pune- 411010	BVSc/TNV&AS U/94	26.11.70
474	Jini Anand	KeralaSV C/2741/02	Pulari Karikuzhi, Mayyanand P.O. Kollan-691303	BVSc&AH/KA U/02	23.5.78
475	Jitendra Kumar Chuhan, S/o Late Sh V.N.Chauhan	UPSVC/3 593/02	VI-Bakulaha PO- Padrauna, Dt-Kushinaga.	BVSc&AH/GB PUA&T/02	31.10.74

SERIAL	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
476	Jitendra Kumar Garg	RajSVC/2 911/03	Behind Govt. Hospital Kherli Alwar, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	08.2.75
477	Jitendra Prasad Singh, S/o Sh Bhubneswar Singh	BiharSVC/ 2124/01	Vill-Barohiya, PO- Budhchack, Thane- Kahalgaoon, Dt-Bhagalpur	BVSc&AH/RA U/00	11.10.74
478	Jitendra Sharma, S/o Sh O.P. Sharma	MPSVC/2 077/02	Gram&Po-Birkhedi, The- Gohad, Dt-Bhind, MP	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	18.9.73
479	Jitendra Tiwari, S/o Shri Rameshwar Dayal Tiwari	MPSVC/2 079/02	17/136 Madhopura, Morena- 476001	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	19.12.78
480	Johnson P.M.	KeralaSV C/2742/02	Pothiarambil House, Muttill, Mandad P.O. Kollam-673122	BVSc&AH/KA U/02	2.1.76
481	Jonson Bhengram, S/o Late Kumar Bhengra	BiharSVC/ 2209/02	Vill-Churgi Manhatu Ambatoli, PO-Torpa, Thane- Torpa, Dt-Ranchi	BVSc&AH/RA U/01	5.1.76
482	Jose Mathew Ancheril	KeralaSV C/2737/02	Ancheril House, Kizhathadiyoor P.O. Palai, Kottayam-686575	BVSc&AH/KA U/02	28.4.78
483	Jose Mathew	KeralaSV C/2691/02	Veettiyankal House, Kanjar P.O. Idukki-685592	BVSc&AH/KA U/02	03.2.78
484	Joshi Manishchandra Dineshchandra	GujSVC/2 424/02	At. Ghaghret, Po. Kuvasana, Visanagar, Mahsana-384315	BVSc&AH/GA U/02	01.06.79
485	Joshi Rohitkumar Chhotalal	GujSVC/2 449/03	At. Vardhara Po-Virpur Kheda	BVSc&AH/GA U/02	21.06.79
486	Joshi Sanjay Ramchandra	MahaSVC /6569	LDO Vety Dispensary, Ghoti Tal-Kurkhed, Dt-Gadchiroli	B.V.Sc&AH/PK V/77	30.6.52
487	Justin Davis	KeralaSV C/2746/02	T.C. 16/564, Kunnapuzha House, Padinjarethala, Lane Paravathari, Thrissur-680005	BVSc&AH/KA U/02	06.9.76
488	Jyothi V.Dev	KeralaSV C/2711/02	Puthuvelli Puthen Veedu, Manthuka P.O. Pathanamthitta-689519	BVSc&AH/KA U/02	30.5.78
489	Jyoti Gupta	RajSVC/2 921/03	P.No. 59 Barkat Nagar Tonk Phatak Jaipur, Raj	BVSc&AH/RA U/03	09.7.78
490	Jyoti Markan, D/o Sh Shish Pal Markan	Pb.SVC/2 414/03	417-D, BRS Nagar, Ludhiana	BVSc&AH/PA U/01	21.9.77
491	Jyotideeptha Mohanty, S/o Sh Uma Chandra Mohanty	OrissaSV C/1892/03	At-Kandalpur, PO/PS Kakatpur, Dt-Puri	BVSc&AH/OU A&T/03	18.6.80
492	K. Vijaya Kumar Reddy S/o Narayana Reddy	APSVC/38 88/02	7-1-307/44/54/A, B.K. Guda, Sanjeeva Reddy Nagar, Hyderabad, A.P.	BVSc&AH/AN GRAU/2002	01.6.79

SNO	NAME	RECN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
493	K.K.Mishra,S/o Late Sh S.P.Mishra	UPSVC/3 656/03	VI&PO-Machhaligoaun,Dt- Gorakhpur	BVSc&AH/GB PUA&T/76	1.10.54
494	K.Kiran S/o Gehar	APSVC/39 17/03	Plot No. 133, Sector-5 M.V.P. Colony Visakhapatnam- 530017 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	21.8.78
495	K.Mallikarjuna Rao,S/o Sh.Venkateswarlu	APSVC/38 37/02	C/o B.Vijaya Reddy,H.No.8-4- 390/A/8,Prem Nagar,Erragadda,Hyderabad- 18(A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	04.06.74
496	K.S.Yadav,S/o Sh.D.S. Yadav	UPSVC/3 645/03	45,Panchuati Coloney,Mawana,Murut UP	BVSc&AH/GB PUA&T/95	6.6.71
497	K.Skhembil,S/o (L) E.Laloo	MeghSVC /194/02	Umsning Ribhoi, Dist-793105	BVSc/U.A.S,B'I ore/81	1.7.56
498	K.Vijay Kumar,S/o Sh.Jagdish Kumar	APSVC/38 48/02	Plot No.1- 136,Vasudevareddy Nagar,Attapur,Hyderabad- 64(A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	05.09.76
499	Kacha Hareshkumar Laxmidas	GujSVC/2 410/02	At. & Po. Dhanfulia, VIA Shapur (Jorath), Junagadh- 362205	BVSc&AH/GA U/02	18.07.79
500	Kadivar Riyazahmed Fatemohmadbhai	GujSVC/2 415/02	To Sindhavadar, Wankaner Rajkot-363621	BVSc&AH/GA U/02	08.07.80
501	Kailash Babo,S/o Suddu	UPSVC/3 562/02	VI&PO-Dapasaura,Dt- Fatehpur	BVSc&AH/GB PUA&T/02	1.7.74
502	Kailash Parihar	RajSVC/2 975/03	H.No. 4-D-16 Pratap Nagar, Jodhpur, Raj	BVSc&AH/RA U/03	25.6.75
503	Kailash,S/o Sh C.L.Chouhan	MPSVC/2 099/02	Gram Lindzera Po- Chillod,The-Varaseoni,Dt- Balaghat,MP	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	25.7.74
504	Kajali Sarkar(Miss),D/o Sh Rajkumar Sarkar	TripuraVC /136/02	C/o Ashutosh Sarkar,Vill&PO- Bilthai,Dharmanagar,Tripura(North)	BVSc/UAS,B'Io re/98	18.11.73
505	Kakati Bhupen,S/o Sri Sarat Kakati	ASMSVC/ 2041/02	Vill-Uttar Jajori,PO- BORmonipur,Dt-Morigaon	BVSc&AH/AA U/02	
506	Kalariya Vasantkumar Mohanbhai	GujSVC/2 443/03	C/o Bahuchar Agro Centre, To-Chakampar, Morbi, Rajkot-363630	BVSc&AH/GA U/02	03.01.80
507	Kalita(Ms) Krishna,D/o Sjt Thaneswar Kalita	ASMSVC/ 2044/02	Vill&PO-Hazarikapara,Dt- Darrang,Pin-784145	BVSc&AH/AA U/02	
508	Kalita(Ms) Manashi,D/o Sri Sarat Kalita	ASMSVC/ 2070/01	C/o Sri Sarat Kalita, Polo field,Tezpur,Soritpur	BVSc&AH/AA U/01	

SNUM	NAME	DECN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
509	Kalyan Sunder Das, S/o Sh Pulin Bihar Dass	Pb.SVC/2 392/02	C/o Mr. Kirpal Singh Palaha, H.No. 1820/6, Maharaj Nagar, Ludhiana-141001	BVSc&AH/BC KVV/02	27.7.72
510	Kamal Chand Meena	RajSVC/2 874/02	Vill-Jugnuthapura Teh-Tulsa Baran, Rajasthan	BVSc&AH/RA U/01	03.8.70
511	Kamalapat Pateria, S/o Late Shri Ganesh Prasad Pateria	MPSVC/2 065/02	Rusia Marg Tal-Darwaja Tikamgarh, M.P.	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	2.3.68
512	Kamaljit Singh, S/o Sh Charanjit Singh	Pb.SVC/2 346/02	C/o Sh Harbans Singh, 276 Housing Board Sangrur	BVSc&AH/PA U/02	15.5.77
513	Kamalkant Sharma, S/o Sh Krishnakant Sharma	MPSVC/2 050/01	145, Radio Colony, Indore- 452001	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	8.10.74
514	Kamalpreet Kaur, D/o Sh Bhag Singh	Pb.SVC/ 2410/03	H.NO.643, ST.No.6, Gurbax Colony, Patiala-147001	BVSc&AH/PA U/01	12.1.79
515	Kamlesh Chadda S/o Sh Manohar Lal	HPSVC/6 20/02	Ward No. 4, 202/8 Taruwala Road, Durga Colony, Badripur, Pounta Sahib, Nahan HP.	BVSc & AH/JNKVV/80	30.5.55
516	Kandhare Balaji Madhavrao	MahaSVC /6578	At-Kalhali, Po-Rui, Tal- Kandhar, Dt-Nanded-431714	B.V.Sc&AH/M AU/01	12.7.77
517	Kanjariya Pravinkumar Triakambhai	GujSVC/2 422/02	Near Watertank, To, Vasana, Dhandhuka, Ahmedabad- 382460	BVSc&AH/GA U/02	15.11.79
518	Kantheti Jayasri D/o Ravindra	APSVC/38 67/02	C/o Y. Seetharamamma, Yerraguntla, Sirvel (M), Kurnool Dt. A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	16.06.80
519	Kanwal Deep, D/o Sh Bhim Sain & Smt.Chand Sharma	Pb.SVC/2 326/02	St.No.1, Geeta Colony, Jagraon, Dt-Ludhiana	BVSc&AH/PA U/01	18.2.78
520	Kanwaljeet Singh, S/o Sh Gurmeet Singh	PB.SVC/2 351/02	H.No.30/4 Behrampur Road, Gurdaspur-143521	BVSc&AH/PA U/01	31.8.78
521	Kanwar Jeet Singh, S/o Sh Davinder Singh & Smt.Rajinder Kaur	Pb.SVC/2 327/02	H.No.110/A, St.No.2, Deep Nagar, Seona Road, Patiala	BVSc&AH/PA U/01	29.7.76
522	Kapil Lamba, S/o Sh Jasbir Singh	HarSVC/1 732	41/10 Shyam Nagar, Mill Road, Hisar	BVSc&AH/CC SHAU/02	15.3.79
523	Kargilwar Sheetal Vinayak	MahaSVC /6684	Rutu Apartment, Plot No.4, Wardha Rd, Old Sneh Ng, Nagpur	BVSc&AH/MA FSU/02	20.5.79
524	Karnelsingh Thandi, S/o Sh Mr.Ajayabsingh Thandi	MPSVC/2 043/02	89, Vidya Nagar, Indore- 453001	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	20.5.73
525	Kartik Chandra Sahoo, S/o Sh Gokulchandra Sahoo	OrissaSV C/1893/03	At-C-26, Front of Bidanasi High School, Po-Bidanashi Cuttack-753011	BVSc&AH/OU A&T/03	10.7.79

SN/ID	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
526	Karuna Shukla, D/o Late Shri Omprakash Shukla	MPSVC/2 114/03	Block No.7, Janki Complex, Priyadarshani Parisar Ukhari Rd, Baldev Bagh, Jabalpur-482002	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	31.8.78
527	Kashiviswanath.R., S/o Sh Hegde, K.R	KarnaSVC /3321	No. 35, 5th Cross 2nd Main Road, Ashrama Col Sanajayanagar B94	BVSc&AH/JA S, B'LORE/01	17.9.76
528	Kashiwar Dilipkumar Kewalram	MahaSVC /6657	At-Murer Post- Kasamtondi, Tal-Arjuni Sadak, Dt-Gondia	BVSc&AH/MA FSU/02	25.11.77
529	Kala Venkateswarlu S/o Kondaiah	APSVC/39 25/03	Ponnalur (P&m), Prakasam Dt. 523109 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	01.7.76
530	Katipogu Vijaya D/o Pitchaiah	APSVC/39 11/03	H.No. 10-4-107/1, Mamillagudem, Khammam-507001 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	05.2.78
531	Katpatal Bhaskar Gopal	MahaSVC /6659	Qt.No.3, Visweswaraiya Regional, College of Engineering VRCE, Nagpur	BVSc/Uni of Saugar/55	4.10.34
532	Katre Tribhuvan Lekheshwar	MahaSVC /6653	A/P Jamkahri, Tal-Amgaon, Dt-Gondia	BVSc&AH/MA FSU/02	5.7.79
533	Kaushlendra Kumar, S/o Sri Sathyendra Kumar	BiharSVC/ 2210/02	Vill-Sebby Sewti, PO-Ikkil, Thane-Makhdumpur, Dt-Jahanabad	BVSc&AH/GB PUA&T/01	10.2.76
534	Kawthekar Sunil Bajirao	MahaSVC /6619	Panjri Road, Shahu Nagar, Beed-431122	BVSc&AH/MA FSU/02	23.2.80
535	Keshav Singh Sagar, S/o Shri Bhogiram Sagar	MPSVC/2 057/02	Gram-Sarayekapura, P.O Nai Gadi, Dt-Bhind-477556	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	27.6.78
536	Kevimese Khate, S/o Vesewa Khate	NSVC/016 1/01	C/o M. Khate, Half Nagarjan Dimapur	BVSc&AH/Dr. PDKVP/00	16.2.76
537	Kevin Peter D'Mello	GoaSVC/1 2402	C/o Elmiro Gomes Vaddy Siclim, Bardez-Goa-403507	BVSc&AH/KK VP/97	
538	Khandagale Deepak Mahadeo	MahaSVC /6668	Mali Galli, At Post Tal. Patoda, Dist. Beed	B.V.Sc&AH/M AU/01	24.5.77
539	Kharde Shambhudeo Dadarao	MahaSVC /6631	Anita', Chikhli Rd, Bhagwanbaba Nagar, Deulgaon Raja, Buldana-443204	BVSc&AH/MA FSU/02	5.12.78
540	Khayen Mehto, S/o Shri Ramchandra Mehto	MPSVC/2 118/03	11, Saraswati Nagar, R.K.Puri, Thatipur, Gwalior-474011	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	17.12.78
541	Khem Chand Grag	RajSVC/2 927/03	Medical Store Weir Sharatpur, Raj	BVSc&AH/RA U/03	11.2.77

S.N.	NAME	TECH. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
542	Khesar Sandip Daulatrao	MahaSVC /6640	Shree Sadan Shivaji Nagar, Behind Sweety Theater, Sillod, Taluka Sillod, Dt-Aurangabad-431112	BVSc&AH/MA FSU/02	13.4.79
543	Khizar Ahmed Khan	MahaSVC /6682	Near Jama Masjid Main Rd, At&Po-Barshi Takli, Tal- Barsi, Talaki, Dt-Akola	BVSc&AH/MA FSU/02	30.12.77
544	Khobragade Shailija Bhanudas	MahaSVC /6600	Prabuddh Nagar Masala Road Near Dr. Hirwale Tal.+Dist-Wardha.442001	B.V.Sc&AH/Dr. PDKV/01	10.12.78
545	Khorajiya Asalambhai Ismailbhai	GujSVC/2 429/02	At. & Po. Badargadh, Palampur, Banaskantha- 385410	BVSc&AH/GA U/02	02.06.80
546	Khrawburom lawkoh, S/o Sh Ewel Khongstia	MeghSVC /200/03	Pynursla, E.Khasi Hills Meghalaya-793110	BVSc&AH/AA U/03	2.10.78
547	Khursheed Aalam, S/o Dr.Sadiq Ali	UPSVC/3 677/03	Sadiq Market Kurwar Road, Dt-Sultanpur	BVSc&AH/Agr a Uni/71	20.6.49
548	Kiran Kumari, S/o Sri Narendra Nath Mishra	BiharSVC/ 212201	Vill-Gandhbar, PO-Gandhbar Via-Pandaul, Thane-Sakri, Dt- Madhubani	BVSc&AH/RA U/00	2.1.75
549	Kiranjeet Singh, S/o Sh Baldev Singh&Smt Harmesh Kaur	Pb.SVC/2 336/02	C/o Sub. Mukhtiar Singh Chouhan VPO Uppli Near Sangrur Dt&The- Sangrur-148001	BVSc&AH/PA U/01	12.11.78
550	Kishor Hansdaak, S/o Sri Lal Hansdaak	BiharSVC/ 2205/02	Vill-Bokrabandh, PO- Damruhatt, Thane-Sunder Pahari, Dt-Godda	BVSc&AH/RA U/01	12.1.73
551	Kochewad Sanjivkumar Angadrao	MahaSVC /6633	118/3 Umarga(Manna), Udgir, Dt- Latur-413517	BVSc&AH/MA FSU/02	20.7.80
552	Kokane Raju Rama	MahaSVC /6700	282/5, Jawaharng. Rd No.3, Goregaon(West) Mumbai	BVSc&AHKKV /99	4.3.71
553	Kolekar Babaso Subhash	MahaSVC /6663	At & Post Nandani, Tal. Shirol, Dist. Kolhapur	B.V.Sc&AH/KK V/2K	02.6.78
554	Kolhe Ajay Kashaorao	MahaSVC /6567	At-Po Mowad, Tal-Narkhed, Dt- Nagpur	B.V.Sc&AH/Dr. PDKV/01	14.7.78
555	Kolhe Rahul Prakash	MahaSVC /6645	AT-Mangul, Post-Rani Amravati, Tal-Babulgaon, Dt- Yavatmal-445101	BVSc&AH/MA FSU/02	3.4.79
556	Konch Chambal, S/o Sri Bhadreswar Konch	ASMSVC/ 2073/03	VIII-Rangachila, PO- Machknowa, Dt-Dhomaji, Pin- 787058	BVSc&AH/AA U/03	
557	Konch Himadri, S/o Late Jogen Konch	ASMSVC/ 2081/03	C/o Late Jogen Konch, Vill- Majgaon, PO-Machkhowa, Dt- Dhomaji, Pin-787058	BVSc&AH/AA U/03	

SERIAL	NAME	REG. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	MR
558	Konwar(Ms)Pahary,D/o Sh Bhabu Konwar	ASMSVC/2060/02	Near Police Thana, Po-Tongakhal, Dt-Dibrugarh	BVSc&AH/AA U/02	
559	Kosarlie,S/o Lt.L.Angami	NSVC/0174/02	National School Mission Road, Kohima Nagaland	BVSc/TNAU/78	1.3.50
560	Krishan Chandra Jha,S/o Late Sh Chandra Shekhar Jha	BiharSVC/2131/01	Vill:Chanakyapuri Gajjala,PO-Saharsa,Thane,Dt Saharsa	BVSc&AH/WB UA&FS/01	4.1.76
561	Krishna Kumara Raju K.R. S/o K.P. Ramchandra	KarnaSVC/3410/	Gurukrupa, Raysingh Layout Hosakote, Bangalore Rural	BVSc/UAS,B'lore/74	21.7.48
562	Krishna Mohan Kumr,S/o Sri Surendra Kumar Sinha	BiharSVC/2207/02	Vill-Kabir Chak,PO-Kabir Chak,Thane-Sadar,Dt-Darbhanga	BVSc&AH/KK V/01	1.3.77
563	Krishna Sakanadagi S/o Lakshman Sakanadagi	KarnaSVC/3334	Sidrameshwar Colony Near GIBC Colony, Jamkhandi Bagalkote Dist.	BVSc&AH/UA S,Dharwad/02	14.7.78
564	Krishna.M. S/o Mariyaappa.M.	KarnaSVC/3312	Metikurke Post, Hiriyur TQ.Chitradurga 572144	BVSc&AH/UA S, B'LORE/01	20.6.77
565	Krishnakumar Gupta,S/o Shri Maheshchandra Gupta	MPSVC/2091/02	Room No.15,Tagore Hall, Veterinary College,Mhow-453446	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	3.11.73
566	Krishnaveni Lekkala D/o Naidu. L.G.	APSVC/3866/02	MIG-134, Alkananda Colony, Vizianagaram, A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	05.05.78
567	Krupavathi Roppala,D/o Sh.R.Sanyasi	APSVC/3858/02	SC Colony,Devarapalli,Visakhapatnam Dt.-531030(A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	25.07.76
568	Krushna Chandra Malik,S/o Sh Daityari Malik	OrissaSV C/19.18/03	AI/PO-Tentei,Via-Anantapur,Dt-Balasore-756046	BVSc&AH/OU A&T/03	23.2.77
569	Kshetra Pal Singh,S/o Sh Nand Lal Verma	UPSVC/3556/02	Vill-Jarella Po-Ghatri,Dt-Firozabad UP	BVSc&AH/GB PUA&T/02	1.6.77
570	Ku.Jyoti Jain,D/o Shri S.K.Jain	MPSVC/2086/02	Anushri Apartment Flat NO.5,First Floor Goal Bazar, Jabalpur-482002	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	30.6.76
571	Ku.Swati Jain,D/o Shri Rajkumar Jain	MPSVC/2085/02	Qtr.No.G-7 Old Bargi Hills Colony,Jabalpur-482025	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	8.8.76
572	Ku.Uma Kumre,S/o Shri Jagaeram Kumre	MPSVC/2062/02	Maharana Pratap Ward Seoni Dt,Seoni,M.P.	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	12.9.80
573	Kukde Rameshchandra Jairamji	MahaSVC/6614	57, Modern Soceity, Pratap Nagar, Nagpur-440022	B.V.Sc&AH/PK V/72	13.1.47
574	Kulbhushan Nagal,S/o Sh Krishan Kumar	HPSVC/638/02	H.NO.160/10,Near Ramneek Hotel,Dhaipur,Distt-Kullu,HP	BVSc&AH/CS AKEPV/80	20.6.57

SNO	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
575	Kuldeep Kumar Rathore, S/o Sh R.P. Rathore	UPSVC/3 592/02	Near Peeli Cothi, New Yadav Colony Shikohabad, Firozaabad	BVSc&AH/GB PUA&T/02	8.7.77
576	Kuldeep Mittal, S/o Sh Satpal Mittal	HarSVC/1 750	R-34 Model Town, Narwana	BVSc&AH/CC SHAU/02	3.4.79
577	Kuldeep Singh, S/o Sh Gursharan Singh	Pb. SVC/2 391/02	B-1286, New Partap Nagar, Gurlal Bazar, Gali No.4, G.T. Road, Amritsar	BVSc&AH/PA U/02	10.11.79
578	Kuljit Singh, S/o Sh Bachittar Singh & Smt. Prakash Kaur	Pb. SVC/2 334/02	Moh Singh Pura, VPO Urmur (Tanda) Dt-Hoshiarpur- 144204	BVSc&AH/PA U/02	23.10.79
579	Kulkarni Dattatraya Ashokrao	MahaSVC /6695	C/o Sh Chintamani Maharaj, Aashram, Basmat Rd, Parbhani Dt	BVSc&AH/MA FSU/02	25.2.80
580	Kulkarni Mahesh Balwantrao	MahaSVC /6658	Mallikar Juna Chowk, Shirur Anatpal Tal-Shirur Anantpal Dt-Latur	BVSc&AH/MA FSU/02	22.10.79
581	Kumar Shambu Sharnam, S/o Shri Chetan Mochi	MPSVC/2 088/02	Shri Sunil Singh Thakur, Manager, Narmada Club, Jabalpur, MP	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	1.3.78
582	Kumar Shmbhu Sharnam, S/o Sh Chetan Mochi	VCI/2413/ 03	C/o Sh S.S. Thakur, At- Narbuda Club Cant, Dt- Jabalpur (MP)	BVSc&AH/JNK VV/01-02	1.3.78
583	Kumar Vikas	RajSVC/2 889/02	VPO-Mandari Veterinary Hospital, Teh-Khatri Pali Jhunjhunu Raj	BVSc&AH/CC SHAU/2K	29.6.78
584	Kumar Vikas, S/o Sh Shri Prakash	VCI/2407/ 03	H.NO.281, Housing Board Colony, Narnaul- 123001, Mohinder Garh, Haryana	BVSc&AH/CC SHAU/2000	29.6.78
585	Kumari Pramila Sinha, S/o Sri Arun Kumar Sinha	BiharSVC/ 2169/01	Qrt.NO.B-18, Sector-1, PO- Dhurba, Thane- Jagamathpur, Dt-Ranchi	BVSc&AH/BA U/01	15.12.72
586	Kumbhar Umesh Balkrishan	MahaSVC /6688	Shivtej Niwas, B-220, Bapuji Salunke Ng, Vitanaka Pundi Rd, Tasgaon, Dt-Sangali	BVSc&AH/MA FSU/02	11.5.80
587	Kute Ananda Radhakrishan	MahaSVC /6687	Godawari Medical, Saikheda, Tal- Niphad, Dt-Nasik	BVSc&AH/MA FSU/02	1.11.77
588	L.P. Singh, S/o Late Sh Ranjay Singh	UPSVC/3 707/03	V1&PO-Jalaipur Maficctumar, Dt-Mirzapur	BVSc&AH/GB PUA&T/70	2.7.46
589	L.R. Singh, S/o Sh D.P. Singh	UPSVC/3 705/03	C/o D.P. Singh Advocate, Collectrate Court, Dt-Sultanpur	BVSc&AH/GB PUA&T/91	23.3.68
590	Lagamanna S. Salagare S/o Shivappa	KarnaSVC /3315	Diggenadi, Raibag TQ. Belgaum Dist	BVSc&AH/JA S, Dharwad/01	10.7.78
591	Laishram Babita Devi	ManiSVC/ 375/02	Pishumthong Ningom Leirak, Imphal	BVSc&AH/KA U/02	28.02.79

SNUM	NAME	RECN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
592	Lakshmana Rao Nakka S/o Appa Rao	APSVC/38 81/02	Alladapeta, Allada (P.O) VIA: Utlam, Srikakulam Dt-532425 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	25.11.76
593	Lakshmi Shree K.T. S/o Thimmaiah	KarnaSVC /3396	Opp. Taluk Office, T.B. Road Kadur, Chickmagalur Dist 577548	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	21.5.79
594	Lalhruaipuii,D/o Rophira	MizSVC/1 37/02	Chaltlang, Aizwal,Mizoram	BVSc&AH/AA U/02	7.9.78
595	Lallawmzuali Ralte,D/o Sh R.C. Thuama	MizSVC/1 38/02	Republic Venghlun,Aizwal,Mizoram	BVSc&AH/AA U/02	14.3.79
596	Lallianchhunga,S/o Sh Vengkama	MizSVC/1 40/03	C/o MC Lalrinthanga Khatla 'S' Aizwal Mizoram	BVSc&AH/RA U/02	12.1.75
597	Lalminthang Doungel,S/o S Dongel	NSVC/184 /03	S.M.High School,Dimapur,Nagaland-797112	BVSc&AH/AA U/00	16.8.72
598	Lalu.K	KeralaSV C/2693/02	K.V. Mandiram Edamon-34 Edamon P.O. Punalur, Kollan-691307	BVSc&AH/KA U/02	27.5.78
599	Lama Binay,S/o Late Sh G. Lama	ASMSVC/ 2017/02	Vill-Tiloi Nagar, PO-Kbowang,Dt-Dibrugarh,Pin-785675	BVSc&AH/AA U/01	
600	Latha.M. S/o Ramesh P.C.	KarnaSVC /3415	Manivenkatappa. Lakkur Mallur TQ. Kolar Dist 563130	BVSc & AH/UAS,B'lore/ 02	20.7.78
601	Lavanya Torlapati D/o Satyanarayana Raju	APSVC/38 94/02	Thamarakollu(P) , Kaikalur(M), Krishna Dt. A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	10.5.76
602	Lavkush Nag,S/o Sh Ramraj Nag	UPSVC/3 552/02	359/33/12,Katra Khudayar kHan, Sahadat Ganj,L.K.O	BVSc&AH/GB PUA&T/02	28.2.76
603	Laxmana B. Jambagi S/o Balappa Jambagi	KarnaSVC /3325	Harugere, Raibag TQ Belgaum Dist.	BVSc&AH/UA S,Dharwad/01	20.9.77
604	Leena Ross Tirki(Miss),D/o Mr.Piter Tirki	MPSVC/2 030/02	Pragatishil Colony,Jabalpur,Narbada Road	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	18.2.78
605	Lekshmy M.A.	KeralaSV C/2760/02	Vaisakh Venkode P.O., Vattappara, Trivandrum-695028	BVSc/TNV&AS U/02	06.5.78
606	Leslie Leo Prince L,S/o P.Lawrence	VCI/2404/ 03	9/258,Vella Kovil Rd, Muthur,Kangayan(T.K)Erode(Dt)T.N	BVSc/TNV&AS U/97	22.6.74
607	Lingaraj Mahanta,S/o Sh Manoranjan Mahanta	OrissaSV C/1888/03	At:Purunapani,PO-Nabedhi,Dt-Mayurbhanj-757030	BVSc&AH/OU A&T/03	15.3.79
608	Lofty Tyngkan,S/o K Synnah	MeghSVC /201/03	Nongkynrih, Jaintia Hills-793150	BVSc&AH/AA U/03	17.4.78

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
609	Loh Dalsangbhan Valjibhai	GujSVC/2 427/02	At. Rampura, Po. Dhota, Vadgam, Banaskantha- 385421	BVSc&AH/GA U/02	25.04.80
610	Lokesh Agarwal	RajSVC/2 966/03	210 Mahaveer Nagar-2 Kota, Raj	BVSc&AH/RA U/03	15.1.73
611	Lokesh Chhipa	RajSVC/2 907/03	A-328, Vaishali Nagar, Jaipur, Raj	BVSc&AH/RA U/03	22.12.77
612	Lokhande Pramod Harishchandra	MahaSVC /6590	Harishchandra Apartment, Nagewadi, Tal. Khanapur, Dist. Sangli	B.V.Sc&AH/M PKV/01	09.10.77
613	M.A. Saleem, S/o Md. Siddiq	APSVC/38 27/02	11-5-162/13, 2nd Floor, Red Hills, Hyderabad(A.P)	BVSc./APAU/1 982	05-06-40
614	M.K. Gupta, S/o M.P. Gupta	UPSVC/3 545/02	VI-Mokapur, PO- Jaisinghpur, Dt-Sultanpur	BVSc&AH/GB PUA&T/84	14.12.62
615	M.P. Singh Gour, S/o Sh Jamuna Singh	UPSVC/3 698/03	VI&PO-Noorpur, Dt-Hardoi	BVSc&AH/GB PUA&T/91	15.8.69
616	M.Raj Kishore Reddy S/o Narayanan Reddy	APSVC/39 29/03	C/o N.P. Eswar Reddy, No C 44-8 or 11-44-7 S.V. Nagar, Truiputi - A.P	BVSc.&AH/AN GRAU/2000	02.7.75
617	M. Satya Prakasam, S/o Sh. Sankara Narayana	APSVC/38 28/02	MIG 105, APHB, Alakananda Colony, Vizianagaram(A.P)	BVSc./APAU/1 978	01.07.40
618	M.V. Subbarayudu, S/o Sh. Venkataiah	APSVC/38 33/02	Vety. Asst. Surgeon, Vety. Dispe nsary, Somandepalli, Anantapu r, Dt. A.P.	BVSc.&AH/AP AU/1992	01.07.67
619	M. Vijaya Kumar S/o Radhakrishna Murthy	APSVC/39 18/03	32-2-10-B ANUHYA Madhu Chowk, Mogalrapuram, Vijayawada-520010 A.P.	BVSc/Uni of Madras/66	31.7.42
620	Madan Lal S/o Sh Shiv Lal	HarSVC/1 756	Near New Sharda Public School, Bhuna, Distt- Fetehabad	BVSc&AH/CC SHAU/02	15.11.78
621	Madan Lala Meena	RajSVC/2 892/02	VPO-Dubbi Rajgarh Alwar, Raj	BVSc&AH/RA U/2K	06.7.70
622	Madhu Saharan, D/o Sh Om Prakash	HarSVC/1 766	1570, Urban State-2, Hisar	BVSc&AH/CC SHAU/93	8.8.70
623	Madhu Shelly, D/o Sh Basant Rai	Pb. SVC/2 420/03	HIG-1395, Model Town, Bathinda-151001	BVSc&AH/PA U/02	17.11.79
624	Madhu Tiwari, D/o Sh B. Mohan Kumar	UPSVC/3 551/02	6/1911, New Colony, Pantnagar	BVSc&AH/GB PUA&T/02	11.9.78
625	Madhuchandre Gowda M.R. S/o Ramaiah. T.	KarnaSVC /3361	Mavinakatte Koppalu Devalapura Hobli, Nagamangala TQ. Mandya Dist.	BVSc&AH/UA S, B'lore/02	01.7.79

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
626	Madhulal. V	KeralaSV C/2767/02	Velliatte House, Akkode P.O, Vazhakkadu (via), Malappuram-673640	BVSc &AH/ANGRAU H/02	9.11.77
627	Madhuri G	KeralaSV C/2749/02	Santhi Nilayam, Prayar North, Prayar P.O. Oachira, Alappuzha-690547	BVSc&AH/KA U/02	25.5.77
628	Madhuri Sri Hyma T., D/o Sh. Sesha Sai	APSVC/38 26/02	W/o G.Srikanth, Op. Viswashani Theatre, R.R. Pet, Eluru, W.G. Dt , A.P	BVSc.&AH/AN GRAU/2000	26.07.76
629	Madhusudan G.P S/o Puttaswamy, G.D..	KarnaSVC /3319	Goravannahalli Maddur TQ, Mandya Dist.	BVSc&AH/UA S, B'LORE/0	19.6.78
630	Madhusudhana Reddy S/o Venkatarama Reddy P.	KarnaSVC /3327	Masanapally Palyakere Post Bagepally TQ Kolar Dist. 583125	BVSc/UAS B'LORE/82	05.9.59
631	Maganti V.S. Ramesh Kumar S/o Laxmaiah	APSVC/39 05/02	C/3, N.S.C Wyra Khammam Dt-507165, A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	02.6.79
632	Magnus Paul	KeralaSV C/2686/02	Kakkassery House, Mukkattukara, Nettissery P.O. Thrissur-6800657	BVSc&AH/KA U/02	02.10.77
633	Mahafooz Ali	RajSVC/2 988/03	8-B-19 Vigyan Nagar, Kota Raj.	BVSc&AH/RA U/03	11.12.76
634	Mahalle Shivendra Devidas	MahaSVC /6667	At Post Kotegaon, Tal. Anjangaon, Dist. Amravati	B.V.Sc&AH/Dr. PDKV/99	14.3.72
635	Mahavir Singh, S/o A. Singh	UPSVC/3 666/03	3-H-23 Nehru Nagar, Ghaziabad	BVSc&AH/GB PUA&T/70	4.7.46
636	Mahender Kumar Sharma	RajSVC/2 991/03	VPO Padru Barmer, Raj	BVSc&AH/HA U/91	04.4.66
637	Mahender Kumar, S/o Sh Subhash Chander	HarSVC/1 757	6, Ashok Vihar, Azad Nagar, Hisar	BVSc&AH/CC SHAU/02	19.5.78
638	Mahendra Paswan, S/o Sh Ram Bilash Paswan	BiharSVC/ 2118/01	Vill-Heralpatti, PO- Anandpur, Thane-Rameshwar Ng. Dt-Darbhangha Pin-847101	BVSc&AH/RA U/00	1.12.77
639	Mahendra Singh Dharve, S/o Shri R.S. Dharve	MPSVC/2 089/02	HIG-14 Pachpedi Jabalpur	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	10.12.78
640	Mahendranath, S/o Sh Lallanprasad	MPSVC/2 044/02	11, Saraswati Ng, Thatipur Uni Road, Gwalior, MP	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	15.7.77
641	Mahesh Asati, S/o Shri Dindayal Asati	MPSVC/2 096/02	The-Po Bada Malhara Dt- Chhatarpur-471311	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	30.6.77
642	Maheshlal Jatav, S/o Shri Arjunal Jatav	MPSVC/2 075/02	New Petrol Pump, M.S. Road Sabalpur. Dt-Morena-476229	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	15.7.76

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
643	Maheshwar Singh, S/o Sh Harjeet Singh	Pb.SVC/2 345/02	T4/5, Shahpur Khandi, T/S The-Pathankot, Gurdaspur	BVSc&AH/PA U/02	13.3.80
644	Mahrukh Mustafa Banday	KeralaSV C/2744/02	Cottage Arts Emporium, Asoka Beach Resort, Kovalam Beach Rd, P.O. Trivandrum-695527	BVSc&AH/KA U/02	22.12.77
645	Maitri Sharma, S/o Sh Ganesh Dutt	HarSVC/1 761	521/11, Adarsh Nagar, Kaithal	BVSc&AH/CC SHAU/02	20.2.80
646	Maji (Ms) Samata, D/o Mr. Samar Kr Mali	ASMSVC/ 2021/02	Bankara, Indrapalley, PO-Bankara, Howrah, West Bengal	BVSc&AH/AA U/02	
647	Mallappa S. Rajutannavar S/o Shivarahunappa	KarnaSVC /3313	Inchal Post, Savadatti TQ. Belgaum Dist.	BVSc&AH/UA S, Dharwad/01	05.7.78
648	Mallappa Sajjan S/o Basappa Sajjan	KarnaSVC /3338	Yaranal Post Basavanabagewadi TQ Bijapur Dist.	BVSc&AH/UA S, Dharwad/02	22.7.79
649	Mallikarjun Kattennavar S/o Pundaleeka	KarnaSVC /3323	Shankarahatti, Athanai TQ. Belgaum Dist	BVSc&AH/UA S, Dharwad/01	20.7.77
650	Malreddy Pradeep Reddy S/o Shankar Reddy	APSVVC/39 02/02	H. No. 9-6-153, Maruthi Nagar, Siadabad (P), Hyderabad-500059	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	25.8.79
651	Man Mohan Singh, S/o Sh Man Singh	HPSVC/6 23/02	Vill-Nalda, PO-Thalma, The- Udaypur, Dt L & Spiti, HP	BVSc&AH/HP KVC/00	4.8.77
652	Manas Ranjan Behera, S/o Sh Bhagaban Behera	OrissaSV C/1911/03	At: Uttareswar (Near Jena Pokhari) PO/Via-Sore, Dt-Balasore-756045	BVSc&AH/OU A&T/03	1.5.79
653	Mandeep Singh, S/o Sh Chand Singh	Pb.SVC/2 362/02	Nanak Sar Road, B/S New Courts, Barnala	BVSc&AH/PA U/02	18.6.77
654	Mane Laxman Manik	MahaSVC /6664	At & Post Khed, Tal Khandala, Dist.Satara	B.V.Sc&AH/M PKV/01	15.8.77
655	Mangla Ram	RajSVC/2 972/03	V/P Bhinmal-B, VIA Bhinmal Jalore, Raj	BVSc&AH/RA U/03	09.7.78
656	Mangru Prasad, S/o Sh Mohan Kanojiya	UPSVC/3 641/02	Raipury (Raipuria) Chunar Mirzapur	BVSc&AH/GB PUA&T/85	10.4.63
657	Maninder Singh, S/o Sh Balkar Singh	Pb.SVC/2 360/02	VPO Doda, Tehsil Gidderbaha Dt-Muktsar	BVSc&AH/PA U/02	11.8.79
658	Manish Kumar, S/o Sh Shri Krishna	UPSVC/3 568/02	C/o Ram Kumar MO-Bagdad VI&PO-Bawan Dt-Hordoi, UP	BVSc&AH/GB PUA&T/02	26.2.80
659	Manish Kumark Pandey, S/o Sh Surendra Pandey	BiharSVC/ 2117/01	Vill-AG Colony, PO-Ashiyana Ng, Thane-Sastri Ng, Dt-Patna	BVSc&AH/RA U/00	19.1.76

SRNO	NAME	REG. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
660	Manish Shukla	RajSVC/2 914/03	V/p Kayas Barmer, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	26.2.78
661	Manisha Rath, C/o Sh Sharat Chandra Rath	OrissaSV C/1894/03	Plot No.432, Nuasahi Nayapalli, Bhubaneswar- 7510121	BVSc&AH/OU A&T/03	4.5.78
662	Manjesh Kumar, S/o Jai Prakash	HarSVC/1 745	VPO Bhandheri The- Hansi, Hisar	BVSc&AH/CC SHAU/02	1.12.75
663	Manjinder Kaur, D/o Sh Ajit Singh Sekhon	Pb.SVC/2 388/02	Basant Ng, St.NO.06, Kotkapura, dt- Faridkot	BVSc&AH/PA U/02	18.11.78
664	Manjinder Sharma, D/o Sh Som Nath Sharma	Pb.SVC/2 407/03	H.No.21981, W.No.7, Dhobian a Road, Civil Station, Bathinda	BVSc&AH/PA U/02	10.2.77
665	Manjit Singh, S/o Sh Major Singh	Pb.SVC/2 424/02	Vill-Katahri, P/O Lapran Tehsil Payal Ludhiana	BVSc&AH/PA U/02	7.7.73
666	Manju Pal, D/o Sh D.N.Pal	UPSVC/3 610/02	VI-Atuta PO-Babagarh Cant, Dt-Ghayiabad	BVSc&AH/GB PUA&T/02	19.8.75
667	Manju Saluja	RajSVC/2 971/03	C-255, Talwanot Kota Raj	BVSc&AH/RA U/03	04.9.73
668	Manjula.V.S/o Venkatappa	KarnaSVC /3365	Prashanth Nagar, Chikkaballapura, Kolar District	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	11.6.77
669	Manjunath.A. S/o Yerrigouda	KarnaSVC /3340	Hagalur, H. Hosahally Post Siruguppa TQ. Bellary Dist.	BVSc&AH/UA S,Dharwad/02	01.06.79
670	Manjunatha A.M. S/o Munegowda	KarnaSVC /3399	Ankathatti Village, Matanahalli Post Kolar TQ. & Dist	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	20.8.78
671	Manjunatha.N. S/o Narayana Reddy	KarnaSVC /3404	Chitranayakanahalli Challakere TQ. Chitradurga Dist	BVSc&AH/UA S,Dharwar/02	20.7.79
672	Manjunatha.P.A. S/o Avalakondarayappa	KarnaSVC /3367	Peresandra Post Chikkaballapura TQ. Kolar Dist. 562104	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	22.7.78
673	Manohar Singh	RajSVC/2 937/03	V/P Buriwara Barmer, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	10.12.76
674	Manoj .B	KeralaSV C/2727/02	Troppil Inchora House, Kuzhur P.O, Thrissur-680734	BVSc&AH/KA U/02	07.6.77
675	Manoj Kumar Jena, S/o Sh Siddheswar Jena	OrissaSV C/1859/02	At-Aatarai, PO- Kamarsalia, Via-Nampo, Dt- Balasore-756034	BVSc&AH/OU A&T/01	20.3.77
676	Manoj Kumar Satpathy, S/o Sh Bidhu Bhusan Satpathy	OrissaSV C/1885/03	At: Lahan Sasan, PO- Chandol, Dt-Kendrapara- 754208	BVSc&AH/OU A&T/03	4.1.77

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
677	Manoj Kumar, S/o Sri Nagendra Prasad	BiharSVC/2139/01	Vill-Sripur, PO-Masauri, Thane-Masauri, Dt-Patna	BVSc&AH/BA U/01	5.11.73
678	Manojkumar Ahirwar, S/o Sh Ramprasad Ahirwar	MPSVC/2046/02	201, Abhinandan Ng, Rajakhedi (Makronia) Saga r-470001	BVSc&AH/IGK VV/00-01	27.6.75
679	Manoranjan Parida, S/o Sh Mathurananda Parida	OrissaSV C/1909/03	At: Kaliapat PO-Gopiakud, Via-Kujang, Dt-Jagatsinghpur-784141	BVSc&AH/OU A&T/03	3.6.79
680	Manoranjan Rout, S/o Sh Sarbeswar Rout	OrissaSV C/1912/03	At: V. S. S. Nagar, Ward No. 9, (Rout Niwas), PO/Dt-Bargarh-768028	BVSc&AH/OU A&T/03	15.6.79
681	Manpreet Kaur, D/o Sh Katar Singh	Pb.SVC/2403/03	C-7, Civil Hospital Talwandi Sabo, Dt-Bathinda	BVSc&AH/PA U/02	20.4.79
682	Manpreet Singh, S/o Sh Harparkash Singh	Pb.SVC/2385/02	10-I Sarabha Nagar, Ludhiana	BVSp&AH/PA U/02	26.10.79
683	Mansi Sharma S/o Sh. Tej Nath Sharma	HPSVC/637/02	Vill. Shadior, P.O. Gutkar, Distt. Mandi H.P.	BVSc & AH/CSKHPKV/02	29.9.78
684	Maruti Taadlagi S/o Mallappa	KarnaSVC /3311	Ankalagi Post, Bijapur TQ & Dist. 586127	BVSc&AH/UA S, Dharwad/01	22.7.78
685	Masare Prashand Suryakant	MahaSVC /6689	Yashodeep, Nandanwan Colony, Karegaon Rd, Parbhani, Dt-Parbhani	BVSc&AH/MA FSU/02	17.3.80
686	Massh Prasad, S/o Late Sh J. Lal	UPSVC/3673/03	Vill&PO-Borour, Dt-Kanpur, Deahat	BVSc&AH/JNK VVV/69	7.8.45
687	Mathew Angami, S/o Vinguzhi	NSVC/0113/00	Department of Veterinary & A.H Kohima, Nagaland	BVSc&AH/KK VP/78	28.12.52
688	Mathuria J.K, S/o Sh R.C. Mathuria	VCI/2427/03	A-96, Sector-22, Nodia, UP	BVSc&AH/MA &FSU/03	31.7.77
689	Mausumi Das, D/o Sh Tanmoy Behari Das	TripuraVC /140/02	C/o Sri Tanmoy Behari Das, Vill-Katlamara, PO-Simna Tripura (West)	BVSc&AH/AA U/02	20.10.76
690	Md. Jiyauli Hasan Sarvar, s/o md karuesh	BiharSVC/2146/01	Vill-Deokunda, PO-Chaknathu, Thane-Sanohlia, Dt-Bhagalpur	BVSc&AH/BA U/01	24.11.74
691	Meenakashi, D/o Sh Narinder Pal Goyal	Pb.SVC/2400/03	H.No.111, Phase-Ist, Model Town, Bathinda	BVSc&AH/PA U/02	25.6.79
692	Meenal Gupta, S/o R.S. Gupta	UPSVC/3553/02	1/43 Phoolbagh, Pant Nagar, U.S.Nagar, U.A	BVSc&AH/GB PUA&T/02	26.10.78
693	Meghna Pandey, D/o Sh. B.K. Joshi	UPSVC/3611/02	94 Mangal Vihar, Scheme N.5, Alwar, Rajasthan	BVSc&AH/GB PUA&T/98	19.8.75

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
694	Meitram Rainabati Devi,D/o Sh.M.Tomba Singh	ManiSVC/376/02	Khabi Mamang Leikai, PO-Nambel	BVSc&AH/AA U/02	2.2.79
695	Midhula Roy	KeralaSV C/2710/02	House No. 2 (Kottalii), Field View Colony, Chevayur, Kozhikode-673017	BVSc&AH/KA U/02	08.10.77
696	Minesh Kumar Meshram,S/o Shri Khomchand Meshram	MPSVC/2 059/02	Gram,Po-Miragpur,The-Waraseoni,Dt-Balaghat-481449	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	14.3.78
697	MIR Amir Ali S/o Sabir Ali	KarnaSVC /3393	40, 4th Cross, Adi Kabir Ashram Road Matadahalli Bangalore-82	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	01.08.78
698	Mirza Shareq Baig	MahaSVC /6705	Turebul Haq Nagar,Dargah Rd, H.No. 1562 Parbhani Dragah Rd,Parbhani	BVSc&AH/MA FSU/02	5.5.78
699	Miss Mamta Mehar,D/o Shri R.R. Mehar	MPSVC/2 094/02	Near Highar Secondary School,Ramng,Mandideep,Dt-Raisen-462048	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	7.7.75
700	Miss Shweta Sharma,D/o Sh R.P.Sharma	MPSVC/2 101/02	Girls Hostel,Vety College,Civil Lines,Jabalpur-482001	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	4.11.75
701	MO Aslam,S/o Late Sh J.Ali	UPSVC/3 644/03	Vill-Uner Ganj,PO-Balui,Dt-Ballia UP	BVSc&AH/GB PUA&T/74	1.1.51
702	MO J.Ahmad,S/o Shamsuddin	UPSVC/3 643/03	C-307/18,G.T.B.Nagar,Allahabad	BVSc&AH/Ranchi Uni/70	25.11.46
703	Modhi Dipumoni,S/o Sri Tankeswar Medhi	ASMSVC/2 2058/02	VIII&PO-Haibargaon,Dt-Nagaon,Pin-782002	BVSc&AH/AA U/02	
704	Modi Jailesh Chhotalal	GujSVC/2 436/02	Dabagar's Pimpili, Near Gandhi Chowk, Unjha Mehsana-384170	BVSc&AH/GA U/02	04.09.79
705	Modi Umakant Jagdishkumar	GujSVC/2 435/02	Near Jawahar Society, Degala Road, Visanagar Mehsana-384315	BVSc&AH/GA U/02	11.06.80
706	Mohammad Ashfak Ansari	RajSVC/2 963/03	Infornt of Govt. Sec. School Patanpole Kota Raj	BVSc&AH/RA U/03	01.7.77
707	Mohan Lal	RajSVC/2 918/03	V-Dabal Meena P-Dalwa, Rajgarh Alwar, Raj	BVSc&AH/RA U/03	02.7.76
708	Mohana S.M S/o Malleshappa S.	KarnaSVC /3372	Shettihalli Sanehalli P.O Hosadurga TQ Chitradurga District 577515	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	06.11.77
709	Mohar Singh Meena	RajSVC/2 985/03	VPO-Sirsala Teh -Churu, Churu, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	10.8.78
710	Mohd Hanif Bhat,S/o Mohd Abdullah Bhat	VCI/2403/03	C/o Tashook Provision Store,Batshah Colony, Lane-7,Lal Bazar, Sring,J&K	BVSc&AH/SK UAST/99	21.7.73

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
711	Mohril Vilas Sitaram	MahaSVC /6568	12,Varma Layout,Ambazari Nagpur	B.V.Sc&AH/PK V/70	7.7.45
712	Mokaddam Gajanan Shalikram	MahaSVC /6595	C/o Y.T. Wanjari, Takiya Ward Near Sai Mandir Bhandra, Dist-Bhandra. A.I. Sub-Centre Ratnara, RAIC. Gondia	B.V.Sc&AH/PK V/86	25.6.61
713	Monalisa Sahoo,C/o Dr. Narayan Sahoo	OrissaSV C/1895/03	C-37 Sahid Nagar,Bhubaneswar	BVSc&AH/OU AT/03	5.7.79
714	Monika Batra,S/o Sh B.R.Batra	HarSVC/1 734	10/35 Old Campus,HAU Hisar	BVSc&AH/CC SHAU/02	5.1.79
715	Monohe Kailash Santoshrao	RajSVC/2 898/02	H.No. 1/211 S.P.S. Agarwal Farm Mansarover Jaipur, Raj.	BVSc&AH/PK V/90	05.4.68
716	Morkane Popat Mauti	MahaSVC /6591	At Dalwadi, Post Wakhari, Tal. Phaltan, Dist. Satara- 415523	B.V.Sc&AH/M PKV/01	06.5.78
717	Mote Chandrashekhar Sambhaji	MahaSVC /6589	Wadala Mission, Newasa, Dist. Ahmednagar-414602	B.V.Sc&AH/M PKV/01	18.10.78
718	Motghare Abhijit Bhagwantrao	MahaSVC /6623	Plot No.31 Sudarshan Colony,New Subhedar Layout Nagpur	BVSc&AH/MA FSU/02	9.8.77
719	Movaliya Jigneshkumar Kantilal	GujSVC/2 450/03	To Patidad Gondal, Rajkot- 360311	BVSc&AH/GA U/02	20.10.80
720	Mrigank Honparkhe	Pb.SVC/2 382/02	Shinde Ka Bada,OPP St.Mary School,Leshkar Gwalior (MP) -474009	BVSc&AH/JNK V/97	8.2.74
721	Mudasir Ashraf Bakshi,S/o Mohd Ashraf Bakshi	VCI/2408/ 03	C/o M.A.Bakshi,Asstt.Registrar,Sh er-K-Kashmir Uni of Agri Sci & Tech,PO Box No.202,Srinagar	BVSc&AH/SK UAST/2000	11.3.74
722	Mukesh Chand Meena	RajSVC/2 973/03	V/P- Kunjela Nadoli Karauli, Raj	BVSc&AH/RA U/03	08.7.75
723	Mukesh Chandra	RajSVC/2 993/03	V-Mamtoili P- Sahna VIA- Uchantn Bharatpur, Raj	BVSc&AH/RA U/03	10.2.77
724	Mukesh Kumar,S/o Sh Jagdish Prasad Saha	BiharSVC/ 2107/01	VIII-Sarailal Khan Dargahchowk,PO-Naya Bazar,Thane:Tatarpur.Dt- Bhagalpur	BVSc&AH/RA U/00	30.10.73
725	Mukesh Prasad Singh,S/o Sri Uma Shankar Singh	BiharSVC/ 2142/01	VIII-Chandrahatti,PO- Chandrahatti,Thana:Kurni,Dt- Muzaffarpur	BVSc&AH/BA U/01	13.1.76
726	Mukesh Raipuriya,S/o Sh Bhawaniprasad Raipuriya	MPSVC/2 051/02	Gram&Post Rathiapura Mehgaon Bhind-477557	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	10.7.77

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
727	Mukesh Sharma, S/o Sh Ramesh Chand	HarSVC/1 746	415, Sector-8, Urban State, Karnal	BVSc&AH/CC SHAU/01	5.4.78
728	Mukesh Sharma, S/o Shri Rajaram Sharma	MPSVC/2 069/02	A-85 Shastri Colony Bhind, M.P.-477001	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	8.7.77
729	Mukteshwar Singh, S/o Late Sh R S. Singh	UPSVC/3 703/03	Sri Ram Bhawan, New Colony Kayakpur, Gorakhpur	BVSc&AH/GB PUA&T/70	1.7.49
730	Mulekar Versha Krishnarao, D/o Mr Krishnarao Muleksar	MPSVC/2 052/02	Shri Rajaram Kole Civil Lines Goal Bazar, Dt-Chhindwara, Teh-Souser-480106	BVSc&AH/PR KVP/92	14.1.70
731	Mulla Ahmed Abubakar	MahaSVC /6636	A/P Islampur, Tal-Maishiras, Dt-Solapur-413107	BVSc&AH/MA FSU/02	29.1.79
732	Munisgh Kumar Bedi, S/o Sh Hari Krishan Bedi	Pb. SVC/2 374/02	114/4, Dhawan Colony, Ferozepur	BVSc&AH/PA U/02	30.4.80
733	Munish Kumar, S/o Sh Ved Paksh	Pb. SVC/2 389/02	Mohalla Sodhian, Gali Bohar Wali., Ferozpur City	BVSc&AH/PA U/02	26.11.77
734	Munivenkatappa. B. S/o Bisappa. T.M.	KarnaSVC /3314	Ramakrishna Nilaya R.K. Extn. Srinivasapura Town Kolar Dist.	BVSc/UAS, B'LORE/79	10.6.55
735	Munshi Lal Meena	RajSVC/2 932/03	VPO-Sasedi Karauli, Raj,	BVSc&AH/RA U/03	01.3.76
736	Murari Lal	RajSVC/2 981/03	V-Nangliozha PO-Rasgah, Teh-Mundawar Alwar, Raj	BVSc&AH/RA U/03	10.5.76
737	Murli Dhar Meena	RajSVC/2 942/03	V/p- Budhadeet Teh-DIGOD Kota, Raj	BVSc&AH/RA U/03	10.5.73
738	Murugesha. V.T. S/o Thippeswamy. V.	KarnaSVC /3376	Sadarahalli Lakshimisagar Chitradurga TQ. & Dist. 577501	BVSc&AH/UA S, B'lore/02	20.7.77
739	N. Sailaja D/o Subba Reddy	APSVC/38 68/02	1/380-4, Gajula Apartments, Opp: to District Court, Maruthi Nagar, Cuddapah, A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	10.07.75
740	N.Aasha Rekha, D/o Sh. Umamaheswar Rao	APSVC/38 54/02	C/o G.V. Ramaiah Garu, 1/1685, N.C. Baliah Nagar, Nawabpet, Nellore-2 (A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	31.07.78
741	N.C. Tripathi, S/o Sh P.N. Tripathi	UPSVC/3 686/03	4/343, Vivek Khand, Gomti Nagar, Dt-Lucknow	BVSc&AH/GB PUA&T/70	9.10.45
742	N.K. Gangwar, S/o Sh. Virpal Gangwar	UPSVC/3 554/02	VI&PO-Somdhana The-Tilar Dt-Shahjahanpur	BVSc&AH/GB PUA&T/02	15.9.77

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
743	N.K.Verma,S/o Dr.S.V.L.Verma	UPSVC/3 700/03	VI&PO-Sadarpur,Dt-Hardoi U.P	BVSc&AH/GB PUA&T/94	15.1.67
744	N.Kalyan Chakravarthy,S/o Sh.N.J.N.Chandra Mouli	APSVC/38 63/02	H.No.8/430,Peapully,Kurnool, Dt.518221(A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	01.08.79
745	N.Venkateswara Rao, S/o Sh. Simhachalam	APSVC/38 25/02	Fl.No.2'C',Nandan Enclave,East Point Col, Peda Waltair,Visakhapatnam- 530017(AP)	BVSc./APAU/1 980	20.03.57
746	N.Wopenthungik Odyuo,S/o Nwonyimo Odyuo	NSVC/107 /00	C/o Mr.Yanthungo, Ngullie(UDA)Directorate of Employment,Kohima	BVSc&AH/Dr. PDKVP/00	27.5.77
747	Nagappa Karabasanavar S/o Shivaning Karabasanavar	KarnaSVC /3331	Krishna Kittur Post, Athani TQ. Belgaum Dist. 591303	BVSc&AH/UA S,Dharwad/02	01.3.79
748	Nagar Singh,S/o Sh Gamdur Singh	Pb.SVC/2 364/02	Vill-Natt,P/O Burj Sema Via Maur Mandi, Dt-Bathinda	BVSc&AH/PA U/02	23.4.79
749	Nagaraj Kerur S/o Mallappa Kerur	KarnaSVC /3405	No. 544, Laxminivas Kirtinagar, Bijapur 585101	BVSc&AH/UA S.Dharwar/02	1.06.79
750	Nagarajan,P,S/o Sh Perumal	VCI/2438/ 04	Flat H-16,National Institute of Immunology,JUN Complex,Aruan Asaf Ali Marg,ND-67	BVSc/TNV&AS U/97	1.4.73
751	Nageswara Rao.M S/o Sambaiah	APSVC/39 04/02	Bapuji Nagar, Nidamaru(P), Mangalagiri(M), Guntur Dt. A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	01.7.76
752	Nakrani Narasinhbhai Ravajibhai	GujSVC/2 398/02	At-Baradia(Gir) Visavdar,Junagadh-362120	BVSc&AH/GA U/02	19.12.71
753	Nale Lalaso Sadashiv	MahaSVC /6674	At vanjale, Post. Dudhebhavi,Tal Phaltan,Dist.Satra	B.V.Sc&AH/KK V/01	29.1.77
754	Nale Ranjit Appaso	MahaSVC /6606	A/p Gunaware,Traq-Phaltan, Dist-Satara-415523	B.V.Sc&AH/M PKV/01	02.12.76
755	Nallapaneni Anuradha S/o Gopala Krishnaiah	APSVC/39 08/03	652 A, BHEL Township, R.C.Puram, Hyderabad- 502032	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	15.6.79
756	Namita Rai,S/o Sri Dr.Triveni Rai	BiharSVC/ 2215/02	Bariatu Housing Colony,Qno.3K/17,PO- Bariatu,Thane-Bariatu,Dt- Ranchi	BVSc&AH/BA U/01	24.3.70
757	Namrata Barik,D/o Sh Bhismadev Barik	OrissaSV C/1898/03	At/PO-Barpali,Ward No.1,Dt- Bargarh-768029	BVSc&AH/OU A&T/03	24.6.78
758	Nand Lal Choudhary,S/o Late Sh Kailu Choudhary	BiharSVC/ 2174/01	Vill-Kasimpur,PO- Ghordaur,Thane-Salkhua,Dt- Saharsa	BVSc&AH/BA U/01	5.2.71

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
759	Narender Kumar Nagpal	RajSVC/2 925/03	C/o Nagpal Clinic Main Market Anupgarh, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	21.3.75
760	Narendra Narain Choudhary	RajSVC/2 886/02	3/427, Housing Board Kala Kuan Alwar, Raj	BVSc&AH/RA U/71	09.1.47
761	Narendra Singh	RajSVC/2 947/03	V-Lolawas P.O.-Sinla VIA- Marwar (JNC) Pali, Raj	BVSc&AH/RA U/03	22.12.76
762	Narendra Singh Rathore	RajSVC/2 992/03	D-103, Prem Nagar, Jhotwara, Jaipur, Raj	BVSc&AH/RA U/03	14.9.75
763	Naresh Kumar S/o Sh Bishan Singh	HPSVC/6 26/02	Vill. Chokhana, P.O Dhangar, Teh. Ghumarwin, Distt Bilaspur, HP	BVSc & AH/CSKHPKV/ 02	16.10.77
764	Naresh Kumar Sharma, S/o Sh Roshan Lal Sharma	Pb.SVC/2 427/03	MIG-3SF, Block C, Rishi Ng, Ludhiana	BVSc&AH/PA U/77	28.8.56
765	Naresh Kumar, S/o Sh Damodar Sharma	HarSVC/1 754	Naresh Vety Hosp. Dhand Distt. Kaithal	BVSc&AH/CC SHAU/02	12.10.54
766	Naseema K.T.	KeralaSV C/2699/02	Eladath Meethal House, Kannankara P.O. Chelannur(Via), Kozhikode- 673616	BVSc&AH/KA U/02	30.5.79
767	Nataraju. S., S/o Sh K.Gurusiddaiab	KarnaSVC /3358	Doddahomma Chikkahomma Po, Nanajangud Tq, Mysore Dt. 517316	BVSc&AH/UA S, B'lore/02	9.3.80
768	Nath Satyendra, S/o Sri Balendra nath	ASMSVC/ 2075/02	C/o Bhabajyoti Dutta, Doctors Hostel Room NO. 111, C.V. Sc, Khanapara	BVSc&AH/AA U/03	
769	Navdeep Singh Dhillon, S/o Sh Gurjit Singh Dhillon	Pb.SVC/2 350/02	Prem Nagar, P/O Central Jail Kharanbad Road, Amritsar	BVSc&AH/PA U/01	22.3.77
770	Navdeep Singh Bajwa, S/o Sh Kanwar Sujana Singh Bajwa	Pb.SVC/2 348/02	BX-IV-24, Daulla Nangal Nehru Gate, Batala- 143505, Dt-Gurdaspur, Punjab	BVSc&AH/PA U/01	30.3.78
771	Naveen Kumar S. S/o Siddaraju. S.	KarnaSVC /3362	Garakahalli Post Channapatna TQ. Bangalore Rural	BVSc&AH/UA S, B'lore/02	02.2.80
772	Naveen Kumr Raju. S. S/o Sudhakara Raju R.	KarnaSVC /3388	No. 5/9, Maheswari Nilaya Slvk Road Matadahalli, R.T. Nagar Post Bangalore-32	BVSc&AH/UA S, B'lore/02	21.5.80
773	Navin Kumar Pandey, S/o Late Sh Sharda Pandey	BiharSVC/ 2094/01	C/o Balbihari Children Academy, MG Road, PO+Thane- Aurangabad, Dt-Aurangabad	BVSc&AH/AN GRAU/00	20.11.75
774	Navjeet Singh, S/o Sh Baldev Singh	Pb.SVC/2 402/03	Vill-Dhariwal, P/O Lakhanpal, The&Dt-Gurdaspur	BVSc&AH/PA U/02	16.01.78

SNO	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
775	Neelam Pattanaik, C/o Mr. Jagadananda Pattanaik	OrissaSV C/1877/03	Qr.No.Type IV-4;OUAT Colony,Bhubaneswar,Vill- Bolgarh,Dt-Khurda	BVSc&AH/OU A&T/03	15.3.79
776	Neena Ancy Zachariah	KeralaSV C/2713/02	Thoppil House, Edakkara, P.O, Nilambur, Malappuram- 679331	BVSc&AH/KA U/02	12.5.78
777	Neeraj Kumar, S/o Sh Rama Lal	UPSVC/3 518/02	9/2 Old Mohanpuri, Near Shivapublic School, Meerut UP	BVSc&AH/CC SHAU/01	9.7.77
778	Nemi Chand Sheshma	RajSVC/2 999/03	V-Puranchhoti Via-Sanwali Sikar Raj	BVSc&AH/RA U/03	15.9.74
779	Newme (Ms) Lungehuliu, D/o Mr. Ijirangbe Jeme	ASMSVC/ 2049/02	C/o Mr. Ijirangbe Jeme Lodi Imflong, N.C.Hills, Pin-788819	BVSc&AH/AA U/02	
780	Nijaguna B.S S/o Shivanna B.S	KarnaSVC /3373	43,6th Cross, 4th Main KEB Layout RMV II Stage Banglore.	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	01.5.78
781	Nilakantha Das, S/o Sh Rabindranath Das	OrissaSV C/1917/03	At-Dagarasahi, Po- Arisandha, P. S-Nimapara, Dt- Puri-752106	BVSc&AH/OU A&T/03	25.4.78
782	Nimbalkar Sambhaji Bhimrao	MahaSVC /6621	Plot NO.85, At Kolki Malojinagar, Phfaltan, Dt- Satara-415523	BVSc&AH/MA FSU/02	10.7.80
783	Nipane Suresh Fattuji	MahaSVC /6681	At.Post Jawaharng, Qtr.No.13/3, J- Type, Tal-Bhandra, Dt-Bhandra	BVSc&AH/MA FSU/02	12.12.76
784	Nirada Kumar Sahu, S/o Sh Pravakar Sahu	OrissaSV C/1886/03	At: Kukuta, PO-Balimi, Dt- Dheakanal-759020	BVSc&AH/OU A&T/03	9.7.78
785	Niraj Kumar, S/o Sri Girijanandan Jha	BiharSVC/ 2191/01	Vill-Sonapath, PO- Lalbagh, Thane-Town, Dt- Darbhanga	BVSc&AH/CC SHAU/01	9.6.75
786	Niranjan Kumar Prasad, S/o Sri Saryung Prasad Singh	BiharSVC/ 2194/01	Vill-Jaishiv Bigha, PO- Habbipur, Thane- Akkangarsarai, Dt-Nalanda	BVSc&AH/BA U/01	5.2.74
787	Nirbhay Kumar Singh, S/o Sh Rajdeo Singh	BiharSVC/ 2116/01	Vill-Nawada, PO- Chainwa, Thane-Rasulpur, Dt- Chapra	BVSc&AH/RA U/00	10.1.73
788	Nirbhay Kumar, S/o Sri Yogehs Prasad Singh	BiharSVC/ 2229/02	Vill-Dariapur, PO- Sonchari, Thane-Parbalpur, Dt- Nalanda	BVSc&AH/RA U/02	5.1.78
789	Nirmal Chandra Barik, S/o Sh Narahari Barik	OrissaSV C/1876/03	At.Jhiakira, PO-Arakhapur, Dt- Balasore-756134	BVSc&AH/OU A&T/03	3.3.78
790	Nisha M.N.	KeralaSV C/2688/02	Aathira Sastha Nagar, Patturaikal, Thrissur-680001	BVSc&AH/KA U/02	25.5.78
791	Nishant Kumar, S/o Sri Mukund Jha	BiharSVC/ 2213/02	Vill-Maripur, PO- Muzaffarpur, Thane-Kazi Mohammadpur, Dt- Muzaffarpur	BVSc&AH/WB UA&FS/01	17.12.77

SNUM	NAME	RECN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
792	Nitaipada Pal, S/o Sh Nalini Kr Pal	TripuraVC /141/02	"Nityananda Bhavan" Joynagar(North)Agartala, Tripura(West)	BVSc&AH/BC KVV/81	13.01.58
793	Nitin Bhardwaj, S/o Sh M.L.Bhardwaj	Pb.SVC/2 353/02	B-34 7464, SBS Ng, Haibowal Kalan, Ludiana	BVSc&AH/PA U/02	6.02.80
794	Nitul Saikia, S/o Sh Ramesh Chandra Saikia	VCI/2437/ 04	C/o Dr. H.F. Ahmed, Deptt. of A.Nutrition, College of Vety Science, Khanapara, Guwahati	BVSc&AH/AA U/2000	10.8.77
795	Nityanand Prasad, S/o Late Sh Brijnanda Lal	BiharSVC/ 2206/02	Vill-Bari Patandevi, PO- Gulzarbagh, Thane-Alamganj	BVSc&AH/MU/ 01	30.9.46
796	Noble T. George	KeralaSV C/2717/02	Thekkedathu House, Vakayar P.O. Kornj, Pathanamthitta-689698	BVSc&AH/KA U/02	25.9.78
797	Noopie Arora, D/o Sh Surinder Kumar Arora	Pb.SVC/2 413/03	C/o Noorie Real Estate, C-1 Pink Avenue, Ferozpur Rd, Near Octor Po-Ludhiana	BVSc&AH/PA U/02	21.8.79
798	Om Prakash Choudhary	RajSVC/2 986/03	C/o Mahalaxmi Tailors Subhash Marg Bilara Jodhpur Raj	BVSc&AH/RA U/03	25.1.78
799	Om Prakash Krishnia	RajSVC/2 902/03	V/p Budana Via Bagar Jhunjhnu, Raj	BVSc&AH/RA U/03	19.11.76
800	Om Prakash Meena	RajSVC/2 915/03	V/p Bheelapara Teh. Nadoli Karauli, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	10.7.74
801	Om Prakash Mehra	RajSVC/2 995/03	VPO-Satkhande The- Nimbahera Chittorgarh, Raj	BVSc&AH/RA U/03	01.7.77
802	Om Prakash Sahu	RajSVC/2 879/02	C-727, Budh Vihar Alwar, Raj	BVSc&AH/Uni of Udaipur/91	12.6.58
803	P.C.D.Dwivedi, S/o Sh H.D.Dwivedi	UPSVC/3 660/03	Vill-Anokunia, PO- Tilauli(Basti)Dt-Siddharth Nagar	BVSc&AH/GB PUA&T/89	15.7.64
804	P.K.Tomar, S/o Sh Sukhvir Singh	UPSVC/3 605/02	VI&PO-Mokhiyali, Dt-Muzaffer Nagar	BVSc&AH/GB PUA&T/85	9.7.61
805	P.Santhi, D/o Sh. Jayarami Reddy	APSVC/38 51/02	H.No.4-6-40, Reservoir Colony, Tirupati-517507(A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	01.05.79
806	Pachghare Kapil Vijaykumar	MahaSVC /6703	"Preet Niwas", Teacher's Colony, Wardha Rd, Kondali, Tal-Katol, Dt- Nagpur	BVSc&AH/Dr. PDKV/01	12.1.75
807	Padmavathi Singanamalla, D/o Sh. Rami Reddy	APSVC/38 52/02	Mugavaripalli, Elimarapuram(P , Penagalur(M), Cuddapah Dt., (A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	18.06.77
808	Padmini Pradhan, D/o Sh Devi Singh Prasad	MeghSVC /198/02	Nongrim Road, Laitumkhrah, Shillong-793003	BVSc/TANUV AS/02	29.1.78

SNUM	NAME	REGN. NU.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
809	Padol Datta Sampat	MahaSVC /6604	A/p Sonewadi, Trag-Niphad Dist-Nasik	B.V.Sc&AH/M AU/01	15.12.78
810	Pagrut Nileshkumar Sakharam	MahaSVC /6624	Gaurkshan Rd,Behind Sahakar Nagar,Near S.R.Patil College,Akola- 444001	BVSc&AH/MA FSU/02	2.12.80
811	Pal Vilas Narayan	MahaSVC /6683	Dwarka Nagari,Anandwan Square,Warora,Dt- Chandrapur	BVSc&AH/MA FSU/02	10.6.79
812	Palanisamy.S S/o Subramanian	APSVC/39 21/03	C/o Srinivasa Hathceries, 54- 13-7/A-1, Srnivasa House Near SBI, Seethammadara, Visakhapatnam-530 013 A.P	BVSc/TNVAS U/94.	28.5.72
813	Pallav Shekhar,S/o Sri Baleswar Sharma	BiharSVC/ 2095/01	Vill-Anishabad,PO- Anishabad,Thane- Gardanibagh,Patna-800 002	BVSc&AH/RA U/00	5.12.76
814	Pallavi Bhardwaj,S/o Sh G.D. Bhardwaj	HPSVC/6 17/02	VPO Baijnath,Distt- Kangra,H.P	BVSc&AH/CS KHPKV/01	22.10.78
815	Pamingchuba,S/o Late Hendo	NSVC/181 /03	St.John 'B' Tuensang, Town,Nagland-798612	BVSc&AH/AA U/03	27.1.75
816	Pamod Kumar S/o Sh.Brij Lal	HPSVC/6 30/02	Vill. & P.O Namhole, Distt. Bilaspur, HP	BVSC & AH/CSKHPKV/ 02	04.6.78
817	Pande Vivek Vinayakrao	MahaSVC /6625	A/P Pimpri Khurd Akot,Dist- Akola-444101	BVSc&AH/MA FSU/02	1.6.79
818	Pandya Kaushikkumar Pravinchandra	GujSVC/2 433/02	3/2, Amardeep Apartment, Maneklal Road, Navsari Kheda-396445	BVSc&AH/GA U/02	09.11.79
819	Panikar Anita Anand	MahaSVC /6693	Anand Bhavan,Post Colony,Old Pedgaon Rd,Parbhani	BVSc&AH/MA FSU/02	20.5.79
820	Pankaj Basumatary,S/o Sh H.N.Basumatary	MeghSVC /199/02	Ghoramara,PO- Garobadha,W.Garo Hills,Meghalaya	BVSc&AH/AA U/02	3.02.79
821	Pankaj Kumar Yadav,S/o Sh Bhanu Pratap Yadav	UPSVC/3 564/02	VI-Handia PO-Mittoopur,Dt- Azamgarh,UP	BVSc&AH/GB PUA&T/02	20.7.78
822	Pankaj Kumar,S/o Sh Ram Alakh Pandey	BiharSVC/ 2113/01	Vill-Vishnupur Bakhri,Po- Basantpur Bakhri,Thane- Sakra,Dt-Muzaffarpur,Pin- 843121	BVSc&AH/RA U/00	10.3.76
823	Pankaj Kumar,S/o Sri Narayan Rajak	BiharSVC/ 2221/02	Vill-Bakhri,PO-Samda,Thane- Saur Bazar,Dt-Saharsa	BVSc&AH/RA U/02	17.1.78
824	Pankaj Kumar,S/o Sh Ram Nath Singh	BiharSVC/ 2128/01	Vill-Moldiar,Tola- Pathaghat,PO- Mokama,Thana-Mokama,Dt- Patna	BVSc&AH/CS AUAT/00	11.11.75

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
825	Pankaj Mohan, S/o Sh R.S. Singh	UPSVC/3 655/03	233, Kapoor Lane, Maldahiy Dt-Varanasi	BVSc&AH/GB PUA&T/84	1.1.63
826	Pankaj Seth, S/o Sh Sashi Bhushan Seth	BiharSVC/ 2154/01	Vill-Oredaru, PO-Landuadih, Thane-Sonahatu, Dt-Ranchi	BVSc&AH/BA U/01	1.1.77
827	Pappu Kumar, S/o Sri Vijay Sharma	BiharSVC/ 2175/01	Vill-Tineri, PO-Nadaul, Thane-Masauri, Dt-Patna	BVSc&AH/MA U/00	14.1.75
828	Parag Pandya, S/o Shri A.K. Pandya	MPSVC/2 102/02	H-506, E-7 Arera Colony, Bhopal	BVSc&AHGAU /96	20.8.72
829	Paramananda Naik, S/o Sh Bhimsen Naik	OrissaSV C/1883/03	At-Rengali, Old Basti PO-Rengali Dt-Samabalpur-768212	BVSc&AH/OU A&T/03	12.6.77
830	Paramjit Singh, S/o Sh Gurdev Singh	Pb.SVC/2 338/02	3557, Sector 35-D, Chandigarh, 2540, Sec 19-C Chandigarh	BVSc&AH/PA U/02	17.12.77
831	Parigela Madhusudhan S/o Madanna	APSVC/38 93/02	Laddegiri, Kodumuru (M), Kurnool Dt. A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	06.7.76
832	Parikhita Kundu, S/o Sh Lokanatha Kundu	OrissaSV C/1864/02	At-Birabarpur, PO-Abhimanpur, Dt-Cuttack-754035	BVSc&AH/OU A&T/01	15.6.76
833	Parma Nand Rajak, S/o Sh Sada Nand Rajak	BiharSVC/ 2106/01	Vill-Dariyard, PO-Gangtamore, Thane-Kharagpur, Dt-Munger, Pin-811213	BVSc&AH/RA U/00	16.6.01
834	Parmanand Morya	RajSVC/2 944/03	B-17, Hasan Pura Jaipur, Raj	BVSc&AH/RA U/03	10.8.76
835	Parmar Jasvantbhai Rameshbhai	GujSVC/2 440/02	75, Paras Society, B/H Shivam Cinema Meghraj Road, Modasa, Sabarkantha-383315	BVSc&AH/GA U/02	04.06.80
836	Parmar Udesinh Ghemarji	GujSVC/2 439/02	To Dhelana, Po. Jalotra, Palanpur, Banaskantha-385001	BVSc&AH/GA U/02	01.06.79
837	Parminder Pal Singh, S/o Sh Harjeet Singh	Pb.SVC/2 431/03	194, Anand Naga-A Near Gurudwara Tripri Patiala	BVSc&AH/PA U/03	15.9.79
838	Parveen Kumar, S/o Sh Suraj Bhan	HarSVC/1 769	Sant Nagar, Patiala Chowk, Jind	BVSc&AH/CC SHAU/03	15.9.78
839	Parveen Parashar	RajSVC/2 946/03	Man House Ward No. 8 Mangrol Barand, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	07.12.77
840	Parvesh Singh, S/o Sh R.K. Surinderjit Singh	Pb.SVC/2 356/02	H.No.B-34/7031, Jassian Chowk, Haibowal Kalan, Ludhiana	BVSc&AH/PA U/02	5.2.80

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
841	Patcha Radhika D/o Seshaiyah Naidu	APSV/39 24/03	Murugalla(P), Atmakur(M), Nellore Dt. A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	05.8.78
842	Patel Ashvinkumar Khodabhai	GujSVC/2 411/02	To-Mudarada Near Jain Derasar Mehsana-384421	BVSc&AH/GA U/02	15.04.79
843	Patel Bhaveshkumar Popatlal	GujSVC/2 414/02	C/31, Harisiddh Park Society, Nr. Navasarjan High School, Ranip, Ahmedabad-382480	BVSc&AH/GA U/02	11.07.80
844	Patel Chandrakant Talasidas	GujSVC/2 394/02	9 Gaytri Society, Sukhbaug, Palanpur, B anaskantha-385001	BVSc&AH/GA U/02	09.09.79
845	Patel Devrajibhai Mulabhai	GujSVC/2 428/02	At. & Po. Tetoda, Deesa, Banaskantha-385535	BVSc&AH/GA U/02	07.02.80
846	Patel Dilipkumar Ambalal	GujSVC/2 447/03	At. & Post--Mithadharva Chanasma Patan-384229	BVSc&AH/GA U/02	12.08.79
847	Patel Harshdkumar Amrutlal	GujSVC/2 392/02	Th-Bantawada, PO- Chitrasani, Palanpur, Banaska ntha-385010	BVSc&AH/GA U/02	9.12.79
848	Patel Hetalben Kirthibhai	GujSVC/2 397/02	692-HIG Ekta Colony, Sector No.27, Gandhing-382027	BVSc&AH/GA U/02	16.06.79
849	Patel Jitendrakumar Khimjibhai	GujSVC/2 416/02	At & Po. Savdi, Tankara, Rajkot-363650	BVSc&AH/GA U/02	11.10.78
850	Patel Kalpeshkumar Mohanbhai	GujSVC/2 426/02	At. & Po. Chandravati, Siddhpur, Patan-384151	BVSc&AH/GA U/02	03.12.79
851	Patel Kanubhai Ramjibhai	GujSVC/2 446/03	At. & Post-Chhala Gandhinagar- 382355	BVSc&AH/GA U/02	01.06.80
852	Patel Kaushikumar Kantilal	MahaSVC /2391/02	23 Modherea Naga Society, Behind Lucky Park Society, Modhera Road, Mehsana	BVSc&AH/AA U/02	7.8.80
853	Patel Kirankumar Joitabhai	GujSVC/2 401/02	At. & Po Dashela, Gandhinagar	BVSc&AH/GA U/02	11.05.79
854	Patel Manishkumar Laxmidas	GujSVC/2 451/03	B/3, Panchamrut Dairy Staff Qtrs Lunawada Road, Godhra Panchmahal-389001	BVSc&AH/GA U/02	17.04.78
855	Patel Mayurkumar Navnitbhai	GujSVC/2 419/02	At & Po Laccharash, Rajpipla, Narmada-393150	BVSc&AH/GA U/02	22.06.80
856	Patel Nileshkumar Ramanlal	GujSVC/2 452/03	Somnathnagar Society, Block No. A/87, Kapadvanj Kheda- 387620	BVSc&AH/GA U/02	14.08.80
857	Patel Nitaben Rambhai	GujSVC/2 403/02	D-1/604, Spectrum Towers, Opp. Police Stadium, Shahibaug, Ahmedabad- 380004	BVSc&AH/GA U/02	24.10.79

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
858	Patel Pareshkumar Prabhudas	GujSVC/2 448/03	At. & Post--Prempur Himmatnagar Sabarkantha	BVSc&AH/GA U/02	20.03.79
859	Patel Prakashkumar Nathalal	GujSVC/2 413/02	A/93, Bhavana Society Part- 2, Nr. Old Railway Line, Ranip, Ahmedabad-382480	BVSc&AH/GA U/02	13.12.79
860	Patel Satishkumar Ambalal	GujSVC/2 396/02	At&Po-Sunok Chaturpura,Unjha,Dt- Mehsana,Pin-384170	BVSc&AH/GA U/02	01.06.78
861	Patel Tusharkumar Jayntilal	GujSVC/2 423/02	At & Po. Denap Bagapura, Visnagar, Mehsana	BVSc&AH/GA U/02	22.07.80
862	Patel Vijaykumar Somabhai	GujSVC/2 408/02	At. Zanda, Po. Abval, Kapadwanj Kheda-387650	BVSc&AH/GA U/02	17.09.78
863	Patel Vijaykumar Vitthalbhai	GujSVC/2 420/02	At Dhandhodi, Res: Moti Khadki, Mahudha Kheda- 387335	BVSc&AH/GA U/02	12.06.80
864	Patil Deepak Laxman, S/o Mr.Laxman Rambhau Patil	MPSVC/2 035/02	69, Chandralok Colony, 102 Gaurav Appartment Indore - 452018	BVSc&AH/MP KVP/00	5.11.71
865	Patil Manoj Pralhad	MahaSVC /6626	Naigaon Muktainagar, Jalgaon-425306	BVSc&AH/MA FSU/02	8.4.79
866	Patil Rahul Bhanudas	MahaSVC /6641	Varsha Niwas &Bori Colony, At Post-Parola, Dt- Jalgaon-425111	BVSc&AH/MA FSU/02	31.7.79
867	Patil Rajendra Damu	MahaSVC /6601	C/o D.G.Patil (Advocate) Ganesh Colony Pachora, Tal. Pachora, Dist - Jalgaon	B.V.Sc&AH/M AU/01	08.8.77
868	Patil Satyajeet Somnath	MahaSVC /6588	Citrajit, Plot No.29 Yashwant Nagar Behind Govt. Rest House, Pandharpur, Tal. Dist.Solapur-413304	B.V.Sc&AH/M PKV/01	01.12.77
869	Patil Shivkumar Ramrao	MahaSVC /6582	At Post Satave, Tal Panhala, Dist.Kolhapur-416114	B.V.Sc&AH/M PKV/01	28.3.79
870	Patil Vilas Dattatraya	MahaSVC /6584	At post Koge, TAL Karveer, Dist. Kolhapur	B.V.Sc&AH/M PKV/01	10.7.79
871	Patwari Narendra Kumar Chhitubhai	GujSVC/2 399/02	Darbar Road, Lalbhai Sheth Street, Rajpipla, Narmada- .393145	BVSc&AH/GA U/02	10.2.80
872	Pavankumar, S/o Sh Chandrabhushan Prasad Gupta	MPSVC/2 034/02	Behind Chandbari Hunaman Mandir, Near Bus Stand, Jhajha Dt- Jamuai, Bihar-811308	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	4.3.76
873	Pawan Kumar Singhal	RajSVC/2 935/03	Old Grain Mandi Swaimadhampur, Raj	BVSc&AH/RA U/03	01.1.78

SRNO	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
874	Pawan Kumar, S/o Sri Jagdish Prasad	BiharSVC/2185/01	Vill-Kashidih, PO-Sakchi, Thane-Sakchi Dt-East Singhbhum	BVSc&AH/BA U/01	8.5.76
875	Pedulwar Sapna Nilkantha	MahaSVC/6651	Medical Complex, Qtr. No. D/7, Gadchiroli, Dt-Gadchiroli	BVSc&AH/MA FSU/02	5.7.80
876	Pitabasa Sahu, S/o Sh Harihar Sahu	OrissaSV C/1881/03	At-Babajitota Street, PO-Berhampur-1, Dt-Ganjam	BVSc&AH/OU A&T/03	20.6.76
877	Piyush Goyal, S/o A.C. Goyal	UPSVC/3574/02	78/3, National Road, Luxman Chowk, Dehradun	BVSc&AH/GB PUA&T/96	18.8.72
878	Piyush Kumar Singh, S/o Late Sh Prem Narayan Singh	Bihar SVC/2105/01	Vill-Aliganj, PO-Laukahi, Thane-Barhra Kothi, Dt-Purnea, Pin-854202	BVSc&AH/RA U/00	23.10.73
879	Pompi S. Marak, D/o Sh B.M. Rechil	MeghSVC/197/02	Tetengkol, W. Garo Hills, Dist-Tura-794001	BVSc&AH/AA U/02	18.6.76
880	Pooja Tiwari, D/o Sh A.K. Tiwari	UPSVC/3527/02	12 Avas Vikas Amaniganj, Dt-Faizabad UP	BVSc&AH/GB PUA&T/00	25.6.78
881	Potdar Balaji Kishanrao	MahaSVC/6662	At & Post Shahapur, Tal, Begloor, Dist. Nanded	B.V.Sc&AH/M AU/01	05.6.77
882	Potluru Ravikumar S/o Lakshminarayana	APSVC/3870/02	Narpala, d Anantapur Dt-515 425 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	15.03.78
883	Prabhadeep Singh, S/o Sh Baldev Singh	Pb. SVC/2404/03	213, Medical Enclave, Amritsar	BVSc&AH/PA U/02	11.1.79
884	Prabhat Kumar Pandey, S/o Dr. Ram Sakha Pandey	BiharSVC/2138/01	Vill-Bhokri, Po-Khajra, Thana-Mohania, Dt-Bhabua Kaimur	BVSc&AH/BA U/01	9.12.75
885	Prabhat Jha, S/o Shri Vijayanand Jha	MPSVC/2082/02	M.S. Dharve Delight Market South Civil Lines, Jabalpur	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	1.9.77
886	Prabhat Kumar Jena, S/o Sh Radhashyam Jena	OrissaSV C/1907/03	At-Alupataan, PO-Satapada, P.S.-Brahmagiri, Dt-Puri-752011	BVSc&AH/OU A&T/03	22.4.77
887	Prabhata Kumar Patra, S/o Sh Bhubaneswar Patra	OrissaSV C/1921/03	At/PO-Balanga, Dt-Puri	BVSc&AH/OU A&T/03	15.5.77
888	Prabhu Omprakash Shrivastava, S/o Shri A.P. Shrivastava	MPSVC/2130/03	F-85/42 1250, Second Stop Bhopal-462003	BVSc&AH/JLN KVV/77-78	4.7.55
889	Pradeep K.R.	KeralaSV C/2716/02	KP. IX/465, "Kripa" PJRRA-59, Pothujanam Lane, Kumarapuram, Medical Coll, PO-Trivandrum	BVSc&AH/KA U/02	03.5.78
890	Pradeep Kumar G.B. S/o Bannappa Gowda	KarnaSVC/3401	Nagarakadegi Post Hosanagara TQ. Shimoga Dist	BVSc&AH/UA S, B'lore/02	01.11.78

SNO	NAME	REC. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
891	Pradeep Kumar N Kondoji S/o Nagapapa M.Kondoji	KarnaSVC /3349	No. 331, 24th Block, CPWD Quarters 27the Main, 13th Cross HSR Layout Sector Blngalore-34	BVSc&AH/UA S,Dharwad/02	05.1.79
892	Pradeep Kumar, S/o Sh Lilu Ram	HarSVC/1 744	VPO Jhal, The-Kosli Rewari	BVSc&AH/CC SHAU/02	14.8.79
893	Pradeep M.A	KeralaSV C/2752/02	Mangottil House, Anjumana, Mamangalam, Edappally, P.O Kochi-24	BVSc&AH/KA U/02	24.12.76
894	Pradeep S.V.	KeralaSV C/2729/02	S.V. Cottage, Vazhuthoor, Nevyattinkar P.O. Trivandrum-695121	BVSc&AH/KA U/02	21.5.78
895	Pradip Mishra, S/o Shri Jagdishpd Mishra	MPSVC/2 098/02	76-C Vaishaling, Annapurna Rd, Indore-452009	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	1.1.76
896	Prafulla Kumar Naik, S/o Sh Bishwamar Naik	Pb.SVC/2 399/03	2015/1, Gobind Nagar, Ludhiana	BVSc&AH/OU A&T/2000	25.8.71
897	Prajapati Mehendrakumar Dahyabhai	GujSVC/2 445/03	At. Chandranagar, Dabhala, Vijapur, Mehsana-382865	BVSc&AH/GA U/02	05.02.79
898	Prakash Babu B., S/o Sh.Reddappa	APSVC/38 57/03	D.No.1-153-2, Sairam Street, Near Cuddapah Highway, Piler, Chittoor Dt., (A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	11.06.76
899	Prakashchand Himanshu, S/o Late Sh Mahabir Prasad	BiharSVC/ 2219/02	Vill-Majfare, PO- Barddhi, Thane-Ishlampur, Dt- Nalanda	BVSc&AH/RA U/02	26.12.72
900	Pramod Kumar Agarwal	RajSVC/2 878/03	48-D Radha Nagar, Mathura, U.P	BVSc&AH/GB PUA&T/91	7.1.68
901	Pranav Kumar, S/o Sri Jai Prakash Narayan Singh	BiharSVC/ 2218/02	Vill-Majhaul, PO-Majhaul, Tola- Mathuramai Dt-Begusarai	BVSc&AH/AN GRAU/01	16.4.77
902	Prasana Kumar Rath, S/o Sh Prahallad Rath	OrissaSV C/1880/78	At-Pitambarpur, PO- Kundheihat, Via- Bangurigan, Dt-Puri-752108	BVSc&AH/OU A&T/03	7.7.78
903	Prasanna Kumar Das, S/o Sh Fakir Charan Das	OrissaSV C/1857/02	C/o Fakir Charan Das, At- Chala, PO&Dt-Jagatsinghpur- 754103	BVSc&AH/OU A&T/01	11.6.78
904	Prashanth. J.K. S/o Jayanna T.S.	KarnaSVC /3419	125, 2ND Main, Ksrct Layout 2nd Phase, JP Nagar, Bangalore 560078	BVSc&AH/UA S;B'lore/02	06.05.79
905	Prasun Dubey, S/o Shri Devidatt Dubey	MPSVC/2 092/02	Near Mahamana School, Bichiya Rewa	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	17.3.78
906	Prathapa Reddy B.T. S/o Thippaiah Reddy	KarnaSVC /3330	Thimmaiah Naidu Building, Main Road Hosadurga, Chitradurga Dist	BVSc/UAS B'LORE/81	18.2.57

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
907	Pratima Kumari, S/o Sri Mathura Nand Prasad	BiharSVC/ 2198/02	Vill-Auria, PO-Auria, Thane-Sadar, Dt-Hazaribagh	BVSc&AH/BA U/01	13.4.76
908	Pratima Kumari, S/o Sh Ram Prakash Rai	BiharSVC/ 2141/01	Vill-Tharpakhna, PO-Ranchi, Thana: Lalpur, Dt-Ranchi	BVSc&AH/BA U/01	10.1.75
909	Prava Mayengbam	ManiSVC/ 377/02	Keishamthong Irom Pukhri, Mapal, Imphal	BVSc&AH/AA U/02	21.12.78
910	Praveen Dutt Sharma, S/o Sh R.P.Sharma	UPSVC/3 579/02	H.No. 1-2 Set-12 Noida UP	BVSc&AH/CC SHAU/02	28.10.78
911	Preet Mohinder Singh, S/o Sh Inderjeet Singh	Pb.SVC/2 355/02	780 Harnek Ng, Adda Dakha Mandil Mullanpur, Ludhiana-141101	BVSc&AH/PA U/02	15.12.79
912	Preethy M.S.	KeralaSV C/2766/02	K.P. VIII/70A, Sharanya Nivas Kallarathala, Karakonam P.O, Trivandrum-695504	BVSc&AH/TN V&ASU/02	4.12.77
913	Preeti Arora, D/o Sh P.P.Arora	UPSVC/3 663/03	A-222 Mangal Apt. Vasundhra Enclave Delhi-16	BVSc&AH/JNK VV/95	24.9.70
914	Prehlad Kumar Meena	RajSVC/2 970/03	Village Hicher Post--- Harigarh Khanpur Jhalawar, Raj	BVSc&AH/RA U/03	04.9.73
915	Premjo Palathingal	KeralaSV C/2732/02	Palathingal House Near R.C. Church, Kattoor P.O. Thrissur-680702	BVSc&AH/KA U/02	1.3.78
916	Premmananda Satapathy, S/o Sh Panchana Satapathy	OrissaSV C/1870/02	At/PO-Routapada, Via-Begunia, Dt-Khurda	BVSc&AH/OU A&T/01	23.6.78
917	Premnarayan Jatav, S/o Shri Ratanlal Jatav	MPSVC/2 060/02	12/132 Kamad Road, Indragarh, Datia-475675	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	18.11.74
918	Pritam Sarkar, S/o Haripada Sarkar	TripuraVC /145/02	2 No Kshudiram Palli, PO-Amarpur Tripura (S)	BVSc&AH/BC KVV/93	2.12.70
919	Pritee Gangwar, D/o Sh O.P.Gangwar	UPSVC/3 563/02	437 OPP-Hartmann College, Ashraf Khan, Chawani Izatnagar	BVSc&AH/GB PUA&T/02	26.7.75
920	Promod Kumar, S/o Sri Raj Kumar Prasad	BiharSVC/ 2123/01	Vill-Barandi, PO-Barandi, Thane-Rahui, Dt-Nalanda	BVSc&AH/RA U/00	13.4.78
921	Punam Kumari, S/o Sri Bhushan Kumar Choudhary	BiharSVC/ 2196/01	Vill-Subhkaranganj, PO-Daulatpur, Thane-Arrah Dt-Bhojpur	BVSc&AH/BA U/01	28.7.75
922	Puneet Parashar, S/o Sh Hari Krishan	Pb.SVC/2 359/02	Moh. Pathakan Nawan Shahr-144514	BVSc&AH/PA U/02	2.6.74
923	Puran Ram Suthar	RajSVC/2 919/03	VPO- Phephana, Nohar, Hanumangarh, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	17.4.72

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
924	Purnendu Narayan de,S/o Sh Nripendra Narayan De	TripuraVC /139/02	9/3,Krishnanagar Nutan Palli,Agartala,Tripura (West)	BVSc&AH/BC KVV/79	5.4.55
925	Purohit Kailash Chand	RajSVC/2 896/02	D-142, Anand Vihar Railway Colony Jagatpura Jaipur, Raj.	BVSc&AH/UNI of Udaipur/68	15.11.45
926	Purshottam Kumar Majhi, S/o Sh Maheshwar Prasad Majhi	BiharSVC/ 2125/01	Vill-Hridayganj, PO- Katihar, Thane-Katihar, Dt- Kathiar	BVSc&AH/RA U/99	7.8.75
927	Pushendra Kumar	RajSVC/2 959/03	132-K.V.G.S.S. R.S.E.B. Sadulpur Churu Raj	BVSc&AH/RA U/03	11.7.75
928	Pushpendra Singh,S/o Shri Maniraj Singh	MPSVC/2 053/02	Gram Tiwarigama,PO- Deotalap,Dt-Rawa	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	20.7.77
929	Puttappa. D.R. s/O Dodmane Rachappa	KarnaSVC /3382	Yelkundli Post, Shuntikoppa Sagar TQ, Shimoga Dist.	BVSc&AH/UA S,Dharwad/02	20.7.79
930	Puttaraju R.C. S/o C. Chikkanna	KarnaSVC /3336	Gandasi Post Arasikere TQ, Hasan Dist.	BVSc&AH/UA S,Dharwad/02	13.4.80
931	Quraishi Niyaz Ahmed	MahaSVC /6575	Plot No.118,Rathod Layout Anandnagar,Behind Police Line Takli,Nagpur	B.V.Sc&AH/Na gpur Uni/65	18.12.39
932	R. Sreedhar S/o Ramaiah	APSVC/39 28/03	Kallepally, Bejjanki(M), Karimnagar Dt-505528 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2000	10.4.69
933	R.Kishore Kumar,S/o Sh.R.Rajeswar Rao	OrissaSV C/1860/02	Flat No.102,Block-E,Sriram Vihar Apartment,Nayapalli,Bhubaneswar-751012	BVSc&AH/AN GRAU/00	6.4.77
934	R.R. Kumar,S/o Sh Madan Prasad	UPSVC/3 594/02	Prasad Clinic Sikta PO-Sikta Bazar,Dt-Champaran	BVSc&AH/GB PUA&T/02	15.9.78
935	R.Rangaswamy Polepalli S/o Pedda Rangaiah	APSVC/38 69/02	C/o S.N.G. Swamy Medical Stores, Komarole, Prakasam Dt.-523 373	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	01.07.79
936	R.S.Rajmani,S/o Sh Ram Sevak Sinah	BiharSVC/ 2220/02	Vill-Bairagi,PO- R.S.Gaya, Thane-Delta,Dt- Gaya	BVSc&AH/RA U/02	1.12.73
937	R.S.Upadhyay,S/o Late Sh G.S.Upadhyay	UPSVC/3 625/02	B-22 Motikunj Mathura	BVSc&AH/JNK VCV/02	27.10.46
938	Rabindra Bharti,S/o Sri Mahendra Bharti	BiharSVC/ 2178/01	Vill-Khuthan,PO- Khuthan,Thane-Khuthan,Dt- Bhojpur	BVSc&AH/RA U/01	6.10.74
939	Rabindra Kumar,S/o Sri Surendra Prasad	BiharSVC/ 2129/01	Vill-Mohanng Shastring,PO- Chapra,Thane:Chapra,Dt- Chapra	BVSc&AH/CS AUAT/01	30.10.76
940	Racha Neelakanth,S/o Sh.Rama Murthy	APSVC/38 60/02	Qr.No.BE 210,'D' Colony,KPTS,Palaoncha,Khammam Dt-507115(A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	18.08.78

SRNO	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
941	Radhakrishna .P S/o Shankar	APSVC/38 98/02	Qt.7 Block, 14, A.R.Police Lines, Opp: A.I.R. Station, Adilabad-504001 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	24.7.78
942	Radhey Shyam Meen	RajSVC/2 958/03	V/p-Balameri Teh Mahwa Dausa, Raj	BVSc&AH/RA U/03	20.7.75
943	Raghavendra A.G. S/o Gurusidda Shetty	KarnaSVC /3351	No 587,2nd Cross 7 'E' Main 1st Stage Hebbal, Mysore-16	BVSc&AH/UA S B'LORE/02	26.08.78
944	Raghurame Gowda V. S/o Venkatesh K.	KarnaSVC /3413	No. 1440/1. 4th Cross 13th Ward, P.C. Extn. Kolar 563101	BVSc/UAS,B'lo re/80	17.8.55
945	Rahul Arya,S/o Shri Vaidyanath Pd Arya	VCI/2454/ 04	Anandgaram Street No.- 3,Morhabadi Maidan,North Ranchi Jharkhand	BVSc&AH/BA U/03	21.7.79
946	Rahul Dev,S/o Sh Parmod Kur.	HPSVC/6 50/02	Vill&PO-Kilba,The- Shangal,Dt-Kinnaur,HP	BVSc&AH/RA U/03	1.1.77
947	Rahul Gautam,S/o Shri Ramsevak Gautam	MPSVC/2 111/03	Aaswala Sa Mill Manpur, Lal Barra Dt-Balaghat	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	29.8.77
948	Raj Kumar Ahlawat,S/o Sh Suraj Bhan	HarSVC/1 741	118,Sector-15-A,Hisar	BVSc&AH/CC SHAU/02	14.6.78
949	Raj Kumar Suman	RajSVC/2 978/03	Railway B.No.-L-A Northern Railway Workshp Jodhpur, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	08.8.73
950	Raja Sekar,S/o Sh P.Andiappan	A&NSVC/ 87/02	C/o P.Andiappen Work Asstt. Andaman PWD Bambooflat,South Andaman	BVSc/TNU&A SU/02	28.2.74
951	Rajan,S/o Sh Harish Chander	HarSVC/1 748	130/14,Moh Dogran,Hisar	BVSc&AH/CC SHAU/02	3.1.79
952	Rajani k Kala	KeralaSV C/2712/02	Hari Nivas, Vadakkevilla P.O. Kollam-691010	BVSc&AH/KA U/02	21.10.76
953	Rajapandi M.,S/o Sh.Murugesan	APSVC/38 42/02	2-93,Savalyapuram,Guntur Dt.(A.P)	BVSc./TNVAS U/2002	10.05.75
954	Rajeev Kumar,S/o Sri Bidyanagar Garai	BiharSVC/ 2172/01	Vill-Salaypur,PO- Tejhara,Thane- Akangarsarai,Dt- Nalanda	BVSc&AH/KK VP/01	8.6.76
955	Rajeev Ranjan,S/o Sri Chandranand Thakur	BiharSVC/ 2097/01	Vill-Bathnaha,PO- Sahasoul,Thane+Basanhi,Dt- Saharsa	BVSc&AH/RA U/00	2.10.74
956	Rajeev.M	KeralaSV C/2709/02	House No. 2 (Kottalil), Field View Colony, Chevayur, Kozhikode-673017	BVSc&AH/KA U/02	3.1.77
957	Rajendra Kumar Gupta	RajSVC/2 920/03	V/p-Mothpur Teh Atru Baran, Raj	BVSc&AH/RA U/03	09.5.76

SNOM	NAME	REEN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
958	Rajendra Kumar Saxena, S/o Sh P, N, Verma	VGI/2415/03	Asso. Prof., Centre for Bio-Medical Engineering, IIT, Hauz Khas, ND-16	BVSc&AH/PA U/67	23.4.43
959	Rajendra Kumar Sharma, S/o Shri kewal Prasad Sharma	MPSVC/2054/02	457, Goyal Nagar G-1 New India House, Indore-450 002	BVSc&AH/JLN KVV/76-77	1.5.44
960	Rajendran Thomas	KeralaSV C/2683/02	Kochettonnil House, Peechi P. O., Thrissur-680653	BVSc&AH/KA U/02	26.12.77
961	Rajesh Bhatia	HPSVC/648/02	VPO Balugloa, Distt Kangra, HP.	BVSc & AH/CSKHPKV/02	28.6.79
962	Rajesh K Asrani, S/o Sh Basheshar Nath	HPSVC/642/02	713 Sector-15-A, Hisar-125001, Haryana	BVSc&AH/HA U/89	11.10.65
963	Rajesh Kumar Dwivedi, S/o Sri Sarat Chand Dwivedi	BiharSVC/2130/01	Vill-Vishnupura, PO-Sakri, Thane-Arbal, Dt-Jahanabad	BVSc&AH/RA U/98	29.11.68
964	Rajesh Kumar Kabi, S/o Sh Basanta Kumar Kabi	OrissaSV C/1879/03	At: Mishrapada Chhak, PO/Dt-Angul-759122	BVSc&AH/OU A&T/03	23.5.78
965	Rajesh Kumar Singh, S/o Late Sh Audhesh Kumar Singh	BiharSVC/2148/01	Vill-Rajanpura, PO-Rajanpura, Thane-Hasanpura, Dt-Siwan	BVSc&AH/OU A&T/01	12.5.74
966	Rajesh Kumar, S/o Sh Amar Lal	Pb. SVC/2432/03	Radha Suami Colony, St. NO. 5, Fazilka (Punjab), Dt-Ferozepur-152123	BVSc&AH/PA U/01	25.3.77
967	Rajesh Roshan Meena	RajSVC/2873/02	V/P-Shankda Teh-Malarnadungar Sawaimadhopur, Rajasthan	BVSc&AH/RA U/00	10.7.75
968	Rajeshwar Prasad Yadav, S/o Late Den Nandan Prasad Yadav	BiharSVC/2120/01	Vill-Aaran, PO-Aaran, Thane-Birah, Dt-Saharsa	BVSc&AH/RA U/76	2.01.39
969	Rajeshwar Singh, S/o Sh Keshov Singh	UPSVC/3606/02	Vimal Nikatan Atrra Rd, Baberu Dt-Banda	BVSc&AH/GB PUA&T/85	8.2.66
970	Rajinder Kumar, S/o Sh Pars Ram	Pb. SVC/2344/03	VPO Begam Pur, The-Balachour, Dt- Nawan Shahr	BVSc&AH/PA U/02	3.3.75
971	RajiRaveendran	KeralaSV C/2697/02	Lekshmi Mayyanand P.O. Kollam-691303	BVSc&AH/KA U/02	31.5.79
972	Rajiv Kumar Sharma, S/o Shri Surendraprasad Sharma	MPSVC/2115/03	135, Radio Colony, Indore-452001	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	1.6.78
973	Rajiv Sharma, S/o Sh Ramsevak Sharma	MPSVC/2033/02	Near M.L.D School, Ambah, Murena	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	30.6.76
974	Rajiv Upadhyay, S/o K.C. Upadhyay	UPSVC/3618/02	25/240 New Coloney, Dt-Deoria	BVSc&AH/GB PUA&T/84	1.7.62

SNOM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
975	Rajiva Kumar Shrivastava	RajSVC/2 876/02	C/o Sh. Sunder Lal SOMANI Mangrop Bhilwara. Raj.	BVSc&AH/GB PUA&T/94	1.12.71
976	Rajkumar Garhpayale, S/o Shri E.U.Garhpayale	MPSVC/2 119/03	F-108/52,5 No.Stop Shivajing Bhopal-462016	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	4.2.75
977	Rajkumar Kurre, S/o Shri Narendra Kure	MPSVC/2 120/03	Shri Vasant Kurre, 114/3, North Musakhedi Indore-452018	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	15.8.77
978	Rajmane Shubhangi Uttam	MahaSVC /6691	At Post Mardi, Tal-Man, Dt- Satara	BVSc&AH/MA FSU/02	7.7.80
979	Rajnish Chander S/o Sh Om Parkash	HPSVC/6 33/02	H. No. 76, Ward No. 3, Paratp Nagar, Hamipur HP	BVSc & AH/CSKHPKV/ 02	09.6.78
980	Rajnish Sharma, S/o Harish Kumar	Pb.SVC/2 349/02	89/2 Guru Nanak Nagar, Opp Sports College KPT Road, Jalandhar	BVSc&AH/PA U/01	23.10.78
981	Raju.S	KeralaSV C/2764/02	H.No.III/491, Thookupalam, Ka runapuram, Udumpanchola, Id uuki-627115	BVSc/TNV&A SU/96	15.5.70
982	Rajul Saxana, S/o Sh R.C. Saxana	UPSVC/3 596/02	V-42 Rajendra Nagar Bareilly	BVSc&AH/GB PUA&T/02	1.7.78
983	Rajya Laxmi Veeranki D/o Koteswarda Rao	APSVC/38 72/02	Veerankivaripalem, Kaunikivaripalem (P), Nagaram (M) Guntur Dt. A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	06.06.78
984	Rakesh Kumar Chittora	RajSVC/2 910/03	V/p-Namana Bundi, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	30.4.77
985	Rakesh Kumar Chittora, S/o Sh Mahaveer Pd Chittora	VCI/2449/ 04	VPO -Namana, Dt- Bundi, Rajasthan-323022	BVSc&AH/RA U/01	30.4.77
986	Rakesh Kumar Sharma	RajSVC/2 900/02	V-Chainpura, P-Satpura, Jaipur, Raj.	BVSc&AH/AN GRAU/02	28.12.77
987	Rakesh Kumar, S/o Sh Raghibir dass	Pb.SVC/2 428/03	VPO-Khanina Via-Amlah, Dt- Fatehgarh Sahib	BVSc&AH/PA U/03	
988	Rakesh Purohit	RajSVC/2 940/03	Opp, Panchayat Samiti Lachhmangarh Sikar, Raj	BVSc&AH/RA U/03	22.11.76
989	Rakesh Thakur S/o Mehar Chand	HPSVC/6 46/02	Vill.Badhar, P.O. Rakhoh, Teh.Sarkaghat, Distt. Mandi, HP	BVSc & AH/CSKHPKV/ 02	09.11.79
990	Rakhe Ajay Madhukararao	MahaSVC /6642	Ambica Niwas, 27 Zilla Parishad Colony, Malegaon Rd, Nanded-431605	BVSc&AH/MA FSU/02	7.4.80
991	Rakhi K.R	KeralaSV C/2726/02	Akshara, Ravivarma Lane, Attingal P.O, Trivandrum- 695101	BVSc&AH/KA U/02	20.5.78

SNOM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
992	Rakhi,D/o Sri Manoranjan Prasad Singh	BiharSVC/2167/01	Vill-Paharichak,PO-Sonpur,Thane-Sonpur,Dt-Saran	BVSc&AH/BA U/01	29.6.76
993	Ram Das	RajSVC/2891/02	I/C Govt. Veterianry Hospital Chorimana Barmer, Raj	BV9Sc&AH/C CSHAU/96	01.4.72
994	Ram Naresh Kushro,S/o Shri Gopal Prasad Kushro	MPSVC/2061/02	Gram-Chatuwarmar,PO-Katra,Dt-Mandla,M.P.	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	25.6.75
995	Ram Prabesh Ram,S/o Sh Amichand Ram	BiharSVC/2157/01	Vill-Beretha,PO-Khartari,Thane-Chiraiya,Dt-Motihari	BVSc&AH/BA U/01	26.1.74
996	Ram Pravesh Kumar,S/o Sh Shiv Sahay Prasad	BiharSVC/2228/02	Vill-Makhdumpur Parthu,PO-Makhdumpur Parthu,Thane-Akangarsarai,Dt-Nalanda	BVSc&AH/WB UA&FS/00	1.3.77
997	Ram Pravesh Kumar,S/o Sri Bodh Narayan Prasad	BiharSVC/2216/02	Vill-Banarsi Bigha,PO-Banarsi Bigha,Thane-Islampur,Dt-Nalanda	BVSc&AH/RA U/01	12.6.73
998	Rama Mohan. A.H. S/o Narasaiah.M.	KarnaSVC/3412	Assistant Director Central Semen Collection Centre, Birur	BVSc/UAS,B'lore/77	23.11.51
999	Raman Kumar,S/o ShCharanjeet	Pb.SVC/2406/03	H.NO.B-VII/148,Gartholi Mohalla,Pathankot-145001	BVSc&AH/PA U/03	17.6.78
1000	Ramana Gouda, R.B. S/o H. Bhojappa	KarnaSVC/3339	Chigateri Post Harapanahalli to Davanagere Dist. 583127	BVSc&AH/UA S,Dharwad/02	05.5.80
1001	Ramavath Sivasankar Naik S/o Gopal Naik	APSVC/3896/02	P.H.C Pamudurthy, Buckkapatnam (M) Anantapur Dt. A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	20.5.78
1002	Rambhau Baghel,S/o Mr.Hetsingh Beghel	MPSVC/2036/02	146 Swarnakar Colony,Vidisha-464001	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	5.6.74
1003	Ramesh Byadgi Gurupadappa S/o Adivappa Byadgi	KarnaSVC/3333	Byadagi, Haverid Dist 581106	BVSc&AH/UA S,Dharwad/02	01.06.79
1004	Ramesh Chandra Banshkar,S/o Late Shri Sukke Banshkar	MPSVC/2064/02	Gram-Rajapur,Post Ladwari,Dt-Tikamgarh,MP	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	15.7.63
1005	Ramesh H.S. S/o Somashetty H.	KarnaSVC/3378	Holalagud, Aladhalli Post Mallipatna Hobli, Arakalgud TQ Hassan Dist.	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	13.4.79
1006	Rameshkumar Verma,S/o Shri Dindayal Verma	MPSVC/2125/03	Shyاملal Ahirwar Radio Colony,Chhatarpur,MP-497001	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	16.4.77
1007	Rami Redy Tivyagura S/o Sambhi Reddy	APSVC/3882/02	Modukuru, Tsundur (M), Guntur Dt-522318 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	02.01.79
1008	Ramireddy Krishna Veni,D/o R.Gangireddy	APSVC/3849/02	Remireddypalli,Vempalli(M),C uddapah Dt-516321 (A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	04.08.77

SNOM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1009	Ramkumar Sharma, S/o Mr. Kamtaprasad Sharma	MPSVC/2 047/02	41, Gayatri Bihar Thatipur Gwalior-474001	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	2.3.77
1010	Ramprakash Yadav, S/o Sh R.K.S Yadav	UPSVC/3 570/02	Vill-Sagarpur, PO- Zahoorabad, Dt-Ghazipur	BVSc&AH/GB PUA&T/02	25.8.78
1011	Ranachandrappa S.V s/O Venkataswamy	KarnaSVC /3322	Srinidhi Nilaya, Vijayanagar Extn. Near Railway Gate Chitradurga 577/501	BVSc/UAS, B'LORE/79	03.2.54
1012	Ranbir Kumar Sinha, S/o Sri Devnath Prasad	BiharSVC/ 2214/02	Vill-Kazichak, PO- Ramnathpur, Thane- Sirmere, Dt-Nalanda	BVSc&AH/RA U/02	2.8.72
1013	Ranbir Singh, S/o Sh Gurumohinder Singh	VCI/2406/ 03	640 Krishna Nagar, Gurdaspur (PB)-143521	BVSc&AH/PA U/02	9.11.77
1014	Ranbir Singh, S/o Late Sh Rampal Singh	UPSVC/3 619/02	1795/B TA Coloney Pantnagar, U.S.Nagar, U.A	BVSc&AH/GB PUA&T/00	12.11.57
1015	Ranbir Singh, S/o Sh Gurmohinder Singh	Pb.SVC/2 347/02	640/4, Krishna Nagar, Gurdaspur-143521	BVSc&AH/PA U/02	9.11.77
1016	Randhir Singh, S/o Sh Amar Singh	Pb.SVC/2 398/99	H.No.32, C/o Dr.KC Chaudhary Satguru Nagar, Ludhiana	BVSc&AH/HA U/98	14.11.74
1017	Rani Gopinath V.	KeralaSV C/2724/02	Lekshmi Vihar, Kurunthotty Lane, N.C.C Road, Poomalliyookonam, Perookada, P.O, Trivandrum- 695005	BVSc&AH/KA U/02	03.12.78
1018	Ranjan Kumar, S/o Sh Bramdeo Panjiyara	BiharSVC/ 2153/01	Vill-Makwa, PO- Magwa, Thane-Tarapur, Dt- Munger	BVSc&AH/BA U/01	25.6.74
1019	Ranjna Sood S/o Karan Chand	HPSVC/6 32/02	Vill. & P.O VPO Sujapur, Tihra, Main Bazar, Hamirpur, HP	BVSc & AH/CSKHPKV/ 02	25.2.78
1020	Rank Shantilal Govindbhai	GujSVC/2 413/02	At. Meghavadi, Jam- Kandorana, Rajkot	BVSc&AH/GA U/02	25.11.79
1021	Raote Yadao Vitthalrao	MahaSVC /6598	Plot No. 61, Near Nima Bhawan Ganesh Nager Nanded. College of Vety. Sciences & A.H. Parbhani	B.V.Sc&AH/PK V/83	3.7.57
1022	Rashmi Garg, S/o S.K.Garg	HarSVC/1 767	57-S, Model Town, Hisar	BVSc&AH/CC SHAU/93	31.10.70
1023	Rathod Subhash S/o Kishan	APSVC/39 10/03	Wagai Tanda, Indravelly (P&M), Adilabad Dt-504311 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	05.9.76
1024	Raut Vijaysinh Bhikoba	MahaSVC /6678	At Post Mariaichiwadi, Tal- Khandala, Dt-Satara	BVSc&AH/KK V/75	19.6.54

SNOM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1025	Ravi Ambothu S/o Bichya	APSVC/39 12/03	Veerlagaddathanda(V), Perur(P), Anumula(M), Nalgonda Dt-508202 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	18.6.78
1026	Ravi K.V S/o Venkatanarayanappa	KarnaSVC /3366	No. 106, Soppinabeedi Kandavarpet, Chikkaballapur Kolar Dist. 562101	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	20.7.78
1027	Ravi Kumar Mittal	RajSVC/2 916/03	C/o Durga Prasad Ram Sevak Srraf Sharrafa Bazar, Bari, Dholpur, Raj	BVSc&AH/RA U/03	07.4.77
1028	Ravi Patial S/o Sh. Ramesh Patial	HPSVC/6 31/02	Vill. & Thadoh, P.O. Bhatwara, Teh Ghumarwin, Distt. Bilaspur, HP	BVSc & AH/CSKHPKV/ 02	11.3.79
1029	Ravikuamr P.H. S/o Hanumaiah	KarnaSVC /3353	Paredoddi, Rampura Post Channapalna TQ. Bangalore Rural	BVSc&AH/UA S B'LORE/02	29.5.79
1030	Ravikumar B.P. S/o B.M. Puttaveerraiiah	KarnaSVC /3387	Ballagere Village, Purigali Post Malavalli TQ. Mandya Dist 571453	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	06.9.78
1031	Ravikumar.M.	KarnaSVC /3364	Mallandahally Village Madderi Post, Kolar TQ. & Dist , 563101	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	09.6.77
1032	Ravinder Sapal,D/o Sh Gurcharn Singh Sappal	Pb.SVC/2 425/03	33,Khalksa College,Amritsar	BVSc&AH/PA U/02-	29.7.78
1033	Ravinder Sharma,S/o Sh Jagdish Sharma	HPSVC/6 18/02	Vill&PO-Churag,The -Karsog, Distt-Mandi,HP	BVSc&AH/CS KHPKV/01	20.12.73
1034	Ravinder Singh Brar,S/o Sh Nahar Singh	Pb.SVC/2 408/03	VPO Khote,The-Nihal Singh Wala,Dt-Moga	BVSc&AH/GA U/02	6.9.78
1035	Reena Shaili Kujur,S/o Sri- Balasiyas Kujur	BiharSVC/ 2190/01	Vill-Satranji,PO- Hulhunda,Thane-Hatia,Dt- Ranchi	BVSc&AH/BA U/01	16.4.76
1036	Rekha Kumari Pokharana	RajSVC/2 969/03	C/o Sh. S.R. Jain Cloth Merchant Sathara Bazar, Bijainagar, Ajmer, Raj	BVSc&AH/RA U/03	03.9.75
1037	Reshma Jain,D/o Late Sh O.C. Jain	UPSVC/3 540/02	Flat No.1,C.S.Colony,BHU Varanasi,UP	BVSc&AH/JNK VV/00	10.7.76
1038	Ritu Grover,D/o Sh Naresh Grover	Pb.SVC/2 421/03	C/o Grover Book Depot Rly Road,Kotkapura-151204	BVSc&AH/PA U/02	4.7.78
1039	Ritu Singh,D/o Sh Rajender Singh	HarSVC/1 763	334,HBC,Jind	BVSc&AH/CC SHAU/01	26.3.78
1040	Riyaz D.B. s/O Budend Sab.P.	KarnaSVC /3385	Doddaghatta Post Channagiri TQ. Davanagere Dist.	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	18.5.78
1041	Robin G. Raj	KeralaSV C/2703/02	Thareng Peretil, Moongode P.O. Varkala, Trivandrum- 695144	BVSc&AH/KA U/02	03.3.78

SNO	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1042	Rohit Kumar, S/o Sh Guljari Lal	HarSVC/1 760	VPO Dhansu Distt- Hisar	BVSc&AH/CC SHAU/02	5.11.78
1043	Rongesnsusang, S/o I Pangerlemzung	NSVC/186 /03	C/o I Panger Lkr, Mekempong Sector, Ungme, BPO- Ungma, Mokochung-798601	BVSc&AH/RA U/00	4.5.76
1044	Roop Chand Bairwa	RajSVC/2 952/03	V/P- Sapotra Karauli, Raj	BVSc&AH/RA U/03	15.7.75
1045	Roopa Satish S/o D.V. Sathish	KarnaSVC /3416	28/4, 4th Cross 1st Block Jayanagar, Bangalore-- 560011	BVSc & AH/UAS, B'lore/ 02	01.6.79
1046	Roopa Yadav, D/o Sh Dr. Balwan Singh	UPSVC/3 550/02	117/1 N-Block Kakadev Kanpur UP	BVSc&AH/GB PUA&T/02	13.11.77
1047	Roy (Ms) Kuntola, D/o Sh Sushil Kr Roy	ASMSVC/ 2042/03	Vill-Mowatari, PO- Chapar, Dt- Dhubri, Pin-783371	BVSc&AH/AA U/02	
1048	Roy Rajeeb Kumar, S/o Shyamanta Roy	ASMSVC/ 2027/02	Amguri, Hilaidori gaon, P.O- Amguri, Dt-Dibrugarh, Pin- 785680	BVSc&AH/AA U/02	
1049	Ruby	RajSVC/2 955/03	Sri Krishan Lal Aroar Srikarnpur Spiganganagar, Raj	BVSc&AH/RA U/03	01.1.75
1050	Rupa Lakra, S/o Sri Ladhu Runda	BiharSVC/ 2226/02	Vill-Karamtoli, Bariatu Rd, PO- Ranchi Uni, Ranchi Thane- Lalpur, Dt-Ranchi	BVSc&AH/RA U/02	26.7.76
1051	Rupapara Vipul Jamanadas	GujSVC/2 407/02	Chitrakutdham-142, Behind I.O.C., Quarter Kalawad Raod, Rajkot-360005	BVSc&AH/GA U/02	24.06.79
1052	S. Premkumar	GujSVC/2 434/02	203, C-4, Mahalya Apartment, Sector-29, Gandhinagar-382029	BVSc&AH/GA U/02	27.06.80
1053	S.C.Gupta, S/o Sh S.B.Gupta	UPSVC/3 662/03	50 Navneet Ng, PO-Krishna Nagar, Dt-Mathura	BVSc&AH/Agr a Uni/72	2.7.48
1054	S.C.Saxena, S/o Late Sh J.P.Saxena	UPSVC/3 690/03	10 Rajiv Kunj Coloney, Izatnagar, Bareilly	BVSc&AH/GB PUA&T/66	7.1.44
1055	S.Ilan Govan	MahaSVC /6587	The Orintial Insurance Co Ltd., Regional Office, 1st Floor, Pune, Mumbai Rd, Shivaji Ng, Pune	BVSc/TNV&AS U/82	24.8.58
1056	S.Ihovi Swu, S/o Late Sh Salu Swu	NSVC/179 /03	C/o S. Tolivi Swu, Staff Nurse Naga Hospital Kohima, Nagaland	BVSc&AH/AA U/03	24.1.76
1057	S.K.Mishra, S/o Sh G.P.Mishra	UPSVC/3 654/03	VI&PO-Narayanpur, Dt-U.S. Nagar, U.A	BVSc&AH/GB PUA&T/90	5.3.67
1058	S.K.Sharma, S/o Sh R.S. Sharma	UPSVC/3 616/02	B-54 Ganga Vihar Colney, Chinhat Lukcnov Up	BVSc&AH/JNK VV/01	1.7.76

SNO	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1059	S.N.Singh,S/o Sh A.B.Singh	UPSVC/3 653/03	Vill-Ibrahimpur,PO- Sonpura,Dt-Pratapgarh	BVSc&AH/GB PUA&T/70	15.7.46
1060	S.R.Choudhary,S/o Sh J.R.Choudhary	UPSVC/3 657/03	Vill-Ashubajar Bariyavan,Dt- Ambadkar Nagar	BVSc&AH/GB PUA&T/92	10.12.63
1061	S.R.Singh Bali,S/o Sh L.Ram	UPSVC/3 658/03	H-242,SEC-23,Sanjay Nagar,Dt-Ghayiabad Up	BVSc&AH/Agr a Uni/71	15.1.47
1062	S.Rajasekhar,S/o Sh.Mallappa	APSVC/38 53/02	D.No.4- 3,Padmavathipuram,Tiruchan ur Road,Tirupati-517503(A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	10.07.77
1063	S.S.Rehlan,S/o Sh D.S. Rehlan	UPSVC/3 576/02	Bisati Farm PO-Bishty Patiatoh Sitarganj, Dt- U.S.Nagar	BVSc&AH/GB PUA&T/90	2.3.66
1064	Sabarish V.I.	KeralaSV C/2721/02	Srisailam, 191, Hill Gardens, Kuttanellur, Thrissur-680014	BVSc&AH/KA U/02	28.11.77
1065	Sabin George	KeralaSV C/2735/02	Kochurmannoor House, Thodanal P.O. Kottayam- 686573	BVSc&AH/KA U/02	10.10.77
1066	Sachchidanand Sahay,S/o Late Sh Rajendra Prasad	BiharSVC/ 2110/01	Vill-Sheetal Tola,PO- Arrah,Thane-Sadar Arrah,Dt- Arrah,Bhojpur	BVSc&AH/Bih ar Uni/60	15.3.41
1067	Sachin Dash,S/o Sh Niranjn Dash	OrissaSV C/1867/02	At: Renja,PO-Brajaraj Nagar,Dt-Jharsuguda	BVSc&AH/OU A&T/01	13.7.77
1068	Sahabnath Singh,S/o Sh Ram Murat Singh	UPSVC/3 508/02	VI-Dhudhuri Po-Khairuddin Pur,Dt-Azamgarh,UP	BVSc&AH/UP AU/70	18.1.46
1069	Sahkti Malik,S/o Sh Pale Ram	HarSVC/1 733	735/B/28,Bharat Colony,Rtk	BVSc&AH/CC SHAU/02	20.3.79
1070	Saikia Hriday Kamal,S/o Sh Naba Kamal Saikia	ASMSVC/ 2036/02	East Amolapatty,Nagaon-1	BVSc&AH/AA U/02	
1071	Saikia Nani Madhab,S/o Mr. Guna Lash Saikia	ASMSVC/ 2033/02	Vill&PO- Halowagaon,Barhampur,Dt- Nagaon,Pin-782141	BVSc&AH/AA U/02	
1072	Saikia Pranjal Pratim,S/o Mr Guna Ramsaikia	ASMSVC/ 2091/03	Lawkhowa Road,PO- Haibargaon,Dt-Nagaon,Pin- 782002	BVSc&AH/AA U/03	
1073	Saikia Pranjalee,D/o Mr Hom Ch Saikia	ASMSVC/ 2088/02	BVFCL Namrup,Qr.No.670/III/F,PO- Parbatpur,Dt-Dib	BVSc&AH/AA U/03	
1074	Sainudhin V.H	KeralaSV C/2763/02	Vallickadayil House, Peringala P.O., Kizhakkambalam, Ernakulam- 683565	BVSC/KAU/71	19.5.46
1075	Saira P.A	KeralaSV C/2702/02	Rahim Manzil, Punnilathu House, Edavankad P.O., Ernakulam-682502	BVSc&AH/KA U/02	09.5.78

SERIAL NO.	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1076	Sajith Purushothaman	KeralaSV C/2695/02	Sajith Sadan, Chittacodu, Maranadu P.O. Ezhukone, dKollam-691505	BVSc&AH/KA U/02	1.2.76
1077	Sajja Ravi Kumar S/o Venkata Siva Rao	APSVc/38 79/02	Pandillapali (P), Vetapalem (M), Prakasan Dt- 523184 A.P.	BVSc&AH/AN GRAU/2002	01.07.77
1078	Sakunde Deepali Tanaji	MahaSVC /6698	Dombale Chal, Near Juna Phaltan Rd, Londa, Tal- Khandala, Dt-Satara	BVSc&AH/MA FSU/02	1.1.80
1079	Salik Ram, S/o Sh Ghasi Ram	UPSVC/3 659/03	VI&PO-Modhawapur, Dt- Auraiya UP	BVSc&AH/GB PUA&T/97	14.4.69
1080	Samarsingh Rathor, S/o Sh Mr. R.B. Singh Rathor	MPSVC/2 040/02	Bank Colony, Krishnapuri, Near Morning State School Gole Ka Mandir Murar, Gwalior	BVSc&AH/JLN KVV/89-90	28.4.67
1081	Sambhu Prasad Sahu, S/o Sh Goura Charan Sahu	OrissaSV C/1858/02	At/PO-Loisaiagha, Dist- Bolangir-767020	BVSc&AH/OU A&T/01	6.7.78
1082	Samir Sahay, S/o Sri Gopaljee Sahay	BiharSVC/ 2168/01	Janki Niwas, Malvia Marg, PO- Badam Bazar, Thane-Badam Bazar, Kothwali, Dt-Hazaribagh	BVSc&AH/BA U/01	15.8.75
1083	Samrat Khurana, S/o Sh Sohan Lal Khurana	Pb.SVC/2 369/02	H.No.4826, Pt. Jai Dayal Street, Muktsar-152026	BVSc&AH/PA U/02	30.11.77
1084	Sandeep Gupta, S/o Sh Jivanlal Gupta	MPSVC/2 042/02	Karera Dt, Shivpuri, MP- 473660	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	5.7.75
1085	Sandeep Kumar Jangra, S/o Sh Badhewa Ram	HarSVC/1 742	VPO Satroad Kallan, Hisar	BVSc&AH/CC SHAU/02	19.12.79
1086	Sandeep Kumar S/o Hari Singh	HPSVC/6 27/02	Vill. Nagan, P.O. Khadanal, Paprola, Teh. Baijnath, Kangra, HP.	BVSc & AH/CSKHPKV/ 02	08.8.80
1087	Sandeep Kumar, S/o Late B. Shar	UPSVC/3 597/02	Nai Basti Wardn-3 SSU Bhashnagar, Gursarain, Jh ansi	BVSc&AH/GB PUA&T/02	15.7.78
1088	Sandeep Patil S/o Sh. Milkhi Ram	HPSVC/6 49/02	Vill. Lohat, P.O. Dumehar, Teh. Gumarwin, Distt. Bilaspur, HP	BVSc & AH/CSKHPKV/ 2K	10.10.74
1089	Sandeep Patnaik, S/o Sh B.K. Patnaik	OrissaSV C/1920/03	At/PO-Gamundi, Via- Bhanjangar, Dt-Ganjam	BVSc&AH/OU A&T/03	28.2.80
1090	Sandeep Singh, S/o Sh Brij Lal Singla & Smt. Vidya Singla	Pb.SVC/2 329/02	Kothi NO.2, Opp Bus Stand, Modi Mills, Nabha Dt- Patiala	BVSc&AH/PA U/01	8.01.77
1091	Sandeep Thakur, S/o Sh M.S. Thakur	HPSVC/6 24/02	Vill-Bachor, PO-Solan, Dt- Solan, HP	BVSc&AH/CS KHPKW01	7.8.75
1092	Sandeepkumar, S/o Sh Rajinder Singh	Pb.SVC/2 395/02	H.No.831-A/Sector 33- B, Chandigarh	BVSc&AH/Dr. PRDKVP/01	16.11.77

SNOM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1093	Sangeeth Narayan.R.	KeralaSV C/2748/02	Gangothri K.K. Madom, Parottukonam Nalanchira P.O, Trivandrum-695015	BVSc&AH/KA U/02	28.7.77
1094	Sangmesh S/o Vajinathappa	KarnaSVC /3354	Sangam, Aurad TQ Bidar Dist.	BVSc&AH/UA S,Dharwad/02	17.4.77
1095	Sanjay K. Khurana S/o Ram Narayan	HPSVC/6 41/02	498/2 A, Krishna Nagar, Haryana	BVSc & AH/CCS,HAU/ 92	22.4.70
1096	Sanjay Kumar Mahakur,S/o Sh Khunchu Mahakur	OrissaSV C/1904/03	At:Arigaon,PO-Sindurpur,Dt- Subarnapur-767019	BVSc&AH/OU A&T/03	5.8.79
1097	Sanjay Kumar Meena	RajSVC/2 897/02	H.No. 2-E-31, Mahaveer Nagar Ext. Scheme Kota, Rajasthan	BVSc&AH/G.B P U A&T/02	19.9.79
1098	Sanjay Kumar,S/o Manghat Ram&Smt Santosh Devi	Pb.SVC/2 332/02	246,Dr.Ambedkar Ng,College Rd,Sangrur	BVSc&AH/PA U/02	22.8.77
1099	Sanjay Purohit	RajSVC/2 965/03	Sedulai Colony Lalsot Dausa, Raj	BVSc&AH/RA U/03	01.7.76
1100	Sanjeeb Kumar Mahananda,S/o Sh Biranchi Narayan Mahananda	OrissaSV C/1889/03	At-Gariabahal,PO- Fashimal,Via-Jamankira,Dt- Sambalpur-768107	BVSc&AH/OU A&T/03	9.4.79
1101	Sanjeev Chauhan,S/o Sh Thakur Dass	HPSVC/6 43/02	Vill&PO-Rohanda,The- Sundernagar,Dt-Mandi,HP	BVSc&AH/CS KHPKV/01	22.1.77
1102	Sanjeev Katoch S/o Sawroop Chand	HPSVC/6 25/02	Vill. Aima(behind) Kalibari Mandir P.O. Palampur Distt. Kangr HP	BVSc & AH/CSKHPKV/ 02	04.4.78
1103	Sanjeev Kumar Sharma,S/o Sh Ram Chandra Sharma	BiharSVC/ 2144/01	Vill-Nayabazar,Po- Lakhisarai,Thana:Lakhisarai, Dt-Lakhisarai	BVSc&AH/BA U/01	5.11.73
1104	Sanjeev Kumar,S/o Sh Jag Ram	VCI/2430/ 03	Vill&PO- Bachhod,Teh0Narnaul,Dt- Mohinder Garh,Haryana	BVSc&AH/CC SHAU/2000	18.6.73
1105	Sanjula Kumari,S/o Sri Brigunath Sinha	BiharSVC/ 2133/01	Vill-Orai,Po- Jignamath,Thane- Badahiya,Dt-Siwan	BVSc&AH/BA U/01	5.8.73
1106	Sanpat Singh,S/o Sh Harphool Singh	HarSVC/1 768	40,Modern Saket Colony,Hisar	BVSc&AH/RA U/00	31.7.76
1107	Sant Singh	RajSVC/2 996/03	V-Mothiyapura P-Sarmathura Dholpur, Raj	BVSc&AH/RA U/03	10.5.77
1108	Santhosh Wodeyar D.S. S/o D.S. Anandagiri Wodayar	KarnaSVC /3403	Mylar Post, Hadagali TQ. Bellary Dist 583217	BVSc&AH/UA S,Dharwar/02	14.7.79
1109	Santhos.M	KeralaSV C/2739/02	Maranchery House, Vasupuram, Mattathukunnu, P.O. Thrissur-680684	BVSc&AH/KA U/02	30.1.77

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1110	Santosh Kumar Agrawal, S/o Sri Rajendra Prasad Agrawal	BiharSVC/2156/01	Vill-Chhipadohar, PO-Chhipadohar, Thane-Baswadiah, Dt-Latehar	BVSc&AH/BA U/01	3.1.73
1111	Santosh Kumar Bansal	RajSVC/2913/03	V/P Rajpur Shahabad Saran, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	02.3.77
1112	Santosh Kumar Gupta, S/o Sri Viswanath Prasad	BiharSVC/2212/02	Vill-Garhani, PO-Garhani, Thane-Charpokhrim, Dt-Bhojpur	BVSc&AH/WB UA&FS/01	15.12.77
1113	Santosh Kumar, S/o Sh Jugeshwari Ram	BiharSVC/2145/01	Vill-Sudha, PO-Daltonganj, Thane-Sudna, Dt-Palamu	BVSc&AH/BA U/01	5.1.69
1114	Santosh Kumar, S/o Shri Tiranlal Dehria	MPSVC/2072/02	Tagore Hall Room No.50, Veterinary College, Mhow-453456	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	19.8.76
1115	Santosh Sharma, S/o Sh Babulal Sharmaq	MPSVC/2087/02	Vidhya Market, Dabra, Dt-Gwalior-475110	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	29.12.76
1116	Saraj Kumar, S/o Sri Bachhu Singh	BiharSVC/2098/01	Vill-Pokhrama, PO-Pokhrama, Thane-Kajra, Dt-Lakhisarai	BVSc&AH/AN GRAU/00	18.12.71
1117	Sarat Chandra Mohapatra, S/o Late Sh Lokanath Mohapatra	OrissaSV C/1874/03	HIG-11-63, BDA Colony, Kapilprasad, Bhubaneswar-20	BVSc&AH/Utkal University/60	27.11.36
1118	Sarat Kumar Patra, S/o Sh Braja Bandhu Patra	OrissaSV C/1901/03	At/Po- Indupur, Dt-Keadrapara-754214	BVSc&AH/OU A&T/03	12.4.77
1119	Sarb Jeet Singh, S/o Sh Rampal Singh	Pb.SVC/2433/03	VPO-Balanwali, The Phul, Dt-Bathinda	BVSc&AH/PA U/02	4.4.78
1120	Saripalli Glory Prasanti, D/o Sh. Sampath Rao	APSVC/3864/02	H.No.7-14-55, Old Gajuwaka, Visakhapatnam-26(A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	22.06.77
1121	Saritha Movva, D/o Sh. Gandhi	APSVC/3844/02	D.No.3-28-18-121 A/1, Rajendranagar, 2nd Lane, Guntur-7 (A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	09.08.74
1122	Sarma Debabrat, S/o Sri Kabindra Sarma	ASMSVC/2018/02	Vill-Metapara, PO-Dhokipara, Dt-Darrang, Pin-7841325	BVSc&AH/AA U/01	
1123	Sarma Parag, S/o Sh Harihar Sarma	ASMSVC/2032/02	Pathsala(Santipur)PO-Pathsala, Dt-Barpeta, Pin-781325	BVSc&AH/AA U/02	
1124	Saroj Bala S/o Sh. Roshan Lal	HPSVC/640/02	12-A- Housing Board Colony Holta Palampur, Distt. Kangra, HP	BVSc & AH/JNKV/86	21.9.56
1125	Saroj Kumar Thakur, S/o Sri Dinesh Kant Thakur	BiharSVC/2149/01	Vill-Kariman, PO-Kariman, Thane-Shivajinagar, Rosra, Dt-Samastipur	BVSc&AH/BA U/01	9.12.75
1126	Sashimongba, S/o N Imti Ao	NSVC/187/03	Vety Asstt. Surgeon, State Pig Breeding Centre, Tuensang Nagaland	BVSc&AH/AA U/92	22.2.68

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1127	Satender Kumar,S/o Sh Surja Mal	HarSVC/1 740	Sheetal Nagar,Rohtak	BVSc&AH/CC SHAU/02	1.6.79
1128	Satish Kr Shrivastava,S/o Late Shri Ambika Pd Shrivastava	MPSVC/2 063/02	H.NO.54,Krishna Vihar Colony Wear House Behind Gopalganj,Sagar,MP-470001	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	7.6.63
1129	Satish Kumar G.C.S/o Chandrappa G.	KarnaSVC /3392	No. 1795, Sanjeevini Nagar Shakara Nagara Post Bangalore 560 0 92	BVSc&AH/UA S,B'llore/02	11.4.80
1130	Satish Kumar Sharma	RajSVC/2 957/03	H.No. 319 Basant Vihar Ddabari Kota, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	20.7.75
1131	Satish Kumar,S/o sri Bindaewari Singh	BiharSVC/ 2170/01	Vill-Tupudana,PO-Hatia,Thane-Jagganathpur Namkum,Dt-Ranchi	BVSc&AH/BA U/01	9.8.72
1132	Satish Kumar,S/o Sri Sravan Kumar	BiharSVC/ 2204/02	Vill-Chistipur,PO-Chistipur,Thane-Chandi,Dt-Nalanda	BVSc&AH/MA U/01	7.7.75
1133	Satishkumar Upadhyay,S/o Shri Chadradarshan Upadhyay	MPSVC/2 123/03	Shri Laxmikant Pande,North Karondiya Near Sanjay Gandhi College Sidhi	BVSc&AH/JLN KVV/98-99	1.7.73
1134	Satnam Singh S/o Sh. Paramjit Singh	HPSVC/6 34/02	Dr. Satnam Singh, 3/985 Dogar Basti, Farid Kot, 151203	BVSc & AH/Pun Agri.Uni/02	17.3.72
1135	Satpal,S/o Sh Balwan Singh	HarSVC/1 729	VPO Dangra,Distt- Fatehabad	BVSc&AH/CC SHAU/02	8.7.79
1136	Satwinder Singh,S/o Sh Pritam Singh	Pb.SVC/2 396/03	VPO Mullanwal,The&Dt-Gurdaspur(PB)	BVSc&AH/GK VV/02	6.4.78
1137	Satya Prakash Singh,S/o Sh Sahdeo Prakash Singh	BiharSVC/ 2104/01	Vill-Barki Mishiya,PO-Sirmere,Thane-Sirmere,Dt-Nalanda-811104	BVSc&AH/RA U/01	23.9.77
1138	Satyandra Kumar,S/o Sh V.S.Yadav	UPSVC/3 544/02	VI&PO-Kaithala,Dt-Bulandshahar	BVSc&AH/GB PUA&T/02	1.12.69
1139	Satyaprakash ,S/o Sh Srikrishna Ashok	UPSVC/3 603/02	D-74 Kondli Nagar,Sankwar Nurshing Home,Delhi-96	BVSc&AH/JNK VV/02	1.7.78
1140	Sayed Amanulla Hazmodin	MahaSVC /6704	G-3/8 Omkar Garden Pune Panshat Rd,Manik Baug Sihhagad Road,Pune	BVSc&AH/MA U/99	15.1.75
1141	Sayed Arif Rasul	MahaSVC /6602	At. Yeole Wadi, Post-Tal-Rahrui, Dist-Ahemadnagar-413705	B.V.Sc&AH/M AU/01	11.10.78
1142	Seema Agarwal,S/o Sri Govind Prasad Agarwal	BiharSVC/ 2134/01	Vill-Kadru,PO-Hinoo,Thane-Agrora,Dt-Ranchi	BVSc&AH/BA U/01	1.10.76
1143	Seema.S.	KeralaSV C/2684/02	Saarika Koftamukal, Nalanchira P.O. Trivandrum-695015	BVSc&AH/KA U/02	01.1.78

SERIAL NO.	NAME	RESN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	AGE
1144	Sekinjose	KeralaSV C/2758/02	P.P.I-530 Idayamkottam Attukal, Panayamuttom P.O, Trivandrum-695561	BVSc&AH/TN V&ASU/00	21.6.76
1145	Sency Mathew	KeralaSV C/2761/02	Malayil House, Kangazha P.O, Pathanadu, Kottayam- 686541	BVSc&AH/AA U/02	1.12.78
1146	Senthil Murugan S.	KeralaSV C/2762/02	C3, Kerala Feeds Qrs Feed Ng, Kerala Feeds Ltd, Kallattunkara, Irinjalkuda, Thrissur-680683	BVSc/TNV&A SU/93	12.1.70
1147	Seyievilie, S/o Satuo Angami	NSVC/183 /03	C/o Satuo Angami, NBCC Kohima-797001, Naga Bazar, Nagaland	BVSc&AH/RA U/03	24.1.76
1148	Shaikh Md. Ajmat Shaikh Mouiana	MahaSVC /6639	Deshmukh Nagar, Biloli, Tal- Biloli, Dt-Nanded	BVSc&AH/MA FSU/02	15.6.78
1149	Shaili Jain, D/o Shri Rajkumar Singh Jain	MPSVC/2 109/03	Block-4, Flat No. 5, Shubham Complex Shinde Ki Chhawni Naugala Rd, Lashkar Gwalior, MP	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	4.5.78
1150	Shambhu Saran, S/o Sh Ramashis Ram	BiharSVC/ 2114/01	Vill-Dhamna, PO- Bhakura, Thane-Tarai, Dt- Bhojpur(Arrah)	BVSc&AH/RA U/00	25.10.75
1151	Shankar Singh, S/o Sh Ram Singh	BiharSVC/ 2109/01	Vill-Kaukhar, PO- Gavirah, Thane- Reghunathpur, Dt-Siwan, Pin- 841509	BVSc&AH/RA U/00	10.10.75
1152	Shankar Tudu, S/o Sri Babu Ram Tudu	BiharSVC/ 2161/01	Vill-Bhurkundi, PO- Palojori, Thane-Palojori, Dt- Deoghar	BVSc&AH/BA U/01	6.1.75
1153	Shankaregowda, A.J. S/o Jagathigowda.N	KarnaSVC /3326	Alesandre Post Nagamangala TQ. Mandya Dist-5710418	BVSc&AH/UA S, B'LORE/02	13.5.74
1154	Sharma Kamleshchandra Santram	MahaSVC /6613	Aary Milk Colony, UN- 11, S.Q.I, Aary Goregaon, Mumbai-65	B.V.Sc&AH/JN KVV/84-85	01.07.61
1155	Sharma Pranjal Jyoti, S/o Mr Binod Ch. Sharma	ASMSVC/ 2016/02	A.T.Road, Bobejia, Nagaon, As sam	BVSc&AH/AA U/01	
1156	Sharma(Ms)Bonny, D/o Sh Dr.A.Sharma	ASMSVC/ 2040/02	Zoo Narengi Road, Bye Lone- 8, Guwahati-21	BVSc&AH/AA U/02	
1157	Shashi Kant Sharma	RajSVC/2 877/02	B-3/281 Sudarshana Nagar, Bikaner, Raj	BVSc&AH/RA U/96	25.9.70
1158	Shashidhara, Y.M S/o Marulappa C.	KarnaSVC /3347	Yechagondanahally, Madalu Post Arasikere TQ, Hassan DIS.	BVSc&AH/UA S, Dharwad/02	11.7.79
1159	Shekhar Yadav S/o Sh Bani Singh	HarSVC/1 730	R.NO.-2, Shivaji Hostel, HAU Hisar	BVSc&AH/CC SHAU/02	23.12.80

क्रमांक	नाम	रेकॉर्ड नं.	पता	योग्यता	अंक
1160	Shelley Jain, S/o Sh Om Prakash	HarSVC/1 771	349-9 Urban State, Karnal	BVSc&AH/PA U/02	31.3.80
1161	Shembekar Dayaram Zodbaji	MahaSVC /6677	Behind the Gawande Engineering Workshop, Nr S.T. BusStand Tal-Warud, Dt- Amravati	BVSc&AH/PK V/78	18.8.55
1162	Shemkar Shraman, S/o Shri Subhashchand Jain	MPSVC/2 103/02	254 Bhavyabhawan Gadipahatak Jabalpur-482002	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	5.3.77
1163	Shende Nilesh Gulabrao	MahaSVC /6627	At Post Panaj, Tal-Akot, Dist- Akola-444101	BVSc&AH/MA FSU/02	10.1.80
1164	Shende Vinod Haribhau	MahaSVC /6690	At post-Yeria(Dhole), Tal- Katol, Dt-Nagpur	BVSc&AH/MA FSU/02	25.11.75
1165	Shenga Emila, D/o Late Sh.T.N.Senga	SikkimSV C/80/02	Lingi, Uppar Payong, South Sikkim	BVSc&AH/WB UA&FSU/02	25.10.78
1166	Shetty Adinath Bhav Rao S/o Bhav Rao C Shetty	KarnaSVC /3324	Govrav Aourtments, 82 Mangalvar Pet Thilakavadi Belgaum	BVSc&AH/KK VP/77	06.7.53
1167	Sheyana Devaiah S/o Brig M.A. Devaiah	KarnaSVC /3394	Swaraj Bhavan, Malabar Road Virajpet, South Kodagu 571218	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	12.3.79
1168	Shibu R.S.	KeralaSV C/2768/02	Sree Ram C/Ghar, Ayyappankavu Nagar, Kilimanoor P.O. Trivandrum-695601	BVSc&AH/TN V&ASUC/03	20.7.77
1169	Shilpa Rani S/o Ramesh. N.	KarnaSVC /3379	37, NHCS Layout, III Stage, IV, Block, Basaveswar Nagar, Bangalore-79	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	12.8.80
1170	Shinde Bapusaheb Parashram	MahaSVC /6680	Pratiksha Niwas, Jatap Post-Lakh, Tal-Rahuri, Dt-Ahmednagar	BVSc&AH/MA FSU/02	7.10.79
1171	Shinde Manojkumar Dnyandeo	MahaSVC /6685	At Post Sahar Takli, Tal-Shegaon, Dt-Ahmednagar	BVSc&AH/MA FSU/02	1.6.79
1172	Shinde Milind Vilas	MahaSVC /6669	Plot 6-A/144, Sector 1, Khande Colony, New Prel, Dist Raigad	B.V.Sc&AH/KK V/99	24.12.72
1173	Shinde Prashant Laxmanrao	MahaSVC /6676	AT Post Shindewadi, Tal. Malshiras Dist. Solapur	B.V.Sc&AH/KK V/2000	23.3.78
1174	Shipra Nayak, S/o Sri Rajeshwar Nayak	BiharSVC/ 2164/01	Vill-Devi Mandap Road Ratu Rd, PO-Hesal, Thane-Sukhdeo Ng, Dt-Ranchi	BVSc&AH/BA U/01	8.10.76
1175	Shiv Kumar Tiwari, S/o Late shri Babulal Tiwari	MPSVC/2 090/02	Gram&PO-Ratanpur, The-Bagli, Dt-Dewas-455227	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	15.10.71

SNO	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1176	Shiv Kumar, S/o Sh M. Lal	UPSVC/3 670/03	Vill&PO-Kaitha, Dt-Kanpur Nagar	BVSc&AH/GB PUA&T/90	3.7.63
1177	Shivalingappa Mukartal S/o Yamanappa	KarnaSVC /3317	Shivakunj, Chalukyanagar Solapur Road, Bijapur- 586101	BVSc&AH/UA S,Dharwad/01	24.5.78
1178	Shivasharanappa Biradar S/o Gurappa	KarnaSVC /3346	Hibinahalli Post, Sindagi TQ Bijapur Dist.	BVSc&AH/UA S,Dharwad/02	21.7.78
1179	Shivendra Manijha, S/o Late Sh Kadar Nath Jha	UPSVC/3 573/02	VI&PO_Kudraha, Dt-Basti	BVSc&AH/GB PUA&T/02	31.5.76
1180	Shyam Singh Daahiya	MahaSVC /6697	H.No.C/6-1Railvihar Near DRM Complex, Ambala Canteen, Haryana	BVSc&AH/MA FSU/02	21.01.80
1181	Shyam Sundar Pandey, S/o Sh Paramananda Pandey	OrissaSV C/1919/03	At-Buromunda, Po-Gaisilat, Dt- Bargarh-768037	BVSc&AH/OU A&T/03	8.7.77
1182	Shyamal Kanti Banik, S/o Sh Amulya Chandra Banik	TripuraVC /143/02	C/o Amulya Chandra Banik Vill-Ramthakhar Para, PO- Belonia, Tripura (South)	BVSc&AH/AA U/74	18.3.51
1183	Sidharth Shankar Yadav, S/o Sri Brahmdeo	BiharSVC/ 2211/02	Vill-Phoolkia, PO- Phoolkia, Thane-Gopalpur, Dt- Bhagalpur	BVSc&AH/WB UA&FS/01	31.1.76
1184	Siju Joseph	KeralaSV C/2728/02	Chorickavumgal House, Thottakkadu P.O. Kottayam- 686539	BVSc&AH/KA U/02	3.1.76
1185	Sindhi Samiullakhan Husenkhan	GujSVC/2 437/02	RAHAT Amanpark, Near Ahmed Society, Palnour Banaskantha-385001	BVSc&AH/GA U/02	26.11.79
1186	Singh Nawal Kishor, S/o Sri Awadh Narayan Singh	ASMSVC/ 2068/02	Vill-Bandhu Barwa, PO- Ramgarhwa, Dt- Motihari (Bihar)	BVSc&AH/AA U/00	
1187	Singha (MS) Annapurna, D/o Sh Biman Kr Singha	ASMSVC/ 2031/02	B.T.Road, Lala, PO-Lala, Dt- Hailakandi, Pin-788163	BVSc&AH/AA U/02	
1188	Sisir Kumar Lenka, S/o Sh Narayan Chandra Lenka	OrissaSV C/1891/03	At-Saripal, PO-Alauti, Via- Barapada, Dt-Bhadrak- 756113	BVSc&AH/OU A&T/03	7.1.75
1189	Sisodiya Jayvir Hiteshbhai	GujSVC/2 400/02	D-2/7, Sarkari Vasahat, Ramnagar, Rander Raod, Surat	BVSc&AH/GA U/02	26.11.79
1190	Sitaram Dube, S/o Shri Nandkishore Dube	MPSVC/2 074/02	Gram&PO-Satai, The- Bijawar, Dt-Chhatarpur- 471408	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	10.6.67
1191	Siva Priya K.V.	KeralaSV C/2685/02	Karukayil House, Kalakal, Aryad North P.O. Alappuzha- 688542	BVSc&AH/KA U/02	19.7.78
1192	Siyaram Jatav, S/o Sh Mr Jagnuram Jatav	MPSVC/2 028/02	Vill-Acholi, The-Kailarus, Dt- Morena, M.P.	BVSc&AH/JLN KVV/00	10.6.73

SNOM	NAME	REFN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1193	Smitha J Augustine	KeralaSV C/2706/02	Kandoth House, Aroor P.O, Alappuzha-688534	BVSc&AH/KA U/02	25.1.78
1194	Smitha Kaimal	KeralaSV C/2730/02	Alappattu House Panamattom P.O. Koorali, Kottayam	BVSc&AH/KA U/02	1.2.79
1195	Sobha Jayaram	KeralaSV C/2755/02	Cheruvailil House Nellad P.O. Mudavoor (via), Ernakulam	BVSc&AH/KA U/02	04.4.74
1196	Solanki Nareshkumar Dudhabhai	GujSVC/2 432/02	At. & Po. Dethali, Siddhpur Patan	BVSc&AH/GA U/02	29.03.78
1197	Somnath, S/o Sh Darshan Lal&Smt Mohinder Kaur	Pb.SVC/2 325/02	Vill-Mithapur, PO-Mitha Pur, Jalandhar	BVSc&AH/PA U/02	16.7.74
1198	Sonal Thakur	RajSVC/2 933/03	106/117, Vijay Path Mansarovar Jaipur, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	01.3.76
1199	Soneram Dhakad, S/o Shri Parimal Singh Dhakad	MPSVC/2 066/02	Gram&Post-Parsoura, The- Joura, Dt-Morena-476224	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	4.6.74
1200	Sonkusale Virendra Ganpatrao	MahaSVC /6574	Sonkusale Bhavan, Ward No.5, Bazar Chowk, Khapa, Tal-Saonar, Dt- Nagpur-441101	B.V.Sc&AH/Dr. PDKV/01	17.11.78
1201	Sony Kunjappan	KeralaSV C/2757/02	Joys Villa (H), Pullichira P.O., Kollam 691304	BVSc&AH/KA U/02	13.12.77
1202	Soumi Sukla, S/o Sri Shyamal Sukhla	WBSVC/2 916	Mankar, Burdwan, Pin-713144	BVSc&AH/WB UAFS/01	1.1.78
1203	Sourabh Deori, S/o Sh U.C.Deori	VCI/2436/ 04	C/o Dr. G.C. Das, Dept of Animal Genetics, CVSc. Khanapara, G uwahati, Assam	BVSc&AH/AA U/2000	20.11.77
1204	Pravan Kumar Achary, S/o Sh. B.Purna Chandra Achary	OrissaSV C/1866/02	C/o B.Purna Ch Achary, Jyoti Ng, 3rd Lane, A/P Berhampur, Dt-Ganjam	BVSc&AH/OU A&T/01	3.10.76
1205	Sreenath, P S/o Rama Murthy	APSVC/38 86/02	Billaighgaripalli, Peddagarpadu (P), Pakala (Via), Chittoor Dt-517 112 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	25.06.77
1206	Sreenivasa, B.P., S/o Late Sh Parameshwaraiah, B	VCI/2418/ 03	Scientist(SS), IVRI, Hebbal, Ba ngalore-560024, Karnataka	BVSc/UAS'B'lo re)90	20.7.66
1207	Sreeram Chekkapalli, S/o Sh.Venkateswarlu	APSVC/38 39/02	C/o Kalla Tata Rao, H.No.1- 62, Latchipalem, Tallarevu(M), E.G., Dt.533262(A.P)	BVSc.&AH/Po ndi Univ/2002	02.05.79
1208	Srinivas G.K. S/o Chinnaiah	APSVC/39 06/02	Narsapur, Dilwarpur(MJ), Adilabad Dt. A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	02.4.77

SNO	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1209	Srinivasahgowda S.V. S/o Venkatesha Gowda	KarnaSVC/3309	Seekal Village Mylandakahalli Post Chintamani TQ. Kolar Dist	BVSc&AH/UA S, B'LORE/01	20.6.78
1210	Subeesh.S. S/o Sobhanan. S.	KarnaSVC/3363	C/o Shivanna, B.S. 6th Cross 4th Main, RMV II Stage Bangalore-94	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	20.5.80
1211	Subhas Chandra,S/o Sri Radheyshyam Mondal	BiharSVC/2135/01	Vill-Kishanpur,PO-Baunsi,Thane-Baunsi,Dt-Banka	BVSc&AH/BA U/01	11.7.73
1212	Subhash Patial	HPSVC/644/02	Vill-Uttrapur,PO-Bhawarna,The-Palamkpur,Dt-Kanra,HP	BVSc&AH/CS KHPKV/01	7.12.77
1213	Subir Das,S/o Sh Prakas Ch Das	TripuraVC/147/02	C/o Prakash Ch Das PO&Vill-Indrang,Near Govt Dairy Agartala Tripura(W)	BVSc&AH/AA U/94	4.1.69
1214	Subodh Kishore S/o S.S. Saxena	KarnaSVC/3402	IV/7, IVRI, Hebbal Bangalore -24	BVSc&AH/UA S,Agra/76	28.5.55
1215	Subodh Kumar,S/o Dr.Rajendra Prasad Singh	BiharSVC/2193/01	Vill-Dekpura,PO-Moratalau,Thane-Rahui,Dt-Nalanda	BVSc&AH/BA U/01	3.5.74
1216	Sudarshan M Dhadake S/o Maruti S Dhadake	KarnaSVC/3335	KVM,Nagar, Bijapur Road Athani 591304 Belgaum Dist.	BVSc&AH/UA S,Dharwad/02	22.7.77
1217	Sudha Kumari,S/o Sri Ayodhi Rajak	BiharSVC/2181/01	Vill-Simrahi Bazar,PO-Raghopur,Thane-Raghopur,Dt-Supaul	BVSc&AH/RA U/00	5.6.74
1218	Sudha Rani. S	KeralaSV C/2718/02	Sudhalayam, Ner Vety, Hospital, Penumpuzha, P.O. Kollam-691504	BVSc&AH/KA U/02	30.5.79
1219	Sudhanshu Samantaray,S/o Sh Dhaneswar Samantaray	OrissaSV C/1869/02	Shanti Vihar,Chauliaganj, Cuttack-4	BVSc&AH/OU A&T/01	26.6.77
1220	Sudheesh S. Nair	KeralaSV C/2733/02	Sreerangam Kavour, Chevayoor P.O Kozhikode-6730107	BVSc&AH/KA U/02	7.4.78
1221	Sudhir Kumar,S/o Sh Mukhdeo Singh	BiharSVC/2111/01	Vill-Sherullahpur(Nandgaon)PO-Shastring,Thane-Shastrinaga,Dt-Patna, Pin-800 023	BVSc&AH/RA U/00	12.1.72
1222	Sudipta Bariyar,S/o Sri Manas Gagneshwar Bariyar	BiharSVC/2197/02	Vill-Bandhpara,PO-Dumka,Thane-Dumka,Dt-Dumka	BVSc&AH/BA U/01	12.12.76
1223	Sujata Prasad,S/o Sri Dayanand Prasad	BiharSVC/2173/01	Sarad Babu Lane,PO-Sarad Babu Lane,Thane-Lower Bazar,Dt-Ranchi	BVSc&AH/BA U/01	24.6.75
1224	Sujit Saha,S/o Sri Parimal Saha	TripuraVC/149/03	C/o Sri Parimal Saha West Pratapgarh,PoA.D.Ng,Agartala,Tripura (W)	BVSc&AH/RA U/03	29.3.77

SERIAL	NAME	REGD. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1225	Sukhbir Singh, S/o Sh Chamel Singh	HarSVC/1 765	Vill-Munna Rabri, PO- Habri, Kaithal	BVSc&AH/CC SHAU/94	31.5.70
1226	Sukhbir Singh, S/o Sh Surja Mai	HarSVC/1 738	VPO Kharanti Jind	BVSc&AH/CC SHAU/02	20.5.79
1227	Sukhdeep Kaur, D/o Sh Jasmer Singh	Pb.SVC/2 378/02	108-A Aggar Nagar, Ludhiana	BVSc&AH/PA U/02	17.3.79
1228	Sukhminder Singh, S/o Sh Gurcham Singh	Pb.SVC/2 367/02	VPO Jassowal(Kular) Tehsil Jagraon Ludhiana	BVSc&AH/PA U/02	11.11.77
1229	Sukhwinder Kaur, D/o Sh Tartok Singh	Pb.SVC/2 370/02	4, Vikas Vihar, Bharum Puri, Ferozpur City	BVSc&AH/PA U/02	26.11.77
1230	Sukhwinder Singh, S/o Sh Mohinder Pal Singh & Smt Gurcham Kaur	Pb.SVC/2 328/02	H.No.1136, St.No.11, Gurbax Colony, Patiala	BVSc&AH/PA U/01	6.01.78
1231	Suma N. S/o Narasimha Reddy	KarnaSVC /3397	Kachahalli, Malur Post Sidlaghatta TQ. Kolar Dist 582102	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	7.7.79
1232	Sumer Singh	RajSVC/2 987/03	V/P-Fulka Via Anandpur Kaian The-Jaitrah Pali, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	25.6.75
1233	Sumit Sachdeva	RajSVC/2 931/03	1/36, Durga Vihar Sri Ganganagar, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	08.7.78
1234	Sumit Saxena, S/o Dr. V.B. Saxena	VC/2450/ 04	One Model Colony, Rudrapur (U.S.Ng), Utt aranchal-263153	BVSc&AH/GB PUA&T/03	29.6.80
1235	Sumita Tripathi, S/o Dr. Ashik Kumar	UPSVC/3 687/03	Vill-Devdihs PO- Baur Vyas, Dt-Santkabiragar	BVSc&AH/JNK VV/85	21.10.70
1236	Suneet Bindlesh, S/o L.M. Bindlesh	HarSVC/1 749	13, Professor Colony Kaithal	BVSc&AH/CC SHAU/02	18.7.80
1237	Suneetha A. S/o Annamalal	KarnaSVC /3398	Kumara Nivasa, Hosamane Bhadravathi, Shimoga Dist 577301	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	27.7.79
1238	Suneetha Dabbadi D/o Thippeswamy	APSVC/38 71/02	D.No. 8-2-272, Bellary Road, Rayadurg-515865 Anantapur Dt. A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	23.02.78
1239	Sunil K.N. Nagaraj K.P S/o Nagaraj K.P.	KarnaSVC /3375	Gundappaa Steet Chickmagalur-577101	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	03.10.79
1240	Sunil Kumar, S/o Sh Baleshwar Ram	BiharSVC/ 2112/01	Vill-Malkanapur, PO- Yogipur, Thane-Hilsa, Dt- Naland	BVSc&AH/RA U/01	15.8.75
1241	Sunil Kumar, S/o Sri Ram Yatan Singh	BiharSVC/ 2093/01	Vill-Baltara, PO- Fullbaria, Thane-Gogri, Dt- Khagaria, Pin-851201	BVSc&AH/RA U/00	1.1.77

SNO	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1242	Sunil Kumar. M. S/o Mallanna. G.	KarnaSVC/ /3318	Kalanakundi & Post Chamarajanagar TQ. & Dist.	BVSc&AH/UA S, B'LORE/01	20.7.78
1243	Sunil Manohar. Kushwaha, S/o sri Chamari Prasad	BiharSVC/ 2230/02	Vill-Chhabuilapur, PO- Chhailapur, Thane-Manpur, Dt- Nalanda	BVSc&AH/RA U/01	15.8.77
1244	Sunil Mathur	RajSVC/2 984/03	H.No. 1/325 Housing Board Colony Nagour, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	08.12.78
1245	Sunil Panwar, S/o Sh R.S.Panwar	UPSVC/3 712/03	71/10 Ganesh Chok Roorki Haridwar	BVSc&AH/GB PUA&T/02	17.7.79
1246	Sunil Prasad Singh, S/o Sh Suresh Prasad Singh	BiharSVC/ 2163/01	Vill-Jhikra, PO-Lakra, Thane- Rajoun, Dt-Banka	BVSc&AH/BA U/01	5.4.72
1247	Sunil Ranjan Bose, S/o Late Sh Hari Pada Bose	BiharSVC/ 2208/02	Kaveri Apartment Banderbagichi, PO-Dak Bangla Rd, Thane- Kothwali, Dt-Patna	BVSc&AH/MU/ 62	7.9.37
1248	Sunilkumar Bhandekar, S/o Shri J.L Bhandekar	MPSVC/2 121/02	207 West Nimarganj Jabalpur-482002	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	4.4.79
1249	Sunilkumar Sharma, S/o Sh Mr.Ramsanehi Sharma	MPSVC/2 037/02	10/1 Aryanagar, Gayatri Marg, Lashkar Road, Bhind	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	1.7.76
1250	Suraj Kumar Sinha, S/o Sh Awadesh Kishore Prasad	BiharSVC/ 2108/01	Moh-Tilak Nagar, Po+Thane: Begusarai, Dt-Begusarai, Pin-851101	BVSc&AH/RA U/00	3.9.74
1251	Surender Lather, S/o Sh Ram Dhari	HarSVC/1 762	VPO Budha Khera, Lothar(Jind)	BVSc&AH/CC SHAU/02	5.3.78
1252	Surender Partap Singh S/o Late Sh.Bakhat Bahadur Singh	HPSVC/6 45/02	Vill. Padaria, P.O. Orech- padaria, Distt. Main Puri (UP)	BVSc & AH/GB.PUA&T /67	01.7.46
1253	Surendra Giri, S/o Sri Nathuni Giri	BiharSVC/ 2192/01	Vill-Sikandarpur, PO- Sikandarpur, Thane- G.B.Nagar, Dt-Siwan	BVSc&AH/AA U/00	1.1.76
1254	Surendra Singh Shekhawat	RajSVC/2 951/03	D-21 Income Tax Colony Durgapura, Jaipur Raj	BVSc&AH/RA U/03	17.6.79
1255	Surendrasingh Morya, S/o Shri Gopal Singh Morya	MPSVC/2 097/02	Gram&PO-Udaigarh (Kanas)The Jobet Dt- Jhabua, MP-457994	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	21.6.79
1256	Suresh Arora, S/o Sh Sant Lal	HarSVC/1 770	917A/25 Chiryot Colony, Rohtak	BVSc&AH/RA U/01	23.8.77
1257	Suresh Chandra Kari S/o K.S.R. Chandra Rao	APSVC/38 99/02	F-3, Sai Krishna Complex, Sree-Colony, R.K. Puram Secunderabad-500056 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	03.12.77
1258	Suresh Kumar Sareen	ManiSVC/ 379/02	Dog Unit Leimakhong	BVSc&AH/PA U/70	7.8.47

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1259	Suresh Singh, S/o Sh Indrajeet Singh	UPSVC/3 548/02	VI-Etauei Dt-Ambedkarnagar	BVSc&AH/GB PUA&T/02	7.2.79
1260	Suresh Yadav, S/o Late Sh R.S. Yadav	UPSVC/3 546/02	VI-Uchaury, Po-Shekhanpur, Dt-Sultanpur	BVSc&AH/GB PUA&T/02	27.7.65
1261	Surjit Singh, S/o Shir Arjun Singh	MPSVC/2 117/03	Qtr. No.24, N-2-C-Sector, Barkheda, BHEL Bhopal-462021	BVSc&AH/MA FSU/02	7.8.78
1262	Surkar Smita Harishchandra	MahaSVC /6650	Infront of Priyadarshani Coll, B-120 Nagpur Rd, Wardha	BVSc&AH/MA FSU/02	23.11.79
1263	Suryavanshi Rahul Vasanttrao	MahaSVC /6581	Raviraj Sangli-Kolhapur Road, Atigre, Hatkanangle, Kolhapur	B.V.Sc&AH/M PKV/01	01.7.77
1264	Sushanta Kumar Naik, S/o Sh Bijay Kumar Naik	OrissaSV C/1890/03	At/PO-Kulba, Via-Sankara, Dt-Sundargarm-770029	BVSc&AH/OU A&T/03	28.10.78
1265	Sushil Kumar Pandit, S/o Shri Indradev Pandit	MPSVC/2 083/02	Dr.H.S. Singh Civil Lines Delight Jabalpur-482001	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	20.12.76
1266	Sushma G., D/o Tatayya Choudary	APSVC/38 55/02	Rayapuram(P), Amrutalur(M), Guntur Dt.-522341 (A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	15.05.77
1267	Sushma Lalita Baakhlaa, S/o Sri David Baakhlaa	BiharSVC/ 2137/01	VIII-Hadio(Torar), PO-Shila, Thana-Simria, Dt-Chatra	BVSc&AH/RA U/00	7.12.75
1268	Sushrut Arora, S/o Dr.Keshav Arora	VCI/2455/ 04	E-34 Shastri Ng, Izatnagar Bareilly, UP_243122	BVSc&AH/JNK VV/01-02	23.5.78
1269	Susil Kumar Sinha, S/o Dr Vijay Krishan Sinha	BiharSVC/ 2195/01	VIII-Morch Rd Patnacity, PO-Biagampur, Thane-Chawk, Dt-Patna	BVSc&AH/MU/ 01	7.7.38
1270	Susil Kumar Sinha, S/o Dr. Praful Kumar Ram	BiharSVC/ 2202/02	VIII-Barahaat, PO-Ishipur, Thane-Pirpaiti, Dt-Bhagalpur	BVSc&AH/BA U/01	5.1.70
1271	Susma Sara, S/o Y.K.Kandulna	BiharSVC/ 2151/01	VIII-Jaipur, PO-Jaipur, Thane-Raniya, Dt-Ranchi	BVSc&AH/BA U/01	21.9.75
1272	Susmita Rout, D/o Dr.A.K.Rout	OrissaSV C/1875/03	Pushpa Clinic, Ghorabandha Road, PO-Lohabasa, Jamshedpur-831008, Bihar	BVSc&AH/OU A&T/03	20.1.78
1273	Swapna T.P., D/o Sh T.P.Bharathan	A&NSVC/ 86/02	General Merchant Middle Point, Port Blair, Andamans	BVSc/TNV&AS U/02	10.8.78
1274	Swarnjit Singh Mago, S/o Shri Kirpal Singh Mago	MPSVC/2 055/02	Sector B.H.47, Scheme No.74 C, Vijay Nagar Indore-450002	BVSc&AH/JLN KVV/76-77	2.9.54
1275	Swathi Prakash	KeralaSV C/2694/02	Aswathi Thuravoor P.O. Cherthala, Alappuzha-688532	BVSc&AH/KA U/02	10.5.78

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1276	Swati Devi Pilli, D/o Suryanarayana Rao	APSVC/38 65/02	Plot No.53, Siraramnagar, NGO Colony, Guntur-522006(A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	09.06.78
1277	Syed Faiq Ali, S/o Sh. Syed Muneer Ali	APSVC/38 29/02	H.No.3-1-790/1, Opp. Thaggi Jail Mosque, Nimboli Adda, Hyderabad- 500027(A.P)	BVSc./APAU/1 983	18.11.43
1278	T. Sriganesh Chandra S/o Ramakrishna Rao	APSVC/39 27/03	2-2-64/37, C.E. Colony, Bagh Amberpet, Hyderabad- 500013 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	26.4.78
1279	T.B. Singh, S/o Late Sh Sidheswar Singh	BiharSVC/ 2225/02	Vill-Chandai, PO- Makhdumpur, Thane- Makhudumpur, Dt-Jahanabad	BVSc&AH/RA U/02	26.7.75
1280	T.Panday, S/o Sh J Panday	UPSVC/3 672/03	H.NO.S-17/1A-3 Sri Krishna Nagar Coloney Varanasi	BVSc&AH/GB PUA&T/68	1.2.44
1281	T.Sanjay S/o Damodara Reddy	APSVC/39 19/03	H. No.2-54, Opp: Govt. Hospital, Vidyanagar Colony Kallur(P) Khammam Dt. A.P	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	20.3.79
1282	T.Vekuto Sema, S/o Sh Tokheho Sema	NSVC/178 /03	C/o V.Kishevi Handloom&Handicraft Dept.Dimapur(HalfNagarja)- 797112	BVSc&AH/UA S'B'Idre/02	16.12.74
1283	Tajdar Anwar, S/o Dr. Ijhar Anwar	BiharSVC/ 2231/02	Vill-Pathal Kudha, PO- GPO, Thane-Lower Bazar, Dt- Ranchi	BVSc&AH/UA S, Dharwad/01	8.9.75
1284	Talapaneni Madan Mohan S/o Malakondaiah	APSVC/39 01/02	H.No. 25/1-1792, Nethaji Nagar, 8th Cross Road, Podalakuru Road, Nellore-4 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	25.4.77
1285	Talitemjen Longkumar, S/o Lt. Tekashily	NSVC/129 /00	C/o Moala Lkr. Planning&Coordination Deptt., Sectt.Complex, Kohima	BVSc&AH/Dr. PDKVP/00	10.6.72
1286	Talokar Sunil Sampatrao	MahaSVC /6577	Vikas Wadi, Qtr.No.3, Panchayat Samiti Qtrs.Jalgaon(Jamod), Dt- Buldhana-443402	B.V.Sc&AH/M AU/01	7.8.77
1287	Talukdar Anjan, S/o Sh Upendra Nath Talukdar	ASMSVC/ 2052/02	Rupnagar, Guwahati-32	BVSc&AH/AA U/02	
1288	Talukdar Bodanga, S/o Sh Dasarath Talukdar	ASMSVC/ 2024/02	Jawahar Nagar, Mandir Path Bye Lane-3, Khanapara, Ghy- 22	BVSc&AH/AA U/02	
1289	Tamboli Ravindra Laxmikant	MahaSVC /6679	Raviraj H.No.50, Bhagyanagar, Nanded, Dt-Nanded	BVSc&AH/PK V/02	1.11.64
1290	Tamilmani G, S/o Sh L.Govindon	VCI/2405/ 03	Saravana Illam, Pilparuthi (PO), Bommidu (Via) Dharmapur iDt, T.N-6345301	BVSc/TNV&AS U/97	24.7.73
1291	Tammana Gupta S/o Sh. K.K. Gupta	HPSVC/6 36/02	Handeti, Near Tel Control, Sundernagar, Mandi, HP	BVSc & AH/CSKHPKV/ 02	17.1.79

SNOM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1292	Tamuly Shantanu, S/o Mr. Bhim Kanta Tamuli	ASMSVC/ 2063/02	Bamungaon, Kamabondha Ali, Golaghat-785625	BVSc&AH/AA U/02	
1293	Tanman Kaur, D/o Sh Harmohinder Singh	Pb.SVC/2 422/03	115-C, Rajguru Nagar, Ludhiana-141004	BVSc&AH/PA U/02	4.8.78
1294	Tanuja Nadella, D/o Sh. Ramakoteswara Rao	APSVC/38 46/02	C/o Mohana Rao Yadla, 13- 16-43, Sri Niketani, Pinapadu, Tenali, Guntur Dt., (A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	04.04.78
1295	Taram Shital Sitaram	MahaSVC /6649	Ramnagar Ward No.9, Gadchiroli, Dt-Gadchiroli	BVSc&AH/MA FSU/02	8.9.78
1296	Taruna Bhati	RajSVC/2 883/02	C/o Capt, A.S. Rathore, V.O. 61, Cavalary Jaipur, Raj.	BVSc&AH/RA U/02	27.9.76
1297	Tayade Chandrakant Panditrao	MahaSVC /6597	31, Vilas Colony V.M.V Road Amravati-444604	B.V.Sc&A.H/Dr .PDKV/95	1.12.73
1298	Tekade Sachin Haribhau	MahaSVC /6635	At Post Dhaaj Khurd, Tal- Karanja, Dt-Washim-444110	BVSc&AH/MA FSU/02	2.7.79
1299	Thopireddy Nagendra Reddy S/o Obul Reddy	APSVC/38 89/02	Veeranagireddygaripalli, B.Yerragudi, Lakkireddypalli(M)Cuddapah Dt-516257 AP	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	01.6.77
1300	Thorat Rahul Anandrao	MahaSVC /6699	Pitlai Niwas Karad, Tasgaon Rd, A/P Karre, Karad, Dt-Satara	BVSc&AH/MP KV/01	22.7.37
1301	Thulimalli Susmita D/o Sh. Alankar Roa	APSVC/38 59/02	D.No.59A-21/3-2/6, Don Bosco School Road, Vijaya Nagar Colony, Auto Nagar, Vijayawada-520007	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	22.04.78
1302	Tiwari Santosh Kumar, S/o Mr. P.N.Tiwari	ASMSVC/ 2048/02	Vill&PO-Chittakhal, Dt- Siwan, Bihar	BVSc&AH/AA U/02	
1303	Tolto Metha, S/o Zakieto Metha	NSVC/182 /03	P.O.Box -469, Kohima- 797001, Nagaland	BVSc&AH/AA U/03	6.1.76
1304	U.C.Agrawal, S/o Sh Gauri Shankar	UPSVC/3 664/03	Gaurish Bhawan, Dhampur Dt- Bijnor	BVSc&AH/GB PUA&T/68	18.8.48
1305	U.K.Singh, S/o Sh R.K.Singh	UPSVC/3 676/03	VI&PO Bahiary Baghel, Dt- Deorio UP	BVSc&AH/GB PUA&T/65	5.1.45
1306	U.M.Rao Jonnalagadda, S/o Sh. Satyanarayana	APSVC/38 32/02	C/o M.V.Srinivasa Rao, Vijeta Variety Corner Main Road, Vinukonda, Guntur Dt.- 522647(A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2001	01.08.76
1307	Uday Bhusan Mahto, S/o Sri Harikanth Prasad Mahta	BiharSVC/ 2184/01	Vill-Ratnapur, PO- Ratanpur, Thane-Echak, Dt- Hazaribagh	BVSc&AH/BA U/01	29.3.76

SNOM	NAME	RESN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1308	Uday Prasad Yadav, S/o Sh. Ramsuresh Yadav	BiharSVC/ 2183/01	Vill-Gonai, PO- Supour Jamuva, Thane- Sangrampur, Dt-Munger	BVSc&AH/BA U/01	16.2.71
1309	Udaya Shree V.J.	KeralaSV C/2722/02	Muthaduthu, Kureepuzha P.O, Perinad, Kollam-691604	BVSc&AH/KA U/02	03.2.77
1310	Udayanath Mahalik	OrissaSV C/1915/03	At: Talmul Nuasahi, PO- Talmul Dt-Angul-759040	BVSc&AH/OU A&T/03	20.4.77
1311	Udgire Shankar Piraji	MahaSVC /6701	C/o Sagroli Goregaon, Tal- Biloi, Dt- Nanded	BVSc&AH/MA FSU/02	5.3.78
1312	Udharwar Sanjaykumar Vithairao	MahaSVC /6638	At Post Palaj, Tal-Bhokar, Dt- Nanded	BVSc&AH/MA FSU/02	10.6.80
1313	Uma Sankari Kuppusamy	MahaSVC /6585	Abhinandan Residency, B-14 Jagtap Nagar, Wanawadi, Dist Pune	BVSc/TNV&AS U/96	22.4.71
1314	Umasankari, K.	VCI/2435/ 03	B-14 Abhinandhan Residency, Jagtap Nagar, Wanawadi, Pune- 411040	BVSc/TNV&AS U/94	22.4.71
1315	Umendra Kumar Choudhary, S/o Sh-Ram Briksh Choudhary	BiharSVC/ 2115/01	Vill-Ichhosh, PO- Ichhosh, Thane-Rasulpur, Dt- Chapra	BVSc&AH/RA U/00	12.12.76
1316	Umesh Chandra Kattyar, S/o Sh. Gajraj Singh	UPSVC/3 542/02	VI&Po-Sari Praya, Dt-Kannauj	BVSc&AH/GB PUA&T/72	6.7.47
1317	Umesh Kiran B.N S/o Najundab	KarnaSVC /3352	No. 5, Next To Mes School Nagashettihalli, RMV II Stage Bangalore-94	BVSc&AH/UA S B'LORE/02	01.04.79
1318	Umesh Kumar Paswan, S/o Sh Ram Prit Paswan	BiharSVC/ 2233/02	Vill-Akhtiyarpur, PO- Akhtiyarpur, Thane- Sarairanjan, Dt-Samastipur	BVSc&AH/WB UA&FS/01	10.12.74
1319	Umesh Kumar, S/o Sh Prem Chand	Pb.SVC/2 372/02	M/s Ramji Dass Prem Chand Cattle Feed Merchants Sirki Bazar, H.No. 1103, Bathinda- 151005	BVSc&AH/PA U/02	11.7.77
1320	Usamali Tambali S/o Jamalsaheb Tambani	KarnaSVC /3414	Behind Post Office Sainagar Badami Bagalkote Dist	BVSc&AH/UA S, Dharwar/02	20.7.78
1321	Usendi Eknath Shankar	MahaSVC /6666	At Kanhalgaon, Ppst Potegaon, Tal Dist. Gadchiroli	B.V.Sc&AH/Dr. PDKV/01	14.7.75
1322	Vachhani Kapilkumar V	GujSVC/2 402/02	"Gopikunj", Vaniawadi Main Raod, Opp. Sub Station, Rajkot-360002	BVSc&AH/GA U/02	05.12.79
1323	Vadher Pareshkumar Naranbhai	GujSVC/2 418/02	To, Nakara, Manavadar Jungadh-362625	BVSc&AH/GA U/02	19.07.79

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1324	Vageesh Chavan S/o Megha Nayare	KarnaSVC /3371	Bevinahalli Bharamasagara Chitradurga Taluk & District 577519	BVSc&AH/UA S,Dharwad/02	23.2.80
1325	Vamsidhar Battula S/o Venkateswarl.u	APSVC/38 85/02	Head of the Dept. of Chemistry, Siddardha Lectures Colony, Amaravathi, Guntur Dt-522020 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	01.07.77
1326	Vani. S. S/o Sundar Raj A..V	KarnaSVC /3380	48, SVK Layout, III Stage W.O.C. Road, Basaveshwaranagar, Bangalore-79	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	16.4.80
1327	Vanihmuaka,S/o Sh Lalzuithanga	MizSVC/1 39/03	C/o V.L Ruata Chandmary,Aizawd,Mizoram	BVSc&AH/RA U/02	16.12.76
1328	Varda Panduranga Rao S/o Satyanarayana	APSVC/39 16/03	4/223, Nawabpeta Main Road, Opp: Girls High School, Nellore-524002 A.P.	BVSc./APAU/8 4	11.2.63
1329	Varinder Singh Gindra,S/o Sh Gurmukh Singh Gindra	Pb.SVC/2 337/02	25, South Model Gram, Opp Guru Arjun Dev Park, Ludhiana-141001	BVSc&AH/PA U/02	27.2.77
1330	Varsha Garg,D/o Sh Jai Paul Garg	Pb.SVC/2 409/03	H.NO.649/2,St.No.14,Nai Abadi Abohar-152116	BVSc&AH/PA U/01	23.9.78
1331	Vasudev Surendra Pai S/o G. Surendra Pai	KarnaSVC /3383	Gorte, Ohatkal TQ, U.K. Dist, 581320	BVSc&AH/UA S,Dharwad/02	02.7.79
1332	Veer Vikram Malhotra S.,S/o Sh O.P.Malhotra	Pb.SVC/2 366/02	H.No.24,St.No.5,Ferozepur,C antt-152001	BVSc/TNV&AS U/02	29.12.78
1333	Venkata Rao.K.V. S/o K.V. Subba Rao	APSVC/38 78/02	18-9-2, Sadasiva Buildings, Kedareswarpet, IInd Line, Vijayawada-520003 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	27.04.78
1334	Venkatachalapathy.J.N,S/o Narayanaswamy.N	KarnaSVC /3384	Nambihally, Srinivasapura TQ. Kolar Dist. 563126	BVSc&AH/UA S,B'lore/02	30.4.79
1335	Venkatesan,R,S/o Sh T.Ramasamy	VCI/2439/ 04	Primate Research Centre,National Institution of Immunology,Aruna Asaf Ali Marg,JNU Campus,N.D	BVSc/TNV&AS U/97	6.5.74
1336	Venkobapa J. Tikare S/o Jeevappa	KarnaSVC /3320	Alawandi Post Koppal TQ. & Dist	BVSc&AH/UA S,Dharwad/01	19.4.77
1337	Victor Paul D'Souza, S/o Sh.Paul D'Souza	APSVC/38 31/02	"VICSHEIL" B-137,Sainikpuri,2nd Main Road,Sainikpuri,Secunderabad-500094	BVSc./U.of Bombay/1974	23.07.47
1338	Vidhi Modi,D/o Shri Madhusudan Modi	MPSVC/2 106/03	4 Shila Compound,South Civil Lines,Jabalpur,MP-482001	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	20.6.79
1339	Vidya Avinash Govindrao	MahaSVC /6571	Manglya,Plot No.7,Shri Devnath Ng,Surji Near Tasil Anjangaon,Surji Dt-Amravati	B.V.Sc&AH/PK V/75	10.1.49

SNO	NAME	RECN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1340	Vidya Rani.K.	KeralaSV C/2740/02	Srinivas K.C. 71306, Kairali Nagar, Mulankadakom Ward, Kollan-12-691012	BVSc&AH/KA U/02	19.4.77
1341	Vidya Shankar Sinha, S/o Sri Arjun Prasad	BiharSVC/ 2217/02	Vill-Gurru, PO-Sanda, Thane- Ishlampur, Dt-Nalanda	BVSc&AH/RA U/01	1.3.77
1342	Vijay Kumar Agarwal	RajSVC/2 908/03	Bus Stand Road, Behror Alwar, Raj	BVSc&AH/RA U/03	15.7.76
1343	Vijay Kumar M., S/o Sh. Sharanaiah	APSVC/38 40/02	H.No.8-8-21, Morningally, Old Tandur, Tandur R.R.Dt.(A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2000	15.08.78
1344	Vijay Kumar Sakya, S/o Shri Babulal Sakya	MPSVC/2 068/02	M.S. Rade Antari Kailaras Dak Bungla, Murena, MP- 476224	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	8.6.77
1345	Vijay Munda, S/o Late Sarhul Munda	BiharSVC/ 2189/01	Vill-Patratu, PO- Bodeya, Thane-Kanke, Dt- Ranchi	BVSc&AH/BA U/01	15.1.73
1346	Vijay Singh Shekhawat	RajSVC/2 939/03	52, Navjeevan Colony Khatipura Jaipur, Raj	BVSc&AH/RA U/03	25.4.75
1347	Vijay Singh Yadav, S/o Sh Gian Chand Yadav	HarSVC/1 726	132, Police Colony, IIT Chowk, Hauz Khass, New Delhi-16	BVSc&AH/CC SHAU/01	30.3.77
1348	Vijaya Tiwari, D/o Mr.P.M.Tiwari	MPSVC/2 041/02	Sindhi Colony, Gandhi Ward, Bina Sagar-470113	BVSc&AH/JLN KVV/87-88	1.7.62
1349	Vijaypalsingh Jadon, S/o Mr.Chhote Singh Jadon	MPSVC/2 048/02	8/1072 Mahendra Ng, Gadaipura, Birlanagar Gwalior-474002	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	30.10.73
1350	Vijender Singh, S/o Sh Dharampal Singh	HarSVC/1 759	1487/7, Meham Rohtak	BVSc&AH/CC SHAU/02	14.11.78
1351	Vikas Galav	RajSVC/2 945/03	77-B, T.L.Township Kota, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	10.8.76
1352	Vikas Galav, S/o Sh R.S.Galav	VCI/2421/ 03	4-L-18 Rangbari, Yojna, Kota- Rajasthan-324005	BVSc&AH/RA U/01	21.4.77
1353	Vikas Saini, S/o Sh Puran Singh	HarSVC/1 743	6 Type-5, VidyutNagar, Hisar	BVSc&AH/CC SHAU/02	3.11.77
1354	Vikas Saxena, S/o Sh Kailash Chandra	UPSVC/3 549/02	H.NO.16 Shivpuri	BVSc&AH/GB PUA&T/02	23.1.79
1355	Vikas Sharma, S/o Sh Varinder Kumar	Pb.SVC/2 354/02	St.NO.5 Hira Bagh, Jagraon, Ludhiana	BVSc&AH/PA U/02	18.1.79
1356	Vikash Chandra, S/o Sh Siya Ram	UPSVC/3 569/02	Vill-Kakhanipur PO- Budhawan(Amauli)Dt- Fatehpur	BVSc&AH/GB PUA&T/02	15.5.76

SNO	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	AGE
1357	Vikram Singh	RajSVC/2 938/03	947/46, Adarsh Nagar, Ajmer, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	11.3.78
1358	Vikrant Singh Chouran	RajSVC/2 989/03	P&T Colony Q.No. -18 Type III Dadabari Kota Raj.	BVSc&AH/RA U/03	25.9.78
1359	Vinay Gaur Meena	RajSVC/2 943/03	Ram Dwara Gali Ghoron ka chowk Jodhpur, Raj	BVSc&AH/RA U/03	06.9.76
1360	Vinay Kumar Yadav	RajSVC/2 901/03	V-Moohupur PO-Bhonkar Alwar, Raj	BVSc&AH/AA U/02	28.12.77
1361	Vinay Lomesh, S/o Shri Santosh Kumar Lomesh	MPSVC/2 112/03	337, Tansen Nagar, Gwalior, M.P	BVSc&AH/MA FSU/02	24.8.77
1362	Vinay Mohan Khatri	RajSVC/2 906/03	Sardar Patel Marg, Behind Municipality Barmer, Raj	BVSc&AH/RA U/03	05.9.78
1363	Vinod Kumar Mehta, S/o Sri Baldeo Mehta	BiharSVC/ 2222/02	Vill-Bauraha, PO- Bauraha, Thane-Farjaain, Dt- Supaul	BVSc&AH/WB UA&FS/01	5.1.77
1364	Vinod Kumar S/o Sh. Chhering Tandap	HPSVC/6 35/02	Vill. & P.O Shanshe, Teh & Distt. L & Spiti, HP	BVSc & AH/CSKHPKV/ 02	18.1.77
1365	Virender, S/o Sh Lakhi Ram	HarSVC/1 751	VPO Kherkara Rohtak	BVSc&AH/CC SHAU/02	10.12.75
1366	Virendra Sharma	RajSVC/2 994/03	Vasant Vihar Sikar, Raj,	BVSc&AH/RA U/03	13.7.76
1367	Vishwanath Vittal Banti S/o Vittal R. Banti	KarnaSVC /3342	Harugeri Post, Raibag TQ, Belgaum Dist.	BVSc&AH/UA S, Dharwad/02	20.7.77
1368	Viswanath Toppo, S/o Late Sh Antu Toppo	BiharSVC/ 2162/01	Vill- Gopalganj, Chadri, PO:GPO Ranchi Thane: Lower Bazar, Dt-Ranchi	BVSc&AH/BA U/01	2.12.76
1369	Vivekanand, S/o Sh Ayodhya Pd Gupta	VCI/2447/ 04	Phulwari Sharif, Chouraha, Patna- 801505	BVSc&AH/WB UA&FS/02	26.11.78
1370	Voddepally Ramesh, S/o Sh. Ilaiyah	APSVC/38 36/02	Nachinapally, Duggondi(M), W arangal, Dt. 606331(A.P)	BVSc. & AH/AN GRAU/2001	01.06.73
1371	Waghaye Jitendra Yogesh	MahaSVC /6594	Samartha Nagar(West), Lakhani, Taq- Lakhani, Dist-Bhandra-441804	BVSc&AH/Dr. PDKV/96	9.4.73
1372	Wallambok M. Lyngdoh, S/o K.K. Marbariang	MeghSVC /202/03	Mawlai Mawroh, Shillong- 793008	BVSc&AH/AA U/03	10.1.79
1373	Wanjari Bhagchand Vasudev	MahaSVC /6622	C/o Dr. Kishor Bansod, Govt. Qtr. No. C- 12/3, Ravinagar, Nagpur	BVSc&AH/MA FSU/02	7.4.80

SERIAL	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1374	Wankhede Yogesh Ramrao	MahaSVC /6673	Dhangargalli, Mhasewad, Tal. Jalgaon, Dist. Jalgaon	B.V.Sc&AH/KK V/01	12.3.77
1375	Warade Sachinkumar Digambar	MahaSVC /6618	At Post Takarkhed, Tal Nandura, Dt-Buldhana-443103	BVSc&AH/MA FSU/02	26.1.80
1376	Wase Milind Prabhakar, S/o Prabhakar Amadast	VCI/2414/ 03	Commandent(Vet), Type- IV/11, ITBP Camp, Tigri, New Delhi	BVSc&AH/PR KVP/86	23.11.62
1377	Y. Krishna Reddy, S/o Sh. Ram Reddy	APSVC/38 30/02	H.No. 16-11- 511/D/26, Shalivahan Nagar, Dilsukhnagar, Hyderab ad(A.P)	BVSc./APAU/1 968	15.01.45
1378	Y. Manoj Arun Kumar S/o Sathyraju	APSVC/38 80/02	H.NO. 16-4, Kishan Singh Street, ATMAKUR, D Kurnool Dt-518422 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	11.06.77
1379	Y.P. Singh Pawar, S/o Sh Tika Ram Pawar	UPSVC/3 640/03	D-125 Phase- 1, Lallupuram, Modipuram, Mur ut	BVSc&AH/GB PUA&T/71	8.8.47
1380	Y. Venugopal Rao S/o Satyam	APSVC/39 09/03	H.No. 4-129/2, Naya Nagar, Kodad-508206, Nalgonda Dt. A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	13.11.74
1381	Yadala Pradeep Chandra S/o Chennaiah	APSVC/38 95/02	R.K. High School, Chakalakonda, Vinjamoor (M), Nellore Dt. 527221 A.P.	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	09.6.79
1382	Yamani Suresh, S/o Sh. Rama Murthy	APSVC/38 62/02	Gundepalli, Maripeda(M), Wara ngal Dt. 506315(A.P)	BVSc.&AH/AN GRAU/2002	25.04.78
1383	Yashoda. P. S/o Puttaabyaatappa. B.	KarnaSVC /3316	14 B.A.G S Layout New Bellayout Bangalore-94	BVSc&AH/UA S. B'LORE/01	03.2.78
1384	Yashpal Singh, S/o Sh Bani Madhav	UPSVC/3 688/03	VI&PO-Sadevpur, Dt-Hardoi, uP	BVSc&AH/GB PUA&T/92	7.7.64
1385	Yashpal Singh, S/o Sh Sujan Singh	Pb. SVC/2 396/03	1912 Maharaj Nagar, Gali No.4, Ludhiana	BVSc&AH/CC SHAU/98	20.7.75
1386	Yogananda N.S. S/o Siddagowda N.	KarnaSVC /3407/	Nayavara Post Channapatan TQ. Bangalore Rural 562108	BVSc&AH/UA S, B'lore/02	20.7.78
1387	Yogendrakumar Ghodeshwar, S/o Sh Ramdas Ghodeshwar	MPSVC/2 039/02	Post Birsa, The-Baihar, Dt- Balaghat-481051	BVSc&AH/JLN KVV/00-01	14.9.75
1388	Yogesh Gupta	RajSVC/2 934/03	Near Chauburja Bharatpur, Raj.	BVSc&AH/RA U/03	01.3.76
1389	Yogesh Gupta, S/o Sh Om Prakash Gupta	VCI/2445/ 04	152, 3rd Floor, Raja Garden, New Delhi-110 015	BVSc&AH/HA U/85	13.9.64
1390	Yogesh Kumar Gupta	RajSVC/2 974/03	C/o Rajiv Machine Store Near-Indra Circle Nagar, Bharatpur, Raj	BVSc&AH/RA U/03	03.2.75

SNUM	NAME	REGN. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1391	Yogesh Kumar Singhal	RajSVC/2 917/03	C-35, Mohan Nagar, Hindaun City Raj.	BVSc&AH/RA U/03	08.10.77
1392	Yogesh Kumar, S/o Shri Krishna Prasad Sharma	MPSVC/2 093/02	A-5 Suryanagar, Shabdarpratap Ashram, Gwalior	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	5.9.74
1393	Yogesh Singh Sengar, S/o Shri Jagdishpd Singh	MPSVC/2 095/02	Near Uppal Motor Workshop Barasaman Rewa-486001	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	1.6.78
1394	Yogeshkumar, S/o Shri Punamchand Pahariyaq	MPSVC/2 122/03	H.NO.813 Kotwali Ward Miloniganj Pahariya Marg, Jabalpur-482002	BVSc&AH/JLN KVV/01-02	29.11.72
1395	Yogi Misra, S/o Sh Narinder Singh Misra	Pb.SVC/2 357/02	H.No.1390, St.No.1, Lajpat Rai Road, Jagraon, Ludhiana	BVSc&AH/PA U/02	11.11.80
1396	Yuvaraj Hegde.M.N. S/o K. Nagappa	KarnaSVC /3390	Hiriyur Post, Bhadravathi TQ. Shimoga Dist	BVSc&AH/JA S,Dharwad/02	07.08.78
1397	Zakiya.T	KeralaSV C/2743/02	Malayil, Sivapuram, Vattoli Bazar P.O, Balussery, Kozhikode-673623	BVSc&AH/KA U/02	10.5.78
1398	Zambare Vijay Govindrao	MahaSVC /6686	Gawande Plots, Fulsawangi Rd, Mahagaon, Tal- Mahagaon, Dt-Yeotmal	BVSc&AH/MA FSU/02	18.2.77
1399	Zetewe Lekro, S/o Sh Kewetshu Lekro	NSVC/185 /03	C/o Modern Book Stall Pfutsero Pfutsero, Dt- Phek, Nagaland	BVSc&AH/AA U/03	11.2.74

In the notification number 439 dated 11.11.97 Veterinary Council of India published in Part -II, Section 3, Sub-Section (I) of the Gazette of India Extra Ordinary GSR No. 644(E) of the following change of Address may be read instead of previous addresses mentioned in the Indian Veterinary Practitioners Register, 1996 against the following serial number:-

Sl.No.	Name	Regn.No.	Change of Address
2681	Dr.Umakant Chaturvedi	0369/95	S/o Late Mr. Mathuraprasad Chaturvedi, P.Karela, Distt-Katni
1006	Dr. Kailashsingh Rajput	0028/95	S/o Mr.J.S Rajut, Mala Phatak Begumganj Distt- Raisen-464881
1672	Dr.Prashant Mahadik	0534/95	M.G.Rd, Parisar Veterinary Hospital, Shujalpur, Dt-Shajapur-465333
2203	Dr. Sangita Dhamija	297/95	D/o S.L.Sachdev, 200B Sector, Indrapuri Bhopal-462023
2908	Dr. Vani Agnihotri	232/95	D/o Late B.B.Agnihotri, F-90/15 Second Bus Stop, Tulsinagar, Bhopal-462003

In the notification number 183 dated 15.4.99 Veterinary Council of India published in Part -II, Section 3, Sub-Section (I) of the Gazette of India Extra Ordinary GSR No.269(E) of the following change of Address may be read instead of previous addresses mentioned in the Indian Veterinary Practitioners Register,1997 against the following serial number:-

Sl.No.	Name	Regn.No.	Change of Address
11	Dr.Abhilash Singh Parihar	0699/96	S/o Mr.P.S. Harihar,Imlikheda,Dt-Chhindwara -480 001
1061	Dr.Vijay Kumar More	0849/97	S/o Ramkrishna more,78,Dayanand Marg, Dhar-454001
760	Dr.Kamleshkumar Sharma	0611/96	S/o Mr. Shivnaryan Sharma,Ekta Vihar Colony,Gwalior
1419	Dr.Rakeshkumar Sharma	0896/97	S/o Mr.K.P.Sharma D-2,Shri Ramnagar Colony,Bhadoriya Market,Darpan Colony Thatipur,Murar,Gwalior
1424	Dr.Rakesh Singh	0876/97	S/o Sh. Shiromani Singh, Near Khermai Mandir,Khajuri Tola, Satna -485001
1060	Dr. Manoharlal Sharma	0750/96	S/o Mr. Sadashiv Sharma, F-8 Civil Lines, Dewas-455001
2161	Dr. Vinodkumar	0737/96	S/o Sitaram Patel ,Gram Phatehpur, P.& The Begumganj,Dt- Raisen
400	Dr. Devkrishna Parsai	0706/96	S/o Radhakrishna Parsai,Vihvaswaroop Colony, Opp Gopal Hotel, Vistan Rd, Khargone-451001
764	Dr.Kanchankumar Saxena	0743/96	Shri V.P.Saxena,13/217,Nehrunagar Rewa-486001

In the notification number 420 dated 23.8.01 Veterinary Council of India published in Part -II, Section 3, Sub-Section (I) of the Gazette of India Extra Ordinary GSR No. 600(E) of the following change of Address may be read instead of previous addresses mentioned in the Indian Veterinary Practitioners Register,1998 against the following serial number:-

Sl.No.	Name	Regn.No.	Change of Address
554	Dr.Basantkumar	0984/97	S/o Mr.Bhupalsingh,F-3 Kalimai Mandir, Jhansi Road, Shivpuri-473551
1441	Dr.Ramkumar Tyagi	0608/96	S/o Mr. Sitaram Tyagi, Jawaharganj,Dabra, Distt-Gwalior-475110

827	Dr.Bhuvaneshkumar Sahu	1337/98	S/o Sh. J.L.Choudhary, Officers Colony, Badnawar Dhar -454660
5180	Dr.Ku.Pampa Rai	1071/97	D/o Late Mr A .K .Rai,16 Ashirwad Homes Bedinagar, Jabalpur-482001
5216	Dr.Pradeepkumar Pandya	1117/97	Govt. Otr.Block Colony, Zirniya,Dt- Khargaon-451332
4489	Dr.Ku.Neena Tripathi	1149/98	278 Rachna Nagar,Bhopal-462023
28	Dr.Abhijit Shukla	1158/98	E-6MIG 124,Arear Colony,Bhopal-462016
1341	Dr.Ku.Deepali Pitre	1205/98	D/o M.S.Pitre,E-8/23 Shivkunj,Arera Colony,Bhopal-462016
322	Dr.Arvind Mahajan	1182/98	S/o S.G.Mahajan,Housing Board Colony PWD Qtrs., Bhikangaon,Khargaon
2618	Dr.Jitendra Kumar Agrawal	1380/98	S/oMr.Haribabu Agrawal,VAS Veterinary Hospital,Segaon,Distt-Khargaon
6995	Dr.Umesh Dantre	1480/98	MIG 8 Duplex,New Darpan Colony, Thatipur, Gwaliors
3998	Dr.Meghsingh Baghel Gram	1460/98	Turkpura, PO- Gopalpur,Bhind-477001
5732	Dr.Ku.Ritu Bahadur Singh Jain,1379/98		E.D.X-18,Minal Residency,Bhopal
3890	Dr.Ku.Sangita Sharma	1179/98	146/3,Hamidia Hospital Campus, Bhopal-462001

In the notification number 535 dated 22.10.01 Veterinary Council of India published in Part -II, Section 3, Sub-Section (I) of the Gazette of India Extra Ordinary GSR No. 792(E) of the following change of Address may be read instead of previous addresses mentioned in the Indian Veterinary Practitioners Register, 1999 against the following serial number:-

Sl.No.	Name	Regn.No.	Change of Address
386	Dr. Chintamani Pal Sadra,	1643/98	Itarsi Rd, Near Hanuman Mandir, Betul-460 001

Dr. ANUP BHAUMIK, Secy.
[ADVT/III/IV/141/2004-Exty.]